



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खंड 4
PART I—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 1]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 26, 1979/माघ 6, 1900

No. 1]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 26, 1979/MAGHA 6, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

रक्षा मंत्रालय

(थल सेना विभाग)

(अधिसूचनाएं)

नई दिल्ली, 26 जनवरी, 1979

सं० 1-ई दिनांक 25 जनवरी, 1979 --राष्ट्रपति महोदय महोदय दिवस (26 जनवरी, 1979) के अवसर पर निम्नलिखित जे सी ओर की सेवा बिलियमावली, 1962 के पैरा 178 के अर्थात् अवैतनिक पद प्रदान करने हेतु --

अवैतनिक कौन्सिल के रैंक में

20 लॉसेंस

1. जे सी 27849	रिमांलदार मेजर व अवैतनिक कैप्टनेट	राजबीर सिंह	31-07-79
----------------	-----------------------------------	-------------	----------

69 आंसड रेजिमेंट

2. जे सी 26481	रिमांलदार मेजर व अवैतनिक कैप्टनेट	मदन लाल	31-07-79
----------------	-----------------------------------	---------	----------

73 आंसड रेजिमेंट

3. जे सी 32948	रिमांलदार मेजर व अवैतनिक कैप्टनेट	ध्याम सिंह	30-06-79
----------------	-----------------------------------	------------	----------

रेजिमेंट आफ आर्टिलरी

4. जे सी 24302	सूबेदार मेजर व अवैतनिक कैप्टनेट	गोपाल राम	31-03-79
5. जे सी 25872	सूबेदार मेजर व अवैतनिक कैप्टनेट	के रामाकृष्णा गिल्ले	30-06-79
6. जे सी 26918	सूबेदार मेजर व अवैतनिक कैप्टनेट	कुन्वन सिंह गिल	30-04-79
7. जे सी 17315	सूबेदार मेजर व अवैतनिक कैप्टनेट	मूल चन्व	30-06-79

8. जे सी 14358	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	मुख्तार सिंह	31-03-79
9. जे सी 17398	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	रामेश्वर सिंह	31-01-79
10. जे सी 13871	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	रेणम सिंह	31-01-79
11. जे सी 17364	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	बी जे चाकुषी	30-04-79
मद्रास इंजीनियर ग्रुप			
12. जे सी 19635	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	बुगईम्बासी	31-01-79
13. जे सी 19685	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	पी सी मेघू	31-05-79
14. जे सी 22943	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	डी एम माधवन नायर	31-03-79
बंगाल इंजीनियर ग्रुप			
15. जे सी 39511	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	आनन्दराव भोंमले	30-06-79
16. जे सी 34212	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	बाबू गिहू	31-03-79
17. जे सी 25251	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	नन्दर बर्ला पाण्डे	31-07-79
18. जे सी 31484	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	धर्म पाल	30-06-79
19. जे सी 15119	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	ओगिस्वर सिंह	28-02-79
बाम्बे इंजीनियर ग्रुप			
20. जे सी 27756	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	अमर सिंह	31-03-79
21. जे सी 19044	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	बलबीर सिंह	31-01-79
22. जे सी 19041	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	जागीर सिंह	30-04-79
कोर आर सिग्नलस			
23. जे सी 31262	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	जान सिंह	31-03-79
24. जे सी 27362	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	इन्द्र सिंह	30-04-79
25. जे सी 42799	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	एन नागाधरणन	31-05-79
26. जे सी 30222	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	आर पीरुमल	31-07-79
27. जे सी 48204	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	रामेश्वर सिंह	30-04-79
क्रिगेड आर बी गार्ड्स			
28. जे सी 35570	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	पारम सिंह	31-05-79
29. जे सी 16722	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	रामजी लाल	31-01-79
बी पैराशूट रेजिमेंट			
30. जे सी 35357	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	राज सिंह	31-07-79
31. जे सी 33238	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	रुपकला सिंह	31-05-79
बी पंजाब रेजिमेंट			
32. जे सी 25283	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	लेख राम	30-06-79
33. जे सी 33539	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	बकील सिंह	31-05-79
34. जे सी 35019	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	रुप लाल	28-02-79
बी प्रोविडियरस			
35. जे सी 16780	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	अमी लाव	30-06-79
36. जे सी 16778	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	आनंद सप	30-06-79
37. जे सी 30433	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	गोबिन्द राम	30-04-79
बी मराठा लाइट इन्फेण्ट्री			
38. जे सी 29468	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	गणपती कण्ठकर	31-07-79
बी राजपुताना राइफल्स			
39. जे सी 17937	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	जोध सिंह	30-04-79
40. जे सी 15990	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	प्रताप सिंह	28-02-79
41. जे सी 25355	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	प्रह्लाद सिंह	31-05-79
बी नाट रेजिमेंट			
42. जे सी 19492	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	हरी राम जून	30-04-79
43. जे सी 30548	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	रणधीर सिंह	31-05-79
44. जे सी 40863	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	बनबारी	31-07-79
बी सिक्ख रेजिमेंट			
45. जे सी 28530	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	लाल सिंह	30-06-79
46. जे सी 63053	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	गुरदीप सिंह	31-07-79

बी डोगरा रेजिमेंट			
47. जे सी 18227	सूबेदार मेजर व अश्वेतनिक लैफ्टिनेंट	बलदेव सिंह	31-07-79
48. जे सी 49968	सूबेदार व अश्वेतनिक लैफ्टिनेंट	रतन लाल	31-05-79
बी गढ़वाल राइफल्स			
49. जे सी 32234	सूबेदार मेजर व अश्वेतनिक लैफ्टिनेंट	जैबल सिंह मियां	28-02-79
बी कुमाऊं रेजिमेंट			
50. जे सी 35410	सूबेदार व अश्वेतनिक लैफ्टिनेंट	राम कंवर यादव, बी आर सी	31-01-79
बी बिहार रेजिमेंट			
61. जे सी 24753	सूबेदार मेजर व अश्वेतनिक लैफ्टिनेंट	मियाराम सिंह	31-03-79
बी जम्मू एण्ड कश्मीर राइफल्स			
52. जे सी 28191	सूबेदार मेजर व अश्वेतनिक लैफ्टिनेंट	नसीब सिंह	30-04-79
53. जे सी 25160	सूबेदार मेजर व अश्वेतनिक लैफ्टिनेंट	उत्तम सिंह	30-04-79
1 गोरखा राइफल्स			
54. जे सी 36219	सूबेदार मेजर व अश्वेतनिक लैफ्टिनेंट	मेक रामा गुरुग, बी आर सी	31-05-79
4 गोरखा राइफल्स			
55. जे सी 24885	सूबेदार मेजर व अश्वेतनिक लैफ्टिनेंट	रुद्रा मन गुरुग	31-01-79
11 गोरखा राइफल्स			
56. जे सी 24889	सूबेदार मेजर व अश्वेतनिक लैफ्टिनेंट	उदय प्रसाद राय	31-07-79
आर्मी सर्विस कोर (सप्लाय)			
57. जे सी 21941	सूबेदार मेजर व अश्वेतनिक लैफ्टिनेंट	अमर सिंह	31-03-79
58. जे सी 40523	सूबेदार मेजर व अश्वेतनिक लैफ्टिनेंट	मंशा राम	28-02-79
59. जे सी 42519	सूबेदार व अश्वेतनिक लैफ्टिनेंट	के गोविन्द कुट्टी	31-03-79
आर्मी सर्विस कोर (एग्जिस्टिंग ट्रांसपोर्ट)			
60. जे सी 13125	रिमाइनदार मेजर व अश्वेतनिक लैफ्टिनेंट	शंकर सिंह	31-07-79
आर्मी सर्विस कोर (मेकानिकल ट्रांसपोर्ट)			
61. जे सी 41809	सूबेदार मेजर व अश्वेतनिक लैफ्टिनेंट	परम राम	31-05-79
आर्मी मेडिकल कोर			
62. जे सी 35139	सूबेदार मेजर व अश्वेतनिक लैफ्टिनेंट	अबनाथ सिंह	31-03-79
63. जे सी 33748	सूबेदार मेजर व अश्वेतनिक लैफ्टिनेंट	हजारी राम	30-04-79
64. जे सी 33754	सूबेदार मेजर व अश्वेतनिक लैफ्टिनेंट	प्रिथी चन्द	31-03-79
65. जे सी 33757	सूबेदार मेजर व अश्वेतनिक लैफ्टिनेंट	रोशन लाल	30-06-79
आर्मी आर्टिलरी कोर			
66. जे सी 38028	सूबेदार मेजर व अश्वेतनिक लैफ्टिनेंट	करनार सिंह	30-06-79
67. जे सी 14300	सूबेदार मेजर व अश्वेतनिक लैफ्टिनेंट	प्रताप सिंह	30-06-79
68. जे सी 22810	सूबेदार मेजर व अश्वेतनिक लैफ्टिनेंट	रामानन्द यादव	31-05-79
कोर आफ इलेक्ट्रिकल एंड मेकेनिकल इंजीनियरिंग			
69. जे सी 18657	सूबेदार मेजर व अश्वेतनिक लैफ्टिनेंट	बेध राज	31-05-79
70. जे सी 21375	सूबेदार मेजर व अश्वेतनिक लैफ्टिनेंट	फकीर चन्द	31-07-79
71. जे सी 24478	सूबेदार मेजर व अश्वेतनिक लैफ्टिनेंट	गणेश चन्द्र गुप्ता	30-06-79
72. जे सी 19112	सूबेदार मेजर व अश्वेतनिक लैफ्टिनेंट	सातन चन्द राणा	31-01-79
73. जे सी 19117	सूबेदार मेजर व अश्वेतनिक लैफ्टिनेंट	परपोत्तम लाल	31-01-79
74. जे सी 17754	सूबेदार मेजर व अश्वेतनिक लैफ्टिनेंट	प्यारा सिंह	30-01-79
75. जे सी 18947	सूबेदार मेजर व अश्वेतनिक लैफ्टिनेंट	आर कृष्णामूर्ति राव	31-03-79
76. जे सी 26345	सूबेदार मेजर व अश्वेतनिक लैफ्टिनेंट	णिव लाल	30-06-79
आर्मी एंजुकेशनल कोर			
77. जे सी 17108	सूबेदार मेजर व अश्वेतनिक लैफ्टिनेंट	हजारी लाल	28-02-79
78. जे सी 18256	सूबेदार मेजर व अश्वेतनिक लैफ्टिनेंट	मुखदेव सिंह	31-05-79
कोर आफ सिलटरी पुलिस			
79. जे सी 17456	सूबेदार मेजर व अश्वेतनिक लैफ्टिनेंट	मांहर सिंह	31-03-79

वी पाइपवर्क कोर

80. जे सी 14417	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	खिज़र मोहम्मद	30-04-79
-----------------	-----------------------------------	---------------	----------

डिफेंस लक्युरिटी कोर

81. जे सी 4160	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	आर सी धन्नाजयन	28-02-79
----------------	-----------------------------------	----------------	----------

अवैतनिक लेफ्टिनेंट के रैंक में**16 कैबलरी**

1. जे सी 34407	रिमालदार मेजर	एम बालाकृष्णा राय	31-12-79
----------------	---------------	-------------------	----------

8 कैबलरी

2. जे सी 12043	रिमालदार मेजर	सूरज मल	31-05-79
----------------	---------------	---------	----------

2 लांसर्स

3. जे सी 33712	रिमालदार मेजर	रतन्धीर सिंह	30-11-79
----------------	---------------	--------------	----------

4. जे सी 51881	रिमालदार	रतन सिंह	31-08-79
----------------	----------	----------	----------

17 हार्स

5. जे सी 50461	रिमालदार	रतन सिंह	31-05-79
----------------	----------	----------	----------

9 हार्स

6. जे सी 69894	रिमालदार	मेहर सिंह	28-02-79
----------------	----------	-----------	----------

3 कैबलरी

7. जे सी 43077	रिमालदार	धर्म सिंह	31-05-79
----------------	----------	-----------	----------

63 कैबलरी

8. जे सी 15801	रिमालदार मेजर	मुख्त्यार सिंह	31-01-79
----------------	---------------	----------------	----------

67 आर्मांड रेजिमेंट

9. जे सी 52300	रिमालदार	जिले सिंह	31-07-79
----------------	----------	-----------	----------

70 आर्मांड रेजिमेंट

10. जे सी 52334	रिमालदार	दया नन्द	30-06-79
-----------------	----------	----------	----------

72 आर्मांड रेजिमेंट

11. जे सी 36936	रिमालदार मेजर	परनाप सिंह	31-05-79
-----------------	---------------	------------	----------

83 आर्मांड रेजिमेंट

12. जे सी 49852	रिमालदार	मेनू सिंह	30-06-79
-----------------	----------	-----------	----------

आर्मांड कोर

13. जे सी 43702	रिमालदार मेजर	हरभजन सिंह	31-05-79
-----------------	---------------	------------	----------

14. जे सी 41768	रिमालदार मेजर	सरपूरन सिंह	31-05-79
-----------------	---------------	-------------	----------

15. जे सी 76949	रिमालदार	गुरदेव सिंह	30-04-79
-----------------	----------	-------------	----------

रेजिमेंट आफ आर्टिलरी

16. जे सी 14344	सूबेदार मेजर	अनूप सिंह	31-03-79
-----------------	--------------	-----------	----------

17. जे सी 34320	सूबेदार मेजर	वचन सिंह	31-10-79
-----------------	--------------	----------	----------

18. जे सी 24242	सूबेदार मेजर	सी एनथानी	31-07-79
-----------------	--------------	-----------	----------

19. जे सी 26920	सूबेदार मेजर	चरण दास	31-03-79
-----------------	--------------	---------	----------

20. जे सी 17311	सूबेदार मेजर	धर्म पाथ	28-02-79
-----------------	--------------	----------	----------

21. जे सी 15979	सूबेदार मेजर	दीना नाथ	28-02-79
-----------------	--------------	----------	----------

22. जे सी 15440	सूबेदार मेजर	दीना नाथ खन्नू	31-07-79
-----------------	--------------	----------------	----------

23. जे सी 13905	सूबेदार मेजर	गुरबखश सिंह	31-07-79
-----------------	--------------	-------------	----------

24. जे सी 3989	सूबेदार मेजर	गुरबन सिंह	31-07-79
----------------	--------------	------------	----------

25. जे सी 12082	सूबेदार मेजर	हरी सिंह	30-06-79
-----------------	--------------	----------	----------

26. जे सी 14359	सूबेदार मेजर	जोगिन्द्र सिंह	31-08-79
-----------------	--------------	----------------	----------

27. जे सी 17352	सूबेदार मेजर	के एम देवाजी राय	28-02-79
-----------------	--------------	------------------	----------

28. जे सी 14373	सूबेदार मेजर	कृपान सिंह	30-06-79
-----------------	--------------	------------	----------

29. जे सी 25752	सूबेदार मेजर	एम चिन्नाप्पन	31-10-79
-----------------	--------------	---------------	----------

30. जे सी 45514	सूबेदार मेजर	मनन तिवारी	31-07-79
-----------------	--------------	------------	----------

31. जे सी 25891	सूबेदार मेजर	नैन मुख	30-11-79
-----------------	--------------	---------	----------

32. जे सी 25787	सूबेदार मेजर	नन्द राम	30-06-79
33. जे सी 31018	सूबेदार मेजर	राम चन्द्र सिंह	30-06-79
34. जे सी 26896	सूबेदार मेजर	राम दयाल	31-07-79
35. जे सी 26895	सूबेदार मेजर	राम पत सिंह	28-02-79
36. जे सी 25736	सूबेदार मेजर	एस ए एफ जेम्स	30-04-79
37. जे सी 17389	सूबेदार मेजर	सगत सिंह	30-04-79
38. जे सी 24252	सूबेदार मेजर	मेधा सिंह	31-03-79
39. जे सी 17422	सूबेदार मेजर	सुरत सिंह	31-03-79
40. जे सी 24236	सूबेदार मेजर	बेलू सामी पंडित	30-06-79
41. जे सी 47982	सूबेदार	बशम्बर दाम	31-01-79
42. जे सी 70825	सूबेदार	चैत सिंह	31-12-79
43. जे सी 45558	सूबेदार	अन्द्रमा	31-01-79
44. जे सी 56444	सूबेदार	चरनजीत सिंह	30-11-79
45. जे सी 45553	सूबेदार	फकीर सिंह	31-03-79
46. जे सी 45505	सूबेदार	घुधर सिंह	28-02-79
47. जे सी 34663	सूबेदार	ज्ञान सिंह	30-06-79
48. जे सी 45595	सूबेदार	गुरमज सिंह	31-01-79
49. जे सी 50075	सूबेदार	हकीकत राय	31-03-79
50. जे सी 47185	सूबेदार	हरदीप सिंह	31-10-79
51. जे सी 47224	सूबेदार	जगमाल सिंह	31-08-79
52. जे सी 45276	सूबेदार	लेख राम शर्मा	31-03-79
53. जे सी 45438	सूबेदार	भालक सिंह	30-06-79
54. जे सी 45444	सूबेदार	निर्मल सिंह	30-09-79
55. जे सी 45507	सूबेदार	राय सिंह	30-04-79
56. जे सी 45523	सूबेदार	रणजीत सिंह	30-04-79
57. जे सी 45345	सूबेदार	रांसांख सिंह	31-05-79
58. जे सी 40242	सूबेदार	तारा सिंह	28-02-79
59. जे सी 45578	सूबेदार	तेज राम	31-01-79
60. जे सी 47925	सूबेदार	बी कुमारन	28-02-79

महाराष्ट्र इंजीनियर ग्रुप

61. जे सी 19659	सूबेदार मेजर	ए तारायणन	28-02-79
62. जे सी 18589	सूबेदार मेजर	एनधामी	31-03-79
63. जे सी 25176	सूबेदार मेजर	चोष्कारविगम	31-12-79
64. जे सी 25173	सूबेदार मेजर	डी मनुसामी	31-12-79
65. जे सी 18606	सूबेदार मेजर	के धन्नापाल	31-12-79
66. जे सी 21756	सूबेदार मेजर	वी रामदास	31-05-79
67. जे सी 21758	सूबेदार मेजर	वेन्कटा राव	31-10-79
68. जे सी 38275	सूबेदार	के एस बृहविषा	31-03-79
69. जे सी 44622	सूबेदार	पी बालाकृष्णा पानिकर	30-04-79
70. जे सी 34077	सूबेदार	पी नारायणन नायर	30-06-79
71. जे सी 34344	सूबेदार	राघवन्त नन्दिथार	31-01-79
72. जे सी 38274	सूबेदार	एस धन्नापालन	31-03-79

बंगाल इंजीनियर ग्रुप

73. जे सी 25247	सूबेदार मेजर	अरुना नन्दि मिश्रा	31-03-79
74. जे सी 25241	सूबेदार मेजर	अमर सिंह	31-10-79
75. जे सी 14406	सूबेदार मेजर	अजरंगी प्रसाद	30-09-79
76. जे सी 31851	सूबेदार मेजर	भगत सिंह	31-05-79
77. जे सी 33187	सूबेदार मेजर	त्रिलोक सिंह	31-01-79
78. जे सी 24669	सूबेदार मेजर	दुर्लब सिंह	30-04-79
79. जे सी 33354	सूबेदार मेजर	गिरधर सिंह	31-10-79
80. जे सी 30717	सूबेदार मेजर	गुरनाम सिंह	28-02-79
81. जे सी 26801	सूबेदार मेजर	हरबंस सिंह	31-01-79
82. जे सी 31491	सूबेदार मेजर	जयसैल सिंह	30-06-79
83. जे सी 25299	सूबेदार मेजर	जयवन्त सिंह सङ्गिता	31-01-79
84. जे सी 28275	सूबेदार मेजर	के एस श्रीधरन	31-01-79
85. जे सी 26504	सूबेदार मेजर	एम जे जान	31-01-79

86. જે સી 25248	સૂબેદાર મેજર	તિર્મળ સિંહ	31-10-79
87. જે સી 26814	સૂબેદાર મેજર	પી ટી ધામસ	31-01-79
88. જે સી 20561	સૂબેદાર મેજર	રત્નધીર સિંહ	30-04-79
89. જે સી 26535	સૂબેદાર મેજર	મગલી રામ	31-03-79
90. જે સી 31489	સૂબેદાર મેજર	શામ સિંહ	31-03-79
91. જે સી 24658	સૂબેદાર મેજર	તુષારા રામ	31-10-79
92. જે સી 43617	સૂબેદાર	શાલી જન્દ	31-05-79
93. જે સી 46295	સૂબેદાર	શિવભાજીત સિંહ	31-05-79
94. જે સી 51207	સૂબેદાર	દલી જન્દ	31-05-79
95. જે સી 44526	સૂબેદાર	ગોવર્ધન પ્રસાદ	31-05-79
96. જે સી 55465	સૂબેદાર	જગદીશ પ્રસાદ સિંહ	30-06-79
97. જે સી 52609	સૂબેદાર	જોગિન્દ્ર સિંહ	28-02-79
98. જે સી 52304	સૂબેદાર	તૈન સિંહ	31-01-79
99. જે સી 44545	સૂબેદાર	રામેશ્વર પ્રસાદ	31-07-79
100. જે સી 39099	સૂબેદાર	રવિ સિંહ	31-01-79
101. જે સી 39097	સૂબેદાર	રૂપ સિંહ	30-11-79
102. જે સી 46235	સૂબેદાર	મરહત સિંહ	31-07-79
103. જે સી 51208	સૂબેદાર	શિવ દત્ત સિંહ	28-02-79
104. જે સી 46241	સૂબેદાર	મુશ્વત સિંહ	31-07-79

બાલ્કે ઇન્જિનિયર પુપ

105. જે સી 27772	સૂબેદાર મેજર	ગુરમુખ સિંહ	31-10-79
106. જે સી 18383	સૂબેદાર મેજર	માન સિંહ	31-03-79
107. જે સી 17504	સૂબેદાર મેજર	શ્રીપત જીવાન	30-06-79
108. જે સી 18382	સૂબેદાર મેજર	ઉમેશ સિંહ	30-11-79
109. જે સી 41491	સૂબેદાર	ધાનત્વ યાદવ	28-02-79
110. જે સી 43841	સૂબેદાર	પ્રાત્મા સિંહ	31-07-79
111. જે સી 43799	સૂબેદાર	જ્ઞાન સિંહ	30-06-79
112. જે સી 41678	સૂબેદાર	કામિલ સિંહ	28-02-79
113. જે સી 36241	સૂબેદાર	મહેશ રાવ જાધવ	31-07-79

કોર બ્રાફ સિગલસ

114. જે સી 23235	સૂબેદાર મેજર	અમર સિંહ	31-01-79
115. જે સી 23239	સૂબેદાર મેજર	બાગ મલ	31-05-79
116. જે સી 30223	સૂબેદાર મેજર	શીર સિંહ	31-07-79
117. જે સી 31813	સૂબેદાર મેજર	શ્રીજી લાલ	30-09-79
118. જે સી 20070	સૂબેદાર મેજર	હિપ્પી લાલ મેહતા	31-03-79
119. જે સી 32525	સૂબેદાર મેજર	ચાન સિંહ, એમ એમ	30-04-79
120. જે સી 18157	સૂબેદાર મેજર	ગુરબજન સિંહ	30-09-79
121. જે સી 27338	સૂબેદાર મેજર	કરતાર સિંહ	30-11-79
122. જે સી 30226	સૂબેદાર મેજર	કિશન લાલ	30-06-79
123. જે સી 48199	સૂબેદાર મેજર	કૃષ્ણ જન્દ મહારાના	31-07-79
124. જે સી 29399	સૂબેદાર મેજર	એમ એમ વેલી	30-06-79
125. જે સી 22382	સૂબેદાર મેજર	મુલક રાજ	31-08-79
126. જે સી 31276	સૂબેદાર મેજર	પી કરુણા સામી	31-08-79
127. જે સી 48200	સૂબેદાર મેજર	પ્રસન્ના કુમાર પટનાયક	30-06-79
128. જે સી 30280	સૂબેદાર મેજર	આર બાલાકૃષ્ણન	30-04-79
129. જે સી 27352	સૂબેદાર મેજર	રામ રથ	31-03-79
130. જે સી 30225	સૂબેદાર મેજર	રાન્ના સિંહ	31-05-79
131. જે સી 44761	સૂબેદાર મેજર	સમુન્દ્ર સિંહ	30-06-79
132. જે સી 44433	સૂબેદાર	જાજી દેવજામિન	30-11-79
133. જે સી 56228	સૂબેદાર	એમ શ્રીધરન	31-07-79

શ્રિપેઠ બ્રાફ લી ગાર્ડસ

134. જે સી 29018	સૂબેદાર મેજર	શ્રીજન સિંહ વિપ્લવ	31-10-79
135. જે સી 27075	સૂબેદાર મેજર	વિરેન્દ્ર સિંહ	28-02-79
136. જે સી 35572	સૂબેદાર મેજર	દલીપ સિંહ	30-06-79

137. जे सी 30426	सूबेदार मेजर	गोरख सिंह	31-10-79
138. जे सी 55923	सूबेदार	आत्मा राम	30-06-79
139. जे सी 41666	सूबेदार	प्यारा सिंह	30-06-79

बी पैराग्राफ रेजिमेंट

140. जे सी 34378	सूबेदार मेजर	वीक्टर मुकेरा, एम एम	28-02-79
------------------	--------------	----------------------	----------

बी पंजाब रेजिमेंट

141. जे सी 24421	सूबेदार मेजर	भीम सैन	31-03-79
142. जे सी 17051	सूबेदार मेजर	दीना नाथ	31-08-79
143. जे सी 39393	सूबेदार मेजर	झबू राम	30-11-79
144. जे सी 16440	सूबेदार मेजर	मोहर सिंह	31-10-79
145. जे सी 13526	सूबेदार मेजर	नमीश सिंह	31-05-79
146. जे सी 25296	सूबेदार मेजर	प्रभु राम	31-08-79
147. जे सी 59224	सूबेदार	अमर सिंह	31-01-79
148. जे सी 38211	सूबेदार	अमर सिंह	31-03-79
149. जे सी 41226	सूबेदार	बलबल सिंह	30-11-79
150. जे सी 59479	सूबेदार	जान सन्द	30-04-79
151. जे सी 41374	सूबेदार	सरदार सिंह	28-02-79

बी महाराष्ट्र रेजिमेंट

152. जे सी 27307	सूबेदार मेजर	बी कृष्णा पिल्ले	30-04-79
153. जे सी 30569	सूबेदार मेजर	के राघवन नायर	31-08-79
154. जे सी 17164	सूबेदार मेजर	के वी थामस	31-01-79
155. जे सी 38658	सूबेदार मेजर	एस राजन	30-06-79
156. जे सी 21838	सूबेदार मेजर	वी वीरामाधी	30-04-79
157. जे सी 54257	सूबेदार	पी रमन	31-05-79
158. जे सी 35550	सूबेदार	स्वामिनाथन, एम एम	31-07-79

बी एलेक्सियस

159. जे सी 42543	सूबेदार मेजर	बाले राम	31-12-79
160. जे सी 16787	सूबेदार मेजर	ओम प्रकाश	30-11-79
161. जे सी 58370	सूबेदार	बाबू राम बर्मा	31-07-79
162. जे सी 39332	सूबेदार	बलबल सिंह	31-01-79
163. जे सी 56126	सूबेदार	मिलक राम	31-07-79

बी सराठा लाइट इन्फेण्ट्री

164. जे सी 22115	सूबेदार मेजर	गंगा राम बर्गे	31-07-79
165. जे सी 22103	सूबेदार मेजर	पंथुरंग राव	28-02-79
166. जे सी 12276	सूबेदार मेजर	परमेश्वर	31-03-79
167. जे सी 31872	सूबेदार मेजर	राजा राम शिन्दे	30-04-79
168. जे सी 34612	सूबेदार मेजर	राखा राम पथार	30-06-79
169. जे सी 16808	सूबेदार मेजर	सोपान माने	30-04-79
170. जे सी 61592	सूबेदार	अकबर सिंह	31-07-79
171. जे सी 52214	सूबेदार	बानाजी राय	31-07-79

बी राजपूताना राइफल्स

172. जे सी 33236	सूबेदार मेजर	मीर सिंह	31-07-79
173. जे सी 33817	सूबेदार मेजर	मोहन लाल	31-10-79
174. जे सी 40945	सूबेदार	भगवान सिंह	31-03-79
175. जे सी 50172	सूबेदार	जय लाल	30-06-79
176. जे सी 41367	सूबेदार	जवान सिंह	28-02-79
177. जे सी 20051	सूबेदार	मञ्जान सिंह	31-07-79

बी राजपूत रेजिमेंट

178. जे सी 24936	सूबेदार मेजर	दाऊ बयान मिश्रा	30-06-79
179. जे सी 31218	सूबेदार मेजर	हरी राम	30-06-79
180. जे सी 40606	सूबेदार	किरण सिंह	31-08-79
181. जे सी 34732	सूबेदार	लज्जा राम	31-03-79
182. जे सी 22971	सूबेदार	रत्न लाल	31-07-79

बी जाट रेजिमेंट

183. जे सी 50580	सूबेदार मेजर	महिन्द्र सिंह	30-09-79
184. जे सी 33166	सूबेदार मेजर	रूप राम	31-03-79
185. जे सी 53273	सूबेदार	राज बहादुर सिंह	28-02-79
186. जे सी 37780	सूबेदार	रिनाम सिंह	31-07-79
187. जे सी 39391	सूबेदार	सुमेर सिंह	31-01-79

बी सिख रेजिमेंट

188. जे सी 59096	सूबेदार	गुरबक्ष सिंह	31-12-79
189. जे सी 50260	सूबेदार	मन्तोख सिंह	31-07-79

बी सिख लाइट इन्फैंटरी

190. जे सी 11576	सूबेदार मेजर	बल्ल सिंह	30-04-79
191. जे सी 12145	सूबेदार मेजर	सरदार सिंह	31-05-79
192. जे सी 48068	सूबेदार	बल्ल सिंह	31-05-79

बी बोगरा रेजिमेंट

193. जे सी 32722	सूबेदार मेजर	सिरि राम	31-12-79
194. जे सी 33442	सूबेदार	बलदेव सिंह	30-06-79
195. जे सी 49076	सूबेदार	दया राम	28-02-79
196. जे सी 34619	सूबेदार	गन्धर्व सिंह	28-02-79
197. जे सी 62989	सूबेदार	महताब सिंह	31-10-79
198. जे सी 54718	सूबेदार	सुरिन्दर नाथ	31-01-79

बी गुरुवाल राइफल्स

199. जे सी 26619	सूबेदार मेजर	बल्ल सिंह बीहान	31-05-79
------------------	--------------	-----------------	----------

बी कुमाऊं रेजिमेंट

200. जे सी 32962	सूबेदार मेजर	बलबीर सिंह	31-07-79
201. जे सी 35617	सूबेदार मेजर	भुपाल सिंह	30-06-79
202. जे सी 32889	सूबेदार मेजर	चन्द्र सिंह	31-03-79
203. जे सी 30446	सूबेदार मेजर	जगताप सिंह	30-06-79
204. जे सी 35619	सूबेदार मेजर	तबू सिंह	31-08-79
205. जे सी 58145	सूबेदार	अयोध्या प्रसाद सिंह	30-06-79
206. जे सी 39315	सूबेदार	छोटे लाल सिंह	31-12-79
207. जे सी 36883	सूबेदार	फूल सिंह, एम एम	30-09-79
208. जे सी 37825	सूबेदार	प्रताप सिंह	31-05-79

बी आसाम रेजिमेंट

209. जे सी 51172	सूबेदार	रोखमा लुणाई	28-02-79
------------------	---------	-------------	----------

बी बिहार रेजिमेंट

210. जे सी 34898	सूबेदार मेजर	ओसेक लाकड़ा	30-06-79
211. जे सी 31629	सूबेदार मेजर	राम दास सिंह यादव	31-01-79

बी अहार रेजिमेंट

212. जे सी 33947	सूबेदार मेजर	भीमराज शिरमट	31-07-79
213. जे सी 24627	सूबेदार मेजर	बाबू सिंह	31-07-79
214. जे सी 27838	सूबेदार मेजर	बलीप	30-09-79
215. जे सी 23272	सूबेदार मेजर	दर्शन सिंह	30-09-79
216. जे सी 28957	सूबेदार मेजर	गनपति काम्बले	31-08-79
217. जे सी 35639	सूबेदार मेजर	जगत नाथ मांढे	31-08-79
218. जे सी 12303	सूबेदार मेजर	जसबल्ल सिंह	30-11-79
219. जे सी 30411	सूबेदार मेजर	लक्ष्मण कारपे	31-12-79
220. जे सी 24865	सूबेदार मेजर	प्यारा सिंह	31-08-79
221. जे सी 23628	सूबेदार मेजर	प्रीतम सिंह	31-01-79
222. जे सी 58984	सूबेदार	सुन्नी राम	30-06-79

बी जम्मू एण्ड कश्मीर राइफल्स

223. जे सी 25161	सूबेदार मेजर	ईशर बाल	31-08-79
224. जे सी 43659	सूबेदार	अनूप सिंह	30-09-79

बी कामू एण्ड काफलीर लाइव इन्टैक्टरी

225. जे सी 19	सूबेदार मेजर	गुलाम नबी मलिक	30-11-79
226. जे सी 105	सूबेदार	धर्मेन्द्र नाथ भट्ट	31-03-79
1 गोरखा राइफल्स			
227. जे सी 36892	सूबेदार मेजर	बिल बहादुर गुरुंग	31-01-79
228. जे सी 36770	सूबेदार मेजर	जह्म सिंह थापा	30-09-79
3 गोरखा राइफल्स			
229. जे सी 36532	सूबेदार मेजर	लेज बहादुर गुरुंग	31-05-79
4 गोरखा राइफल्स			
230. जे सी 53468	सूबेदार	कृष्णा मन्त्र कँवर	30-06-79
5 गोरखा राइफल्स			
231. जे सी 37612	सूबेदार मेजर	बल बहादुर थपल	31-12-79
232. जे सी 33979	सूबेदार मेजर	शेर सिंह थापा	31-08-79
8 गोरखा राइफल्स			
233. जे सी 36578	सूबेदार मेजर	सुरत सिंह बोहरा	31-10-79
234. जे सी 42294	सूबेदार	सेवा सिंह थापा	31-01-79
235. जे सी 44081	सूबेदार	उजेर सिंह थापा	31-01-79
9 गोरखा राइफल्स			
236. जे सी 52973	सूबेदार	महेन्द्र सिंह थापा	31-01-79
11 गोरखा राइफल्स			
237. जे सी 33944	सूबेदार मेजर	बुध सिंह तमांग	31-05-79
238. जे सी 34534	सूबेदार मेजर	निलमन तमांग	31-07-79
आर्मी सप्लाय कोर (सप्लाय)			
239. जे सी 40525	सूबेदार मेजर	बलबन्त सिंह	30-06-79
240. जे सी 21942	सूबेदार मेजर	श्रीम प्रकाश	30-01-79
241. जे सी 21950	सूबेदार मेजर	प्यारा सिंह	31-01-79
242. जे सी 21949	सूबेदार मेजर	रामजी दास	30-08-79
243. जे सी 36136	सूबेदार मेजर	मोहन सिंह	31-12-79
244. जे सी 17905	सूबेदार मेजर	सूरज प्रकाश	28-02-79
245. जे सी 17900	सूबेदार मेजर	टेक चन्द	28-02-79
246. जे सी 57467	सूबेदार	भारविन्द बरमा	30-11-79
247. जे सी 53512	सूबेदार	अश्वनी कुमार दास	28-02-79
248. जे सी 56862	सूबेदार	बी अण्णाला राय	31-03-79
249. जे सी 57443	सूबेदार	बी आर बख्शी	30-09-79
250. जे सी 57410	सूबेदार	बलदेव सिंह परमार	31-03-79
251. जे सी 57418	सूबेदार	बाल कृष्ण प्रभाकर	30-04-79
252. जे सी 53515	सूबेदार	बिक्रमादित्य तिवारी	28-02-79
253. जे सी 53531	सूबेदार	सी नारायण गुप्त	30-06-79
254. जे सी 56667	सूबेदार	चामू सिंह कफालिया	31-03-79
255. जे सी 52574	सूबेदार	वामोवर चौपड़े	28-02-79
256. जे सी 57415	सूबेदार	धनुषधारी पाण्डे	30-04-79
257. जे सी 54610	सूबेदार	विपनेन्द्र नारायण मजुमदार	30-06-79
258. जे सी 57419	सूबेदार	जी एस राय	31-05-79
259. जे सी 56660	सूबेदार	जगत राम	28-02-79
260. जे सी 53514	सूबेदार	जोगिन्दर सिंह	28-02-79
261. जे सी 53118	सूबेदार	कपिल देव सिंह	31-05-79
262. जे सी 53123	सूबेदार	कारा गोपाल	31-05-79
263. जे सी 56659	सूबेदार	केशव दत्त श्रीली	28-02-79
264. जे सी 53106	सूबेदार	खेन्द्र नाथ घोष	30-04-79
265. जे सी 56665	सूबेदार	किशन चन्द	31-03-79
266. जे सी 56668	सूबेदार	कृष्ण लाल अर्मा	31-03-79
267. जे सी 56661	सूबेदार	मलकियत सिंह	31-03-79

268.	જે સી 59559	સૂબેદાર	મી વી ચન્દ્ર કુટ્ટી	31-05-79
269.	જે સી 52583	સૂબેદાર	ધ્યારા સિંહ	31-03-79
270.	જે સી 56664	સૂબેદાર	ગ્રામ સુબ્બાયન	31-03-79
271.	જે સી 56669	સૂબેદાર	રાજેન્દ્ર સિંહ	31-03-79
272.	જે સી 53111	સૂબેદાર	રામ નરેશ સિંહ	30-04-79
273.	જે સી 53516	સૂબેદાર	રામ મરુપ	28-02-79
274.	જે સી 56678	સૂબેદાર	રતન ચન્દ શર્મા	31-03-79
275.	જે સી 57426	સૂબેદાર	રોશન લાલ	30-06-79
276.	જે સી 57416	સૂબેદાર	સમસ્ત ચન્દર	30-04-79
277.	જે સી 53513	સૂબેદાર	સત પાલ શર્મા	28-02-79
278.	જે સી 53109	સૂબેદાર	સોમિરન કુમાર શામ	30-04-79
279.	જે સી 52582	સૂબેદાર	તારા સિંહ પાનેગર	31-03-79
280.	જે સી 52576	સૂબેદાર	તરમેશ સિંહ	28-02-79
281.	જે સી 53122	સૂબેદાર	વી વરકે	28-02-79

ગ્રામી સબિસ કોર (મેકેનિકલ ટ્રાંસપોર્ટ)

282.	જે સી 44049	સૂબેદાર	બાબૂ રામ	31-08-79
283.	જે સી 51523	સૂબેદાર	બલબીર સિંહ	31-03-79
284.	જે સી 49227	સૂબેદાર	ભાગ મલ	31-05-79
285.	જે સી 57080	સૂબેદાર	ગગન રામ	31-05-79
286.	જે સી 57070	સૂબેદાર	શોભા નાથ ધર ગુપ્તા	30-09-79
287.	જે સી 51740	સૂબેદાર	વિશ્વા નાથ તિથારી	30-04-79
288.	જે સી 49226	સૂબેદાર	વૃષ્ણ રામ	31-01-79
289.	જે સી 43520	સૂબેદાર	શરબંસ લાલ	31-05-79
290.	જે સી 52673	સૂબેદાર	જગત રામ સકલાની	31-12-79
291.	જે સી 44062	સૂબેદાર	જગદીશ રામ	31-03-79
292.	જે સી 51738	સૂબેદાર	કપ્તાન ચન્દ	30-04-79
293.	જે સી 57116	સૂબેદાર	મલકેશ સિંહ	31-05-79
294.	જે સી 57062	સૂબેદાર	નન્દ કિશોર પાણે	31-05-79
295.	જે સી 44044	સૂબેદાર	પરમ રામ	30-06-79
296.	જે સી 57067	સૂબેદાર	પૂરન સિંહ	30-06-79

ગ્રામી મેકેનિકલ કોર

297.	જે સી 33749	સૂબેદાર મેજર	વલવન્ત સિંહ	30-04-79
298.	જે સી 35100	સૂબેદાર મેજર	વનન્ત કુમાર દાસ	31-12-79
299.	જે સી 33751	સૂબેદાર મેજર	હરી ચિલાસ	30-04-79
300.	જે સી 41583	સૂબેદાર મેજર	કલ્પાકરન તમ્બિયાર	30-06-79
301.	જે સી 48456	સૂબેદાર મેજર	પી ડી કાનન	31-05-79
302.	જે સી 44253	સૂબેદાર મેજર	પિંડો શામ ગુજરાલ	31-12-79
303.	જે સી 28087	સૂબેદાર મેજર	પરનાદ સિંહ	31-08-79
304.	જે સી 33745	સૂબેદાર મેજર	સ્વર્ણ સિંહ	30-11-79
305.	જે સી 33752	સૂબેદાર મેજર	ધામન મેથ્યુ	31-05-79
306.	જે સી 35099	સૂબેદાર મેજર	કુનસી દાસ	31-08-79
307.	જે સી 52953	સૂબેદાર મેજર	વી ઇન મિલાદાન	30-04-79
308.	જે સી 33753	સૂબેદાર મેજર	જુલ્ફી રામ	28-02-79
309.	જે સી 56271	સૂબેદાર	રામેશ્વર ધામ	31-01-79
310.	જે સી 47519	સૂબેદાર	મોહન સિંહ	31-01-79

ગ્રામી ગ્રાઉન્ડેસ કોર

311.	જે સી 14301	સૂબેદાર મેજર	અપ્પા રાવ ચિટ્ટિપેટ્ટી	31-07-79
312.	જે સી 38060	સૂબેદાર મેજર	ધરત મિશ્ર	30-06-79
313.	જે સી 35241	સૂબેદાર મેજર	ધરમ સિંહ	31-03-79
314.	જે સી 15924	સૂબેદાર મેજર	ગનપત સિંહ	31-08-79
315.	જે સી 38004	સૂબેદાર મેજર	હરપાલ સિંહ	28-02-79
316.	જે સી 49322	સૂબેદાર મેજર	હોરા સિંહ યાદવ	31-08-79
317.	જે સી 38031	સૂબેદાર મેજર	કે કેસવા તમ્બોસન	30-06-79
318.	જે સી 36481	સૂબેદાર મેજર	કેતર સિંહ	31-05-79
319.	જે સી 35243	સૂબેદાર મેજર	લાજપત રામ	31-05-79

320.	जे सी 38023	सूबेदार मेजर	एम जी बरगिस	31-05-79
321.	जे सी 32730	सूबेदार मेजर	एम एस बैकटेस्वरन	31-07-79
322.	जे सी 22821	सूबेदार मेजर	मनजीन नाथ काकरिया	31-05-79
323.	जे सी 48873	सूबेदार मेजर	पी धकापन नायर	31-07-79
324.	जे सी 37043	सूबेदार मेजर	पी सी थामस	31-05-79
325.	जे सी 22811	सूबेदार मेजर	श्रीर बाग्यामुग्रामनियम	31-05-79
326.	जे सी 11108	सूबेदार मेजर	राम मूनि रतन	31-05-79
327.	जे सी 34775	सूबेदार मेजर	राम सिंह	31-01-79
328.	जे सी 35417	सूबेदार मेजर	राम तीर्थ शर्मा	31-03-79
329.	जे सी 38039	सूबेदार मेजर	रिण्डपाल सिंह	30-06-79
330.	जे सी 38294	सूबेदार मेजर	राम्भू प्रसाद	30-06-79
331.	जे सी 22802	सूबेदार मेजर	राम खाल गुप्ता	31-05-79
332.	जे सी 10999	सूबेदार मेजर	शिव चन्द्र पाण्डे	31-07-79
333.	जे सी 48101	सूबेदार मेजर	सुरज इन्द्र शा	30-04-79
334.	जे सी 30862	सूबेदार मेजर	टी सी रम	30-06-79
335.	जे सी 35242	सूबेदार मेजर	टी के किरावांता	31-05-79
336.	जे सी 22812	सूबेदार मेजर	तिलक राज साहू	31-05-79
337.	जे सी 61627	सूबेदार	कृष्ण कुमार सिंह	28-02-79
338.	जे सी 57137	सूबेदार	निर्मल सिंह	31-10-79
339.	जे सी 54341	सूबेदार	राजेन्द्र सिंह	31-03-79
340.	जे सी 62643	सूबेदार	रतन चन्द	30-09-79

कोर आफ इलेक्ट्रिकल एण्ड मैकेनिकल इंजीनियरस

341.	जे सी 14774	सूबेदार मेजर	अजीत सिंह	31-01-79
342.	जे सी 35429	सूबेदार मेजर	चन्द्र दीप गिर	31-10-79
343.	जे सी 35457	सूबेदार मेजर	चण्डिका के अश्विया	31-12-79
344.	जे सी 17748	सूबेदार मेजर	डी ए चित्तले	28-02-79
345.	जे सी 19246	सूबेदार मेजर	दीप चन्द	30-06-79
346.	जे सी 37181	सूबेदार मेजर	गणपत सिंह रावन	30-09-79
347.	जे सी 27024	सूबेदार मेजर	हुकम सिंह	31-03-79
348.	जे सी 19058	सूबेदार मेजर	जय चन्द	31-07-79
349.	जे सी 18692	सूबेदार मेजर	के लक्ष्मणन	31-03-79
350.	जे सी 18677	सूबेदार मेजर	करम सिंह	31-07-79
351.	जे सी 18857	सूबेदार मेजर	किशोरी खाल	31-12-79
352.	जे सी 35449	सूबेदार मेजर	मुरिगप्पा काराबसप्पा बांडामनी	31-07-79
353.	जे सी 26457	सूबेदार मेजर	श्रीम बत्त	31-01-79
354.	जे सी 13378	सूबेदार मेजर	प्यारे लाल	31-10-79
355.	जे सी 37170	सूबेदार मेजर	राज सिंह	31-12-79
356.	जे सी 37174	सूबेदार मेजर	राजिन्द्र प्रसाद गोस्वामी	31-12-79
357.	जे सी 14778	सूबेदार मेजर	राम प्रकाश	31-03-79
358.	जे सी 18660	सूबेदार मेजर	सरसेम दास	31-03-79
359.	जे सी 55659	सूबेदार	बलदन्त राय	31-08-79
360.	जे सी 54569	सूबेदार	दया नन्द चौबे	31-05-79
361.	जे सी 45952	सूबेदार	करतार सिंह	31-01-79
362.	जे सी 46392	सूबेदार	पी बालाकृष्णन	31-01-79
363.	जे सी 58725	सूबेदार	सरया पाल	31-05-79
364.	जे सी 56752	सूबेदार	टी पी सिवासकरन	28-02-79

धार्मी इन्फ्रैस्ट्रक्चर कोर

365.	जे सी 18267	सूबेदार मेजर	अजमेर सिंह	30-04-79
366.	जे सी 18270	सूबेदार मेजर	मुपिन्दर सिंह	31-05-79
367.	जे सी 18268	सूबेदार मेजर	चन्दर प्रकाश	30-04-79
368.	जे सी 19430	सूबेदार मेजर	महावीर सिंह	31-12-79
369.	जे सी 21311	सूबेदार मेजर	राधा कृष्ण कचरू	31-03-79
370.	जे सी 18302	सूबेदार मेजर	राजिन्द्र सिंह जमवाल	30-09-79
371.	जे सी 17105	सूबेदार मेजर	राम नारायण	30-04-79
372.	जे सी 21304	सूबेदार मेजर	उत्तम चन्द	31-01-79

373. जे सी 52356	सूबेदार	प्रजमेर सिंह	28-02-79
374. जे सी 53901	सूबेदार	देव राज सिंह	31-07-79
375. जे सी 52600	सूबेदार	गोपाल नन्ध उपाध्याय	31-03-79
376. जे सी 52359	सूबेदार	हृदय नन्ध तिवारी	31-03-79
377. जे सी 30637	सूबेदार	होशियार सिंह	31-01-79
378. जे सी 52358	सूबेदार	जागी बन्धू चौधरी	31-03-79
379. जे सी 52347	सूबेदार	कपिल देव शर्मा	31-03-79
380. जे सी 52602	सूबेदार	सरबजीत सिंह	31-05-79
डी इन्टेलीजेन्स कोर			
381. जे सी 23904	सूबेदार मेजर	एन एम गंगाधरन नायर	30-06-79
382. जे सी 33550	सूबेदार	महेन्द्र भगत	31-10-79
383. जे सी 34555	सूबेदार	सरजीत सिंह	31-05-79
कोर आफ मिलिट्री पुलिस			
384. जे सी 21834	सूबेदार मेजर	उदे सिंह रायत	31-03-79
385. जे सी 49811	सूबेदार	मान सिंह	31-03-79
386. जे सी 65164	सूबेदार	बैब प्रकाश	31-10-79
डी वाइमियर कोर			
387. जे सी 16075	सूबेदार मेजर	अमी लाल सिंह	31-05-79
डिफेंस सिग्नलिंग कोर			
388. जे सी 4176	सूबेदार मेजर	हरबन्त सिंह	31-12-79
389. जे सी 46340	सूबेदार मेजर	एम के गोविन्द नायर	30-04-79

[फाइल सं० ए/40113/भार डी 79/ए जी/पी एस/5 (ए.)]

MINISTRY OF DEFENCE

(Army Branch)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 26th January, 1979

No. 1-E. dated 25th January, 1979.—The President is pleased to grant honorary commissions to the undermentioned JCOs on active list under para 178 of Regulations for the Army, 1962, with effect from 26th January, 1979 :—

TO BE HONORARY CAPTAINS			Date of Retirement
20 LANCERS			
1. JC 27849	RIS MAJ & HONY LT	RAJBIR SINGH	31-07-79
69 ARMOURED REGIMENT			
2. JC 26481	RIS MAJ & HONY LT	MADAN LAL	31-07-79
73 ARMOURED REGIMENT			
3. JC 32948	RIS MAJ & HONY LT	SHIYAM SINGH	30-06-79
REGIMENT OF ARTILLERY			
4. JC 24302	SUB MAJ & HONY LT	GOPAL RAM	31-03-79
5. JC 25872	SUB MAJ & HONY LT	K RAMAKRISHNA PILLAI	30-06-79
6. JC 26918	SUB MAJ & HONY LT	KUNDAN SINGH GILL	30-04-79
7. JC 17315	SUB MAJ & HONY LT	MOOL CHAND	30-06-79
8. JC 14358	SUB MAJ & HONY LT	MUKHTAR SINGH	31-03-79
9. JC 17398	SUB MAJ & HONY LT	RAMESHWAR SINGH	31-01-79
10. JC 13874	SUB MAJ & HONY LT	RESHAM SINGH	31-01-79
11. JC 17364	SUB MAJ & HONY LT	VJ CHAKUNNI	30-04-79
MADRAS ENGINEER GROUP			
12. JC 19635	SUB MAJ & HONY LT	DURAI SWAMY	31-01-79
13. JC 19685	SUB MAJ & HONY LT	PC MATHEW	31-05-79
14. JC 22943	SUB MAJ & HONY LT	VM MADHAVAN NAIR	31-03-79

BENGAL ENGINEER GROUP

15. JC 39514	SUB MAJ & HONY LT	ANAND RAO BHOSLE	30-06-79
16. JC 34212	SUB MAJ & HONY LT	BABU SINGH	31-03-79
17. JC 25251	SUB MAJ & HONY LT	CHANDAR BALI PANDEY	31-07-79
18. JC 31484	SUB MAJ & HONY LT	DHARM PAL	30-06-79
19. JC 15119	SUB MAJ & HONY LT	JOGINDER SINGH	28-02-79

BOMBAY ENGINEER GROUP

20. JC 27756	SUB MAJ & HONY LT	AMAR SINGH	31-03-79
21. JC 19044	SUB MAJ & HONY LT	BALBIR SINGH	31-01-79
22. JC 19041	SUB MAJ & HONY LT	JAGIR SINGH	30-04-79

CORPS OF SIGNALS

23. JC 31262	SUB MAJ & HONY LT	GIAN SINGH	31-03-79
24. JC 27362	SUB MAJ & HONY LT	INDAR SINGH	30-04-79
25. JC 42799	SUB MAJ & HONY LT	N NARAYANAN	31-05-79
26. JC 30222	SUB MAJ & HONY LT	R PERUMAL	31-07-79
27. JC 48204	SUB MAJ & HONY LT	RAMESHWAR SINGH	30-04-79

BRIGADE OF THE GUARDS

28. JC 35570	SUB MAJ & HONY LT	PARAS SINGH	31-05-79
29. JC 16722	SUB MAJ & HONY LT	RAMJI LAL	31-01-79

THE PARACHUTE REGIMENT

30. JC 35357	SUB MAJ & HONY LT	RAJ SINGH	31-07-79
31. JC 33238	SUB MAJ & HONY LT	RUPKALA SINGH	31-05-79

THE PUNJAB REGIMENT

32. JC 25283	SUB MAJ & HONY LT	LEKH RAM	30-06-79
33. JC 33539	SUB MAJ & HONY LT	WAKIL SINGH	31-05-79
34. JC 35019	SUB & HONY LT	RUP LAL	28-02-79

THE GRENADIERS

35. JC 16780	SUB MAJ & HONY LT	AMI LAL	30-06-79
36. JC 16778	SUB MAJ & HONY LT	CHAND RUP	30-06-79
37. JC 30433	SUB MAJ & HONY LT	GOVIND RAM	30-04-79

THE MARATHA LIGHT INFANTRY

38. JC 29468	SUB MAJ & HONY LT	GANPATI KALGUTKAR	31-07-79
--------------	-------------------	-------------------	----------

THE RAJPUTANA RIFLES

39. JC 17937	SUB MAJ & HONY LT	JODHA SINGH	30-04-79
40. JC 15990	SUB MAJ & HONY LT	PARTAP SINGH	28-02-79
41. JC 25355	SUB MAJ & HONY LT	PRAHALAD SINGH	31-05-79

THE JAT REGIMENT

42. JC 19492	SUB MAJ & HONY LT	HARI RAM JOON	30-04-79
43. JC 30548	SUB MAJ & HONY LT	RANDHIR SINGH	31-05-79
44. JC 40863	SUB & HONY LT	BANWARI	31-07-79

THE SIKH REGIMENT

45. JC 28530	SUB MAJ & HONY LT	LAL SINGH	30-06-79
46. JC 63053	SUB & HONY LT	GURDIP SINGH	31-07-79

THE DOGRA REGIMENT

47. JC 18227	SUB MAJ & HONY LT	BALDEV SINGH	31-07-79
48. JC 49968	SUB & HONY LT	RATTAN LAL	31-05-79

THE GARHWAL RIFLES

49. JC 32234	SUB MAJ & HONY LT	JAIBANT SINGH MIYAN	28-02-79
--------------	-------------------	---------------------	----------

THE KUMAON REGIMENT

50. JC 35410	SUB MAJ & HONY LT	RAM KANWAR YADAV, Vr C	31-01-79
--------------	-------------------	------------------------	----------

THE BIHAR REGIMENT

51. JC 24753	SUB MAJ & HONY LT	SIYARAM SINGH	31-03-79
--------------	-------------------	---------------	----------

THE JAMMU AND KASHMIR RIFLES

52. JC 28191	SUB MAJ & HONY LT	NASIB SINGH	30-04-79
53. JC 25160	SUB MAJ & HONY LT	UTTAM SINGH	30-04-79

1 GORKHA RIFLES

54. JC 36219	SUB MAJ & HONY LT	MEK RASI GURUNG, Vr C	31-05-79
--------------	-------------------	-----------------------	----------

4 GORKHA RIFLES

55. JC 24885	SUB MAJ & HONY LT	RUDRA MAN GURUNG	31-01-79
--------------	-------------------	------------------	----------

11 GORKHA RIFLES

56. JC 24889	SUB MAJ & HONY LT	UDAI PRASAD RAI	31-07-79
--------------	-------------------	-----------------	----------

ARMY SERVICE CORPS (SUPPLY)

57. JC 21941	SUB MAJ & HONY LT	AMAR SINGH	31-03-79
--------------	-------------------	------------	----------

58. JC 40523	SUB MAJ & HONY LT	MANSHA RAM	28-02-79
--------------	-------------------	------------	----------

59. JC 42519	SUB & HONY LT	K GOVINDAN KUTTY	31-03-79
--------------	---------------	------------------	----------

ARMY SERVICE CORPS (ANIMAL TRANSPORT)

60. JC 13125	RIS MAJ & HONY LT	SHANKAR SINGH	31-07-79
--------------	-------------------	---------------	----------

ARMY SERVICE CORPS (MECHANICAL TRANSPORT)

61. JC 41809	SUB MAJ & HONY LT	PARAS RAM	31-05-79
--------------	-------------------	-----------	----------

ARMY MEDICAL CORPS

62. JC 35139	SUB MAJ & HONY LT	ABLA KH SINGH	31-03-79
--------------	-------------------	---------------	----------

63. JC 33748	SUB MAJ & HONY LT	HAZARI RAM	30-04-79
--------------	-------------------	------------	----------

64. JC 33754	SUB MAJ & HONY LT	PRITHI CHAND	31-03-79
--------------	-------------------	--------------	----------

65. JC 33757	SUB MAJ & HONY LT	ROSHAN LAL	30-06-79
--------------	-------------------	------------	----------

ARMY ORDNANCE CORPS

66. JC 38028	SUB MAJ & HONY LT	KARTAR SINGH	30-06-79
--------------	-------------------	--------------	----------

67. JC 14300	SUB MAJ & HONY LT	PARTAP SINGH	30-06-79
--------------	-------------------	--------------	----------

68. JC 22810	SUB MAJ & HONY LT	RAMA NAND YADAVA	31-05-79
--------------	-------------------	------------------	----------

CORPS OF ELECTRICAL AND MECHANICAL ENGINEERS

69. JC 18657	SUB MAJ & HONY LT	DEV RAJ	31-05-79
--------------	-------------------	---------	----------

70. JC 21375	SUB MAJ & HONY LT	FAQIR CHAND	31-07-79
--------------	-------------------	-------------	----------

71. JC 24478	SUB MAJ & HONY LT	GANESH CHANDRA GUPTA	30-06-79
--------------	-------------------	----------------------	----------

72. JC 19112	SUB MAJ & HONY LT	NANAK CHAND RANA	31-01-79
--------------	-------------------	------------------	----------

73. JC 19117	SUB MAJ & HONY LT	PARSHOTAM LAL	31-01-79
--------------	-------------------	---------------	----------

74. JC 17754	SUB MAJ & HONY LT	PIARA SINGH	30-04-79
--------------	-------------------	-------------	----------

75. JC 18947	SUB MAJ & HONY LT	R KRISHNA MURTHY RAO	31-03-79
--------------	-------------------	----------------------	----------

76. JC 26345	SUB MAJ & HONY LT	SHIV LAL	30-06-79
--------------	-------------------	----------	----------

ARMY EDUCATIONAL CORPS

77. JC 17108	SUB MAJ & HONY LT	HAZARI LAL	28-02-79
--------------	-------------------	------------	----------

78. JC 18256	SUB MAJ & HONY LT	SUKHDEV SINGH	31-05-79
--------------	-------------------	---------------	----------

CORPS OF MILITARY POLICE

79. JC 17456	SUB MAJ & HONY LT	MOHAR SINGH	31-03-79
--------------	-------------------	-------------	----------

THE PIONEER CORPS

80. JC 14417	SUB MAJ & HONY LT	KHIZAR MOHAMMAD	30-04-79
--------------	-------------------	-----------------	----------

DEFENCE SECURITY CORPS

81. JC 4160	SUB MAJ & HONY LT	RC DHANAJAYAN	28-02-79
-------------	-------------------	---------------	----------

TO BE HONORARY LIEUTENANTS**16 CAVALRY**

1. JC 34407	RIS MAJ	M BALAKRISHNA RAI	31-12-79
-------------	---------	-------------------	----------

8 CAVALRY

2. JC 12043	RIS MAJ	SURAJ MAL	31-05-79
-------------	---------	-----------	----------

2 LANCERS

3. JC 33712	RIS MAJ	RANDHIR SINGH	30-11-79
-------------	---------	---------------	----------

4. JC 51881	RIS	RATTAN SINGH	31-08-79
-------------	-----	--------------	----------

17 HORSE

5. JC 50461	RIS	RAN SINGH	31-05-79
-------------	-----	-----------	----------

9 HORSE

6. JC 69894	RIS	MEHAR SINGH	28-02-79
-------------	-----	-------------	----------

3 CAVALRY

7. JC 43077	RIS	AMAR SINGH	31-05-79
-------------	-----	------------	----------

63 CAVALRY

8. JC 15801	RIS MAJ	MUKHTIAR SINGH	31-01-79
-------------	---------	----------------	----------

67 ARMoured REGIMENT

9. JC 52300	RIS	ZILE SINGH	31-07-79
-------------	-----	------------	----------

70 ARMoured REGIMENT

10. JC 52334	RIS	DAYA NAND	30-06-79
--------------	-----	-----------	----------

72 ARMoured REGIMENT

11. JC 36936	RIS MAJ	PARTAP SINGH	31-05-79
--------------	---------	--------------	----------

83 ARMoured REGIMENT

12. JC 49852	RIS	SEDU SINGH	30-06-79
--------------	-----	------------	----------

ARMoured CORPS

13. JC 43702	RIS MAJ	HARBHAJAN SINGH	31-05-79
--------------	---------	-----------------	----------

14. JC 41768	RIS MAJ	SAMPURAN SINGH	31-05-79
--------------	---------	----------------	----------

15. JC 67949	RIS	GURDEV SINGH	30-04-79
--------------	-----	--------------	----------

REGIMENT OF ARTILLERY

16. JC 14344	SUB MAJ	ANUP SINGH	31-03-79
17. JC 34320	SUB MAJ	BACHAN SINGH	31-10-79
18. JC 24242	SUB MAJ	C ANTHONY	31-07-79
19. JC 26920	SUB MAJ	CHARN DAS	31-03-79
20. JC 17311	SUB MAJ	DHARAM PAL	28-02-79
21. JC 15979	SUB MAJ	DINA NATH	28-02-79
22. JC 15440	SUB MAJ	DINA NATH SATTUR	31-07-79
23. JC 13905	SUB MAJ	GURBUX SINGH	31-07-79
24. JC 3989	SUB MAJ	GURCHAIN SINGH	31-07-79
25. JC 12082	SUB MAJ	HARI SINGH	30-06-79
26. JC 14359	SUB MAJ	JOGINDER SINGH	31-08-79
27. JC 17352	SUB MAJ	K S DEVAJI RAO	28-02-79
28. JC 14373	SUB MAJ	KIRPAL SINGH	30-06-79
29. JC 25752	SUB MAJ	M CHINNAPPAN	31-10-79
30. JC 45514	SUB MAJ	MOONAN TIWARY	31-07-79
31. JC 25891	SUB MAJ	NAIN SUKH	30-11-79
32. JC 25787	SUB MAJ	NAND RAM	30-06-79
33. JC 31018	SUB MAJ	RAM CHANDER SINGH	30-06-79
34. JC 26896	SUB MAJ	RAM DAYAL	31-07-79
35. JC 26895	SUB MAJ	RAMPAT SINGH	28-02-79
36. JC 25736	SUB MAJ	SAF JAMES	30-04-79
37. JC 17369	SUB MAJ	SAGAT SINGH	30-04-79
38. JC 24252	SUB MAJ	SEWA SINGH	31-03-79
39. JC 17422	SUB MAJ	SURAT SINGH	31-03-79
40. JC 24236	SUB MAJ	VELUSAMY PANDIAN	30-06-79
41. JC 47982	SUB	BASHAMBAR DAS	31-01-79
42. JC 70825	SUB	CHAIN SINGH	31-12-79
43. JC 45558	SUB	CHANDERMA	31-01-79
44. JC 56444	SUB	CHARANJIT SINGH	30-11-79
45. JC 45553	SUB	FAQIR SINGH	31-03-79
46. JC 45505	SUB	GHUNGAR SINGH	28-02-79
47. JC 34663	SUB	GIAN SINGH	30-06-79
48. JC 45595	SUB	GURMEJ SINGH	31-01-79
49. JC 50375	SUB	HAQIQAT RAI	31-03-79
50. JC 47185	SUB	HARDIP SINGH	31-10-79
51. JC 47224	SUB	JAGMAL SINGH	31-08-79
52. JC 45276	SUB	LEKH RAM SHARMA	31-03-79
53. JC 45438	SUB	MALAK SINGH	30-06-79
54. JC 45444	SUB	NIRMAL SINGH	30-09-79
55. JC 45507	SUB	RAI SINGH	30-04-79
56. JC 45523	SUB	RANJIT SINGH	30-04-79
57. JC 45345	SUB	SANTOKH SINGH	31-05-79
58. JC 40242	SUB	TARA SINGH	28-02-79
59. JC 45578	SUB	TEJ RAM	31-01-79
60. JC 47925	SUB	V KUMARAN	28-02-79

MADRAS ENGINEER GROUP

61. JC 19659	SUB MAJ	A NARAYANAN	28-02-79
62. JC 18589	SUB MAJ	ANTHONI	31-03-79
63. JC 25176	SUB MAJ	CHOKKALINGAM	31-12-79

64. JC 25173	SUB MAJ	D MUNUSAMY	31-12-79
65. JC 18606	SUB MAJ	K DHANAPAL	31-12-79
66. JC 21756	SUB MAJ	V RAMA DASS	31-05-79
67. JC 21758	SUB MAJ	VENKATA RAO	31-10-79
68. JC 38275	SUB	KM KURUVILLA	31-03-79
69. JC 44622	SUB	P BALAKRISHNA PANICKAR	30-04-79
70. JC 34077	SUB	P NARAYANAN NAIR	30-06-79
71. JC 34344	SUB	RAGHAVAN NAMBIAR	31-01-79
72. JC 38274	SUB	S DHANAPALAN	31-03-79
BENGAL ENGINEER GROUP			
73. JC 25247	SUB MAJ	ACHUTA NAND MISRA	31-03-79
74. JC 25241	SUB MAJ	AMAR SINGH	31-10-79
75. JC 14406	SUB MAJ	BAJRANGI PRASHAD	30-09-79
76. JC 31851	SUB MAJ	BHAGAT SINGH	31-05-79
77. JC 33187	SUB MAJ	DILBAGH SINGH	31-01-79
78. JC 24669	SUB MAJ	DURLAB SINGH	30-04-79
79. JC 33354	SUB MAJ	GIRDHAR SINGH	31-10-79
80. JC 30717	SUB MAJ	GURNAM SINGH	28-02-79
81. JC 26801	SUB MAJ	HARBANS SINGH	31-01-79
82. JC 31491	SUB MAJ	JARNAIL SINGH	30-06-79
83. JC 25299	SUB MAJ	JASWANT SINGH SAHOTA	31-01-79
84. JC 28275	SUB MAJ	KM SREEDHARAN	31-01-79
85. JC 26504	SUB MAJ	MJ JOHN	31-01-79
86. JC 25248	SUB MAJ	NIRMAL SINGH	31-10-79
87. JC 26814	SUB MAJ	PT THOMAS	31-01-79
88. JC 20561	SUB MAJ	RANDHIR SINGH	30-04-79
89. JC 26535	SUB MAJ	SAGLI RAM	31-03-79
90. JC 31489	SUB MAJ	SHAM SINGH	31-03-79
91. JC 24658	SUB MAJ	TULA RAM	31-10-79
92. JC 43617	SUB	BALI CHAND	31-05-79
93. JC 46295	SUB	BIKRAMAJIT SINGH	31-05-79
94. JC 51207	SUB	DALI CHAND	31-05-79
95. JC 44526	SUB	GOVARDHAN PARSAD	31-05-79
96. JC 55465	SUB	JAGDISH PRASAD SINGH	30-06-79
97. JC 52609	SUB	JOGINDAR SINGH	28-02-79
98. JC 52304	SUB	NAIN SINGH	31-01-79
99. JC 44545	SUB	RAMESHWAR PRASAD	31-07-79
100. JC 39099	SUB	RAVI SINGH	31-01-79
101. JC 39097	SUB	RUP SINGH	30-11-79
102. JC 46235	SUB	SARWAN SINGH	31-07-79
103. JC 51208	SUB	SHIV DATT SINGH	28-02-79
104. JC 46241	SUB	SUCHA SINGH	31-07-79
BOMBAY ENGINEER GROUP			
105. JC 27772	SUB MAJ	GURMUKH SINGH	31-10-79
106. JC 18383	SUB MAJ	MAN SINGH	31-03-79
107. JC 17504	SUB MAJ	SHRIPAT CHOWAN	30-06-79
108. JC 18382	SUB MAJ	UMMED SINGH	30-11-79
109. JC 41491	SUB	ANANDA YADHAO	28-02-79
110. JC 43841	SUB	ATMA SINGH	31-07-79
111. JC 43799	SUB	CHATTAR SINGH	30-06-79
112. JC 41678	SUB	KALINDAR SINGH	28-02-79
113. JC 36241	SUB	SAHEBRAO JADHAV	31-07-79
CORPS OF SIGNALS			
114. JC 23235	SUB MAJ	AMAR SINGH	31-01-79
115. JC 23239	SUB MAJ	BHAG MAL	31-05-79
116. JC 30223	SUB MAJ	BIR SINGH	31-07-79
117. JC 31813	SUB MAJ	BRIJ LAL	30-09-79
118. JC 20070	SUB MAJ	DEPUTY LAL MEHTA	31-03-79
119. JC 32525	SUB MAJ	GIAN SINGH, SM	30-04-79
120. JC 18157	SUB MAJ	GURBACHAN SINGH	30-09-79
121. JC 27338	SUB MAJ	KARTAR SINGH	30-11-79
122. JC 30226	SUB MAJ	KRISHAN LAL	30-06-79
123. JC 48199	SUB MAJ	KRISHNA CHANDRA MAHARANA	31-07-79
124. JC 29399	SUB MAJ	MM BABY	30-06-79
125. JC 22382	SUB MAJ	MULAK RAJ	31-08-79
126. JC 31276	SUB MAJ	P KARUPPA SAMI	31-08-79

127. JC 48200	SUB MAJ	PRASANNA KUMAR PATTANAİK	30-06-79
128. JC 30280	SUB MAJ	R BALAKRISHNAN	30-04-79
129. JC 27352	SUB MAJ	RAM RATH	31-03-79
130. JC 30225	SUB MAJ	RANJHA SINGH	31-05-79
131. JC 44761	SUB MAJ	SAMUND SINGH	30-06-79
132. JC 44433	SUB	GEORGE BENJAMIN	30-11-79
133. JC 56228	SUB	M SREEDHARAN	31-07-79
BRIGADE OF THE GUARDS			
134. JC 29018	SUB MAJ	ARJAN SINGH BISHT	31-10-79
135. JC 27075	SUB MAJ	BIRENDAR SINGH	28-02-79
136. JC 35572	SUB MAJ	DALIP SINGH	30-06-79
137. JC 30426	SUB MAJ	GORAKH SINGH	31-10-79
138. JC 55923	SUB	ATMA RAM	30-06-79
139. JC 41666	SUB	PIARA SINGH	30-06-79
THE PARACHUTE REGIMENT			
140. JC 34378	SUB MAJ	VICTOR SEQUERA, SM	28-02-79
THE PUNJAB REGIMENT			
141. JC 24421	SUB MAJ	BHIM SAIN	31-03-79
142. JC 17051	SUB MAJ	DINA NATH	31-08-79
143. JC 39393	SUB MAJ	JHABHU RAM	30-11-79
144. JC 16440	SUB MAJ	MOHAR SINGH	31-10-79
145. JC 13526	SUB MAJ	NASIB SINGH	31-05-79
146. JC 25296	SUB MAJ	PARBHU RAM	31-08-79
147. JC 59224	SUB	AMAR SINGH	31-01-79
148. JC 38211	SUB	AMAR SINGH	31-03-79
149. JC 41226	SUB	BALWANT SINGH	30-11-79
150. JC 59479	SUB	GIAN CHAND	30-04-79
151. JC 41374	SUB	SARDAR SINGH	28-02-79
THE MADRAS REGIMENT			
152. JC 27307	SUB MAJ	B KRISHNA PILLAI	30-04-79
153. JC 30569	SUB MAJ	K RAGHAVAN NAIR	31-08-79
154. JC 17164	SUB MAJ	KV THOMAS	31-01-79
155. JC 38658	SUB MAJ	S RAJAN	30-06-79
156. JC 21838	SUB MAJ	V VEERASAMY	30-04-79
157. JC 54257	SUB	P RAMAN	31-05-79
158. JC 35550	SUB	SWAMINATHAN, SM	31-07-79
THE GRENADIERS			
159. JC 42543	SUB MAJ	BALE RAM	31-12-79
160. JC 16787	SUB MAJ	OM PARKASH	30-11-79
161. JC 58370	SUB	BABU RAM VERMA	31-07-79
162. JC 39332	SUB	BASANT SINGH	31-01-79
163. JC 56126	SUB	SILK RAM	31-07-79
THE MARATHA LIGHT INFANTRY			
164. JC 22115	SUB MAJ	GANGA RAM BARGE	31-07-79
165. JC 22103	SUB MAJ	PANDURANG RAO	28-02-79
166. JC 12276	SUB MAJ	PARMESHWAR	31-03-79
167. JC 31872	SUB MAJ	RAJA RAM SHINDE	30-04-79
168. JC 34612	SUB MAJ	SAKHA RAM POWAR	30-06-79
169. JC 16808	SUB MAJ	SOPAN MANE	30-04-79
170. JC 61592	SUB	AKBAR SINGH	31-07-79
171. JC 52214	SUB	DATTA JI RAO	31-07-79
THE RAJPUTANA RIFLES			
172. JC 33236	SUB MAJ	MIR SINGH	31-07-79
173. JC 33817	SUB MAJ	SOHAN LAL	31-10-79
174. JC 40945	SUB	BHAGWAN SINGH	31-03-79
175. JC 50172	SUB	JAI CHAND	30-06-79
176. JC 41367	SUB	JAWAN SINGH	28-02-79
177. JC 20051	SUB	SAJJAN SINGH	31-07-79
THE RAJPUT REGIMENT			
178. JC 24936	SUB MAJ	DAU DAYAL MISRA	30-06-79
179. JC 31218	SUB MAJ	HARI RAM	30-06-79

180. JC 40606	SUB	KIRAN SINGH	31-08-79
181. JC 34732	SUB	LAJJA RAM	31-03-79
182. JC 22971	SUB	RATTAN LAL	31-07-79
THE JAT REGIMENT			
183. JC 50580	SUB MAJ	MOHINDAR SINGH	30-09-79
184. JC 33166	SUB MAJ	RUP RAM	31-03-79
185. JC 53273	SUB	RAJ BAHADUR SINGH	28-02-79
186. JC 37780	SUB	RISAL SINGH	31-07-79
187. JC 39391	SUB	SUMER SINGH	31-01-79
THE SIKH REGIMENT			
188. JC 59096	SUB	GURBAKSH SINGH	31-12-79
189. JC 50260	SUB	SANTOKH SINGH	31-07-79
THE SIKH LIGHT INFANTRY			
190. JC 11575	SUB MAJ	BANT SINGH	30-04-79
191. JC 12145	SUB MAJ	SARDARA SINGH	31-05-79
192. JC 48068	SUB	BANT SINGH	31-05-79
THE DOGRA REGIMENT			
193. JC 32722	SUB MAJ	SIRI RAM	31-12-79
194. JC 33442	SUB	BALDEV SINGH	30-06-79
195. JC 49076	SUB	DAYA RAM	28-02-79
196. JC 34619	SUB	GANDHARB SINGH	28-02-79
197. JC 62989	SUB	MEHTAB SINGH	31-10-79
198. JC 54718	SUB	SURINDAR NATH	31-01-79
THE GARHWAL RIFLES			
199. JC 26619	SUB MAJ	BACHAN SINGH CHAUHAN	31-05-79
THE KUMAON REGIMENT			
200. JC 32962	SUB MAJ	BALBIR SINGH	31-07-79
201. JC 35617	SUB MAJ	BHUPAL SINGH	30-06-79
202. JC 32889	SUB MAJ	CHANDRA SINGH	31-03-79
203. JC 30446	SUB MAJ	JAGNATH SINGH	30-06-79
204. JC 35619	SUB MAJ	NATHU SINGH	31-08-79
205. JC 58145	SUB	AYODHYA PRASAD SINGH	30-06-79
206. JC 39315	SUB	CHHOTY LAL SINGH	31-12-79
207. JC 36883	SUB	PHUL SINGH, SM	30-09-79
208. JC 37825	SUB	PRATAP SINGH	31-05-79
THE ASSAM REGIMENT			
209. JC 51172	SUB	ROKHUMA LUSHAI	28-02-79
THE BIHAR REGIMENT			
210. JC 34898	SUB MAJ	JOSEPH LAKRA	30-06-79
211. JC 31629	SUB MAJ	RAM DAS SINGH YADAVA	31-01-79
THE MAHAR REGIMENT			
212. JC 33947	SUB MAJ	BHIM RAO SHIRSAT	31-07-79
213. JC 24827	SUB MAJ	CHAND SINGH	31-07-79
214. JC 27838	SUB MAJ	DALIP	30-09-79
215. JC 23272	SUB MAJ	DARSHAN SINGH	30-09-79
216. JC 28957	SUB MAJ	GANPATI KAMBLE	31-08-79
217. JC 35639	SUB MAJ	JAGAN NATH LONDHE	31-08-79
218. JC 12303	SUB MAJ	JASWANT SINGH	30-11-79
219. JC 30411	SUB MAJ	LAXMAN KARPE	31-12-79
220. JC 24865	SUB MAJ	PIARA SINGH	31-08-79
221. JC 23628	SUB MAJ	PRITAM SINGH	31-01-79
222. JC 58984	SUB	MUNSHI RAM	30-06-79
THE JAMMU AND KASHMIR RIFLES			
223. JC 25161	SUB MAJ	ISHAR DASS	31-08-79
224. JC 43659	SUB	ANUP SINGH	30-09-79
THE JAMMU AND KASHMIR LIGHT INFANTRY			
225. JC 19	SUB MAJ	GHULAM NABI MALIK	30-11-79
226. JC 105	SUB	ARJAN NATH MATTU	31-03-79
1 GORKHA RIFLES			
227. JC 36892	SUB MAJ	DIL BAHADUR GURUNG	31-01-79
228. JC 36770	SUB MAJ	JAHAIR SINGH THAPA	30-09-79

3 GORKHA RIFLES			
229. JC 36532	SUB MAJ	TEJ BAHADUR GURUNG	31-05-79
4 GORKHA RIFLES			
230. JC 53468	SUB	KRISHNA NAND KANWAR	30-06-79
5 GORKHA RIFLES			
231. JC 37612	SUB MAJ	BAL BAHADUR ALE	31-12-79
232. JC 33979	SUB MAJ	SHER SING THAPA	31-08-79
8 GORKHA RIFLES			
233. JC 36578	SUB MAJ	SURAT SINGH BOHRA	31-10-79
234. JC 42294	SUB	SEWA SING THAPA	31-01-79
235. JC 44081	SUB	UJER SING THAPA	31-01-79
9 GORKHA RIFLES			
236. JC 52973	SUB	MAHENDRA SING THAPA	31-01-79
11 GORKHA RIFLES			
237. JC 33944	SUB MAJ	BUDHA SING TAMANG	31-05-79
238. JC 34534	SUB MAJ	TILMAN TAMANG	31-07-79
ARMY SERVICE CORPS (SUPPLY)			
239. JC 40525	SUB MAJ	BALWANT SINGH	30-06-79
240. JC 21942	SUB MAJ	OM PARKASH	30-04-79
241. JC 21950	SUB MAJ	PIARA SINGH	31-07-79
242. JC 21949	SUB MAJ	RAMJI DASS	30-06-79
243. JC 36136	SUB MAJ	SOHAN SINGH	31-12-79
244. JC 17905	SUB MAJ	SURAJ PRAKASH	28-02-79
245. JC 17900	SUB MAJ	TEK CHAND	28-02-79
246. JC 57467	SUB	ARABINDA BARUA	30-11-79
247. JC 53512	SUB	ASWINI KUMAR DAS	28-02-79
248. JC 56662	SUB	B APPALA RAO	31-03-79
249. JC 57443	SUB	BR BAKSHI	30-09-79
250. JC 57410	SUB	BALDEV SINGH PARMAR	31-03-79
251. JC 57418	SUB	BAL KRISHAN PRABHAKAR	30-04-79
252. JC 53515	SUB	BIKARMADITYA TEWARY	28-02-79
253. JC 53531	SUB	C NARAYANA GUPTAN	30-06-79
254. JC 56667	SUB	CHAMU SINGH KAFALIA	31-03-79
255. JC 52574	SUB	DAMODAR CHOPADE	28-02-79
256. JC 57415	SUB	DHANUSH DHARI PANDEY	30-04-79
257. JC 54610	SUB	DIPTINDRA NARAYAN MUJUMDAR	30-06-79
258. JC 57419	SUB	GS RAO	31-05-79
259. JC 56660	SUB	JAGAT RAM	28-02-79
260. JC 53514	SUB	JOGINDAR SINGH	28-02-79
261. JC 53118	SUB	KAPIL DEO SINGH	31-05-79
262. JC 53123	SUB	KARRA GOPAL	31-05-79
263. JC 56659	SUB	KESHAB DATT OLI	28-02-79
264. JC 53106	SUB	KHAGENDRA NATH GHOSH	30-04-79
265. JC 56665	SUB	KISHAN CHAND	31-03-79
266. JC 56668	SUB	KRISHAN LALL SHARMA	31-03-79
267. JC 56661	SUB	MALKIAT SINGH	31-03-79
268. JC 59559	SUB	PV CHANDU KUTTY	31-05-79
269. JC 52583	SUB	PIARA SINGH	31-03-79
270. JC 56664	SUB	R SUBBAIYAN	31-03-79
271. JC 56669	SUB	RAJENDRA SINGH	31-03-79
272. JC 53111	SUB	RAM NARESH SINGH	30-04-79
273. JC 53516	SUB	RAM SARUP	28-02-79
274. JC 56678	SUB	RATTAN CHAND SHARMA	31-03-79
275. JC 57426	SUB	ROSHAN LAL	30-06-79
276. JC 57416	SUB	SAMMAST CHANDER	30-04-79
277. JC 53513	SUB	SAT PAL SHARMA	28-02-79
278. JC 53109	SUB	SOMIRAN KUMAR DAS	30-04-79
279. JC 52582	SUB	TARA SINGH PANESAR	31-03-79
280. JC 52576	SUB	TARSEM SINGH	28-02-79
281. JC 53122	SUB	V VARKEY	28-02-79

ARMY SERVICE CORPS (MECHANICAL TRANSPORT)

282. JC 44049	SUB	BABU RAM	31-08-79
283. JC 51523	SUB	BALBIR SINGH	31-03-79
284. JC 49227	SUB	BHAG MAL	31-05-79
285. JC 57080	SUB	BHAGAT RAM	31-05-79
286. JC 57070	SUB	BHOLA NATH DHAR GUPTA	30-09-79
287. JC 51740	SUB	BISHWA NATH TIWARI	30-04-79
288. JC 49226	SUB	CHUNNA RAM	31-01-79
289. JC 43520	SUB	HARBANS LAL	31-05-79
290. JC 52673	SUB	JAGAT RAM SAKLANI	31-12-79
291. JC 44062	SUB	JAGDISH RAM	31-03-79
292. JC 51738	SUB	KAPTAN CHAND	30-04-79
293. JC 57116	SUB	MALKET SINGH	31-05-79
294. JC 57062	SUB	NAND KISHORE PANDEY	31-05-79
295. JC 44044	SUB	PARAS RAM	30-06-79
296. JC 57067	SUB	PURAN SINGH	30-06-79

ARMY MEDICAL CORPS

297. JC 33749	SUB MAJ	BALWANT SINGH	30-04-79
298. JC 35100	SUB MAJ	BASANT KUMAR DAS	31-12-79
299. JC 33751	SUB MAJ	HARI BILAS	30-04-79
300. JC 41583	SUB MAJ	KARUNAKARAN NAMBIAR	30-06-79
301. JC 48456	SUB MAJ	PD KANNAN	31-05-79
302. JC 44253	SUB MAJ	PINDI DASS GUJRAL	31-12-79
303. JC 28087	SUB MAJ	PRAHLAD SINGH	31-08-79
304. JC 33745	SUB MAJ	SAWARN SINGH	30-11-79
305. JC 33752	SUB MAJ	THOMAS MATHEW	31-05-79
306. JC 35099	SUB MAJ	TULSI DASS	31-08-79
307. JC 52953	SUB MAJ	VN SIVADAS	30-04-79
308. JC 33753	SUB MAJ	ZULFI RAM	28-02-79
309. JC 56271	SUB	RAMESHWAR DASS	31-01-79
310. JC 47519	SUB	SOHAN SINGH	31-01-79

ARMY ORDNANCE CORPS

311. JC 14301	SUB MAJ	APPA RAO CHITIREDDI	31-07-79
312. JC 38060	SUB MAJ	BHARAT SINGH	30-06-79
313. JC 35241	SUB MAJ	DHARAM SINGH	31-03-79
314. JC 15924	SUB MAJ	GANPAT SINGH	31-08-79
315. JC 38004	SUB MAJ	HARPAL SINGH	28-02-79
316. JC 49322	SUB MAJ	HIRA SINGH YADAVA	31-08-79
317. JC 38031	SUB MAJ	K KESAVA NAMBEESAN	30-06-79
318. JC 36481	SUB MAJ	KEHAR SINGH	31-05-79
319. JC 35243	SUB MAJ	LAJPAT RAI	31-05-79
320. JC 38023	SUB MAJ	MG VARGHESE	31-05-79
321. JC 32730	SUB MAJ	MS VENKATESWARAN	31-07-79
322. JC 22821	SUB MAJ	MANJIT LAL KAKRIA	31-05-79
323. JC 48873	SUB MAJ	P THANKAPPAN NAIR	31-07-79
324. JC 37043	SUB MAJ	PC THOMAS	31-05-79
325. JC 22811	SUB MAJ	R BALASUBRAMANIAM	31-05-79
326. JC 11108	SUB MAJ	RAM MURTI RATTAN	31-05-79
327. JC 34775	SUB MAJ	RAM SINGH	31-01-79
328. JC 35417	SUB MAJ	RAM TIRATH SHARMA	31-03-79
329. JC 38039	SUB MAJ	RICHHPAL SINGH	30-06-79
330. JC 38294	SUB MAJ	SHAMBHU PRASAD	30-06-79
331. JC 22802	SUB MAJ	SHAM LAL GUPTA	31-05-79
332. JC 10999	SUB MAJ	SHIVA CHANDRA PANDEY	31-07-79
333. JC 48101	SUB MAJ	SURAJ INDER SHARMA	30-04-79
334. JC 30862	SUB MAJ	TC RAMAN	30-06-79
335. JC 35242	SUB MAJ	TK PHILIPOSE	31-05-79
336. JC 22812	SUB MAJ	TILAK RAJ SAWHNY	31-05-79
337. JC 61627	SUB	KRISHNA KUMAR SINGH	28-02-79
338. JC 57137	SUB	NIRMAL SINGH	31-10-79
339. JC 54341	SUB	RAJENDRA SINGH	31-03-79
340. JC 62643	SUB	RATAN CHAND	30-09-79

CORPS OF ELECTRICAL AND MECHANICAL ENGINEERS

341. JC 14774	SUB MAJ	AJIT SINGH	31-01-79
342. JC 35429	SUB MAJ	CHANDRA DIP GIR	31-10-79
343. JC 35457	SUB MAJ	CHAPPANDA K ANNIAH	31-12-79

344. JC 17748	SUB MAJ	DA CHITALE	28-02-79
345. JC 19246	SUB MAJ	DEEP CHAND	30-06-79
346. JC 37181	SUB MAJ	GANPAT SINGH RAWAT	30-09-79
347. JC 27024	SUB MAJ	HUKAM SINGH	31-03-79
348. JC 19058	SUB MAJ	JAI CHAND	31-07-79
349. JC 18692	SUB MAJ	K LAKSHMANAN	31-03-79
350. JC 18677	SUB MAJ	KARAM SINGH	31-07-79
351. JC 18857	SUB MAJ	KISHORI LAL	31-12-79
352. JC 35449	SUB MAJ	MURIGAPPA KARABASAPPA DODAMANI	31-07-79
353. JC 26457	SUB MAJ	OM DUTT	31-01-79
354. JC 13378	SUB MAJ	PEARE LAL	31-10-79
355. JC 37170	SUB MAJ	RAJ SINGH	31-12-79
356. JC 27174	SUB MAJ	RAJINDER PARSAD GOSWAMI	31-12-79
357. JC 14778	SUB MAJ	RAM PARKASH	31-03-79
358. JC 18660	SUB MAJ	TARSEM DASS	31-03-79
359. JC 55659	SUB	BALWANT RAI	31-08-79
360. JC 54569	SUB	DAYA NAND CHOUBEY	31-05-79
361. JC 45952	SUB	KARTAR SINGH	31-01-79
362. JC 46392	SUB	P BALAKRISHNAN	31-01-79
363. JC 58725	SUB	SATYA PAUL	31-05-79
364. JC 56752	SUB	TP SIVASANKARAN	28-02-79
ARMY EDUCATIONAL CORPS			
365. JC 18267	SUB MAJ	AJMER SINGH	30-04-79
366. JC 18270	SUB MAJ	BHUPINDER SINGH	31-05-79
367. JC 18268	SUB MAJ	CHANDER PARKASH	30-04-79
368. JC 19430	SUB MAJ	MAHABIR SINGH	31-12-79
369. JC 21311	SUB MAJ	RADHA KRISHEN KACHROO	31-03-79
370. JC 18302	SUB MAJ	RAJINDER SINGH JAMWAL	30-09-79
371. JC 17105	SUB MAJ	RAM NARAIN	30-04-79
372. JC 21304	SUB MAJ	UTTAM CHAND	31-01-79
373. JC 52356	SUB	AJMER SINGH	28-02-79
374. JC 53901	SUB	DEO RAJ SINGH	31-07-79
375. JC 52600	SUB	GOKULA NAND UPADHYAYA	31-03-79
376. JC 52359	SUB	HIRDYA NAND TIWARI	31-03-79
377. JC 30637	SUB	HOSHIAR SINGH	31-01-79
378. JC 52358	SUB	JAGOBANDHU CHOUDHURY	31-03-79
379. JC 52347	SUB	KAPIL DEO SHARMA	31-03-79
380. JC 52602	SUB	SARAB JIT SINGH	31-05-79
THE INTELLIGENCE CORPS			
381. JC 23904	SUB MAJ	NM GANGADHARAN NAIR	30-06-79
382. JC 33550	SUB	MAHENDRA BHAGAT	31-10-79
383. JC 34555	SUB	SARJIT SINGH	31-05-79
CORPS OF MILITARY POLICE			
384. JC 21834	SUB MAJ	UDE SINGH RAWAT	31-03-79
385. JC 49811	SUB	MAN SINGH	31-03-79
386. JC 65164	SUB	VED PARKASH	31-10-79
THE PIONEER CORPS			
387. JC 16075	SUB MAJ	AMIN LAL SINGH	31-05-79
DEFENCE SECURITY CORPS			
388. JC 4176	SUB MAJ	HARBANS SINGH	31-12-79
389. 46340 JC	SUB MAJ	MK GOVINDAN NAIR	30-04-79

[File No. 40113/RD 79/AG/PS 5(A)]

सं० 2-ई बिनांक 25 जनवरी, 1979:—राष्ट्रपति महर्षि गणतंत्र दिवस (26 जनवरी, 1979) के अवसर पर निम्नलिखित जे सी प्रोस को उनके अवकाश ग्रहण करने पर सेना नियमावली 1962 के पैरा 180 के अर्थान उन के नाम के सामने दी गई तारीख से, अवैतनिक पद प्रदान करने हेतु—

अवैतनिक कैंपल के रैंक में

1 हास

1. जे सी 26485 रिमाइलदार मेजर व अवैतनिक लेफ्टिनेंट नागयन सिंह 30-11-78

2 लासर्स

2. जे सी 41485 रिमाइलदार व अवैतनिक लेफ्टिनेंट अर्जुन सिंह 31-10-78

3 केबलरी

3. जे सी 28213	रिमालदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टनेंट	सीध राम	31-12-78
4. जे सी 41765	रिमालदार व अवैतनिक लैफ्टनेंट	गन्नाख सिंह	30-11-78

63 केबलरी

5. जे सी 60487	रिमालदार व अवैतनिक लैफ्टनेंट	अर्जुन सिंह	30-11-78
----------------	------------------------------	-------------	----------

84 ब्रांड रेजिमेंट

6. जे सी 46334	रिमालदार व अवैतनिक लैफ्टनेंट	महिन्द्र सिंह	31-12-78
----------------	------------------------------	---------------	----------

ब्रांड कोर

7. जे सी 50049	रिमालदार व अवैतनिक लैफ्टनेंट	प्रीतम सिंह	31-12-78
8. जे सी 50489	रिमालदार व अवैतनिक लैफ्टनेंट	शर्मा चन्द्र परमार	31-10-78

रेजिमेंट आफ आर्टिलरी

9. जे सी 25682	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टनेंट	अमर सिंह	31-08-78
10. जे सी 34033	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टनेंट	बहादुर सिंह	31-08-78
11. जे सी 25834	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टनेंट	बैज नाथ राय	30-09-78
12. जे सी 45489	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टनेंट	बाल कृष्ण राय	30-11-78
13. जे सी 17317	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टनेंट	चन्दगाँ राम	31-12-78
14. जे सी 40176	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टनेंट	देवीधन	30-09-78
15. जे सी 11216	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टनेंट	जी रामभद्रा राजू	30-11-78
16. जे सी 32777	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टनेंट	हन्दर सिंह	31-10-78
17. जे सी 40981	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टनेंट	जगदीश प्रसाद शर्मा	30-09-78
18. जे सी 24366	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टनेंट	जगदीश सिंह	30-09-78
19. जे सी 14377	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टनेंट	जे गोपाल सिंह	31-12-78
20. जे सी 17360	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टनेंट	के दामोदरन तम्बियार	30-09-78
21. जे सी 17349	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टनेंट	कृष्णा स्वामी	31-12-78
22. जे सी 15412	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टनेंट	माधवन	31-08-78
23. जे सी 14376	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टनेंट	मान सिंह	31-12-78
24. जे सी 12552	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टनेंट	मनी राय	31-08-78
25. जे सी 29032	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टनेंट	नारायण राम	30-11-78
26. जे सी 16859	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टनेंट	नसीब सिंह	30-09-78
27. जे सी 33283	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टनेंट	पुनम चन्द	31-12-78
28. जे सी 24216	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टनेंट	पजाव सिंह	31-10-78
29. जे सी 47152	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टनेंट	राम चन्दर	30-11-78
30. जे सी 17361	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टनेंट	सदा शिव	31-08-78
31. जे सी 14386	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टनेंट	समदर सिंह	31-10-78
32. जे सी 14379	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टनेंट	शंकर आहरो	30-09-78
33. जे सी 29035	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टनेंट	टेक सिंह	31-10-78
34. जे सी 16837	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टनेंट	वी पी कृष्णा मुनि	31-10-78
35. जे सी 49865	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टनेंट	बन्धनाकर सिंह	31-12-78
36. जे सी 34026	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टनेंट	बलबीर सिंह	31-10-78
37. जे सी 50796	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टनेंट	दलीप सिंह	31-12-78
38. जे सी 47217	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टनेंट	दशिन्दर पाल सिंह	31-08-78
39. जे सी 45548	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टनेंट	दिदार सिंह	30-09-78
40. जे सी 32288	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टनेंट	दुरधियज सिंह	30-09-78
41. जे सी 47928	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टनेंट	गोविन्दन तम्बियार	30-11-78
42. जे सी 47164	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टनेंट	गुरदयाल सिंह	31-12-78
43. जे सी 45402	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टनेंट	जगन नाथ	31-08-78
44. जे सी 47221	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टनेंट	कृष्णा स्वामी	30-11-78
45. जे सी 24253	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टनेंट	निणी कान्त दत्ता	31-08-78
46. जे सी 45464	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टनेंट	प्रिभू दयाल	30-09-78
47. जे सी 47196	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टनेंट	प्रेम सिंह	31-10-78
48. जे सी 25873	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टनेंट	भार कोथरडारमन	31-08-78
49. जे सी 47896	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टनेंट	रमेश सिंह	31-8-78
50. जे सी 45487	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टनेंट	राम राय जगदान	30-09-78
51. जे सी 45454	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टनेंट	मुलमान सिंह	31-12-78
52. जे सी 47926	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टनेंट	स्वर्ण सिंह	31-12-78

मद्रास इंजीनियर ग्रुप

53. जे सा 18593	सूबेदार मेजर व अद्यैतनिक लैफ्टनेंट	एम चित्तापत्त पिल्ले	31-08-78
54. जे सा 33656	सूबेदार व अद्यैतनिक लैफ्टनेंट	ए पार्थी	31-08-78
55. जे सा 38119	सूबेदार व अद्यैतनिक लैफ्टनेंट	ए के कृष्णन नायर	30-09-78
56. जे सा 44818	सूबेदार व अद्यैतनिक लैफ्टनेंट	के मार्कबन्धू	30-09-78
57. जे सा 34878	सूबेदार व अद्यैतनिक लैफ्टनेंट	के ए चन्द्रसेकरन	30-09-78
58. जे सा 41295	सूबेदार व अद्यैतनिक लैफ्टनेंट	के के अन्नाड्रिम	31-08-78
59. जे सा 34877	सूबेदार व अद्यैतनिक लैफ्टनेंट	काटाटिल दामोदरन नायर	31-08-78
60. जे सा 34349	सूबेदार व अद्यैतनिक लैफ्टनेंट	एम बालाकृष्णन	30-11-78
61. जे सा 43870	सूबेदार व अद्यैतनिक लैफ्टनेंट	एम आई पाय	30-09-78
62. जे सा 41302	सूबेदार व अद्यैतनिक लैफ्टनेंट	पी आरमुगम	30-09-78
63. जे सा 49056	सूबेदार व अद्यैतनिक लैफ्टनेंट	पी राधवन नम्बियार	31-08-78
64. जे सा 41298	सूबेदार व अद्यैतनिक लैफ्टनेंट	एस कुमारलेल्	30-09-78
65. जे सा 28975	सूबेदार व अद्यैतनिक लैफ्टनेंट	टी एम सानिकावाचगम	31-08-78

बंगाल इंजीनियर ग्रुप

66. जे सा 26802	सूबेदार मेजर व अद्यैतनिक लैफ्टनेंट	सुरनाम गिह	31-12-78
67. जे सा 28740	सूबेदार मेजर व अद्यैतनिक लैफ्टनेंट	क पी राजा गोपालन नम्बियार	31-12-78
68. जे सा 33519	सूबेदार मेजर व अद्यैतनिक लैफ्टनेंट	पी सी वर्क	31-12-78
69. जे सा 33360	सूबेदार मेजर व अद्यैतनिक लैफ्टनेंट	पी के प्रभाकरन	31-12-78
70. जे सा 16623	सूबेदार मेजर व अद्यैतनिक लैफ्टनेंट	पी बी दामोदरन	31-12-78
71. जे सा 16624	सूबेदार मेजर व अद्यैतनिक लैफ्टनेंट	टी एम सधाई	31-12-78
72. जे सा 39563	सूबेदार व अद्यैतनिक लैफ्टनेंट	विश्वन मिह	30-09-78
73. जे सा 44532	सूबेदार व अद्यैतनिक लैफ्टनेंट	सुरचन मिह	31-08-78
74. जे सा 46562	सूबेदार व अद्यैतनिक लैफ्टनेंट	हन्ग राज	30-11-78
75. जे सा 43624	सूबेदार व अद्यैतनिक लैफ्टनेंट	हरि दत्त	31-10-78
76. जे सा 16237	सूबेदार व अद्यैतनिक लैफ्टनेंट	हजुरी सिंह	31-10-78
77. जे सा 43613	सूबेदार व अद्यैतनिक लैफ्टनेंट	निर्मल सिंह	31-08-78
78. जे सा 48134	सूबेदार व अद्यैतनिक लैफ्टनेंट	राम कुशन	31-10-78

भास्के इंजीनियर ग्रुप

79. जे सा 17514	सूबेदार मेजर व अद्यैतनिक लैफ्टनेंट	भास्कार बोक्खटाकर	30-09-78
80. जे सा 24593	सूबेदार मेजर व अद्यैतनिक लैफ्टनेंट	दिनकर धाडगे	31-10-78
81. जे सा 43828	सूबेदार व अद्यैतनिक लैफ्टनेंट	कमल चन्द	31-08-78
82. जे सा 43855	सूबेदार व अद्यैतनिक लैफ्टनेंट	मृन्मथर उपाध्याय	31-10-78

कोर आफ सिगमस

83. जे सा 23245	सूबेदार मेजर व अद्यैतनिक लैफ्टनेंट	पी के भास्करन	30-11-78
84. जे सा 29374	सूबेदार मेजर व अद्यैतनिक लैफ्टनेंट	धमरजित मिह	30-11-78
85. जे सा 28028	सूबेदार मेजर व अद्यैतनिक लैफ्टनेंट	श्रंग दत्त	31-10-78
86. जे सा 29371	सूबेदार मेजर व अद्यैतनिक लैफ्टनेंट	विदार मिह	31-12-78
87. जे सा 31280	सूबेदार मेजर व अद्यैतनिक लैफ्टनेंट	जीत मिह	31-10-78
88. जे सा 16670	सूबेदार मेजर व अद्यैतनिक लैफ्टनेंट	जोगिन्दर मिह	31-08-78
89. जे सा 29372	सूबेदार मेजर व अद्यैतनिक लैफ्टनेंट	के भास्करन नायर	31-12-78
90. जे सा 29406	सूबेदार मेजर व अद्यैतनिक लैफ्टनेंट	के गोपायाकृष्णा पिल्ले	31-12-78
91. जे सा 26002	सूबेदार मेजर व अद्यैतनिक लैफ्टनेंट	कर्मर मिह	31-08-78
92. जे सा 20066	सूबेदार मेजर व अद्यैतनिक लैफ्टनेंट	पी एम राजा गोपाल	31-10-78
93. जे सा 29368	सूबेदार मेजर व अद्यैतनिक लैफ्टनेंट	रणजीत मिह	30-11-78
94. जे सा 18146	सूबेदार मेजर व अद्यैतनिक लैफ्टनेंट	माधु मिह	31-10-78
95. जे सा 30272	सूबेदार मेजर व अद्यैतनिक लैफ्टनेंट	मुनैत चन्द	31-10-78
96. जे सा 55162	सूबेदार व अद्यैतनिक लैफ्टनेंट	अजीत मिह	31-10-78
97. जे सा 52802	सूबेदार व अद्यैतनिक लैफ्टनेंट	के कून्तु कुन्ज	31-10-78
98. जे सा 60654	सूबेदार व अद्यैतनिक लैफ्टनेंट	कृष्ण गोपाल	31-10-78
99. जे सा 37227	सूबेदार व अद्यैतनिक लैफ्टनेंट	नारायण गिह	31-08-78
100. जे सा 37237	सूबेदार व अद्यैतनिक लैफ्टनेंट	रनेन्व मोहन दाम	31-10-78

बिगैड ग्राफ की गार्डस

101. जे सी 31618	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	बकशी राम	30-09-78
102. जे सी 16139	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	एम सैमुयल	30-11-78
103. जे सी 18222	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	राम किशन	31-10-78
104. जे सी 58117	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	कपिल देव शर्मा	31-12-78
105. जे सी 48726	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	करनार सिंह	30-09-78
106. जे सी 56395	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	कौली बहादुर गुरंग	31-10-78
107. जे सी 43081	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	मुरज भाग मल्हन	31-10-78

बी पैराग्राफ रेजिमेंट

108. जे सी 32624	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	छ्यान सिंह नेगी	30-09-78
------------------	------------------------------	-----------------	----------

बी पंजाब रेजिमेंट

109. जे सी 17199	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	खेम राज, बी एस एम	31-12-78
110. जे सी 44734	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	भाग सिंह, एस एम	31-10-78

बी मद्रास रेजिमेंट

111. जे सी 27033	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	सी आर रामाकृष्णन	31-08-78
112. जे सी 18331	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	पी आस्करन नायर	31-08-78
113. जे सी 24823	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	टी ए बालासुंदरम	31-08-78
114. जे सी 53975	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	सी शर्मावेनु	30-11-78
115. जे सी 35538	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	जी स्टानले	30-11-78
116. जे सी 46118	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	एम सैथू	31-10-78
117. जे सी 50130	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	एम शनमुगम	30-11-78
118. जे सी 44679	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	टी नारायणन नायर	30-11-78

बी ब्रिगेडियरस

119. जे सी 35221	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	बिहारी खाल	31-08-78
120. जे सी 62134	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	जयराम सिंह	30-11-78
121. जे सी 41928	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	रन सिंह	30-09-78
122. जे सी 62417	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	गिरीपाल सिंह	30-11-78

बी मराठा लाइट इन्फैंट्री

123. जे सी 24619	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	मनशा सिंह	31-12-78
124. जे सी 26581	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	बाबाराया धाडगे	31-12-78

बी राजपूताना राइफल

125. जे सी 32145	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	भगवान सिंह	31-08-78
126. जे सी 44216	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	गिरजा सिंह	31-08-78
127. जे सी 48704	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	राजपाल सिंह	31-08-78
128. जे सी 53287	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	राम धन राम, एम एम	30-09-78

बी राजपूत रेजिमेंट

129. जे सी 37702	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	भोपाल सिंह	31-08-78
130. जे सी 16945	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	उदय प्रताप सिंह	30-11-78
131. जे सी 42337	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	मुखर्जी सिंह	30-09-78

बी जाट रेजिमेंट

132. जे सी 18014	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	प्यारे खाल	31-12-78
------------------	-----------------------------------	------------	----------

बी सिख रेजिमेंट

133. जे सी 14435	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	अजीत सिंह	31-08-78
134. जे सी 20881	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	परशोतम सिंह	31-12-78
135. जे सी 40702	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	अजायब सिंह	31-10-78
136. जे सी 39356	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	दशेन सिंह	31-08-78
137. जे सी 40701	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	जीत सिंह	30-09-78
138. जे सी 58227	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	जीत सिंह	31-12-78
139. जे सी 35612	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	करनैल सिंह	31-12-78
140. जे सी 59100	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	केवल सिंह	31-10-78
141. जे सी 40936	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	सतवन्त सिंह	31-10-78

बी डोगरा रेजिमेंट :

142. जे सी 41614	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	काशी राम	31-08-78
143. जे सी 52505	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	करनार सिंह	31-12-78
144. जे सी 48386	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	शक्ति सिंह	31-08-78
145. जे सी 46256	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	शक्ति प्रकाश	30-09-78
146. जे सी 34270	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	यशपाल सिंह	30-11-78

बी गढ़वाल राइफल

147. जे सी 37758	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	भगत सिंह रावल	30-11-78
148. जे सी 49625	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	बान्नी प्रसाद भट्ट	30-11-78
149. जे सी 45851	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	उबे सिंह भन्डारी	30-11-78

बी कुमाऊँ रेजिमेंट

150. जे सी 41085	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	भानन्ध सिंह	31-08-78
151. जे सी 53896	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	त्रिलोक सिंह	30-09-78
152. जे सी 45845	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	उमराव सिंह	31-08-78

बी आसाम रेजिमेंट

153. जे सी 24156	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	कापबुंगा कुशाई	31-08-78
154. जे सी 49899	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	रासमय चक्रवर्ती	20-09-78

बी बिहार रेजिमेंट

155. जे सी 15248	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	महिनद्र सिंह	31-08-78
156. जे सी 37588	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	हारिका नाथ पान्हे	31-12-78
157. जे सी 35008	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	तीरथ नाथ सिंह	30-11-78

बी जम्मू व कश्मीर राइफल

158. जे सी 16987	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	जालिम सिंह	30-09-78
159. जे सी 55979	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	बलदेव राज	31-08-78
160. जे सी 62854	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	रुलदा सिंह	31-08-78

बी नागा रेजिमेंट

161. जे सी 33464	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	गन्धू प्रसाद पोखरियाल	30-09-78
------------------	------------------------------	-----------------------	----------

बी जम्मू व कश्मीर लाइट इन्फैंट्री

162. जे सी 132	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	गुलाम हुसैन खाँ	30-11-78
163. जे सी 233	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	मोहन लाल कौन	31-12-78

1 गोरखा राइफल

164. जे सी 33962	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	बिशन सिंह थापा	31-08-78
165. जे सी 36893	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	केस बीर राना	31-08-78
166. जे सी 58021	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	धर्म राज गुरंग, एस एम	31-10-78
167. जे सी 50337	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	मन बहादुर पुन	31-10-78

3 गोरखा राइफल

168. जे सी 36709	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	मनबहादुर बूरा	30-08-78
169. जे सी 51197	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	बालीसर थापा	30-10-78

4 गोरखा राइफल

170. जे सी 8687	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	भगवान सिंह गुरंग	31-08-78
171. जे सी 27373	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	गगन सिंह गुरंग	31-10-78
172. जे सी 28934	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	हुषार सिंह गुरंग	30-09-78
173. जे सी 45103	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	करन बहादुर गुरंग	30-11-78
174. जे सी 53467	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	प्रमोद सिंह डंगवाल	31-10-78
175. जे सी 56716	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	प्रेम सिंह थापा	31-10-78

5 गोरखा राइफल

176. जे सी 30989	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	बिबिन्द्र सिंह छेत्री	31-10-78
177. जे सी 44263	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	शमशेर गुरंग]]	30-09-78
178. जे सी 50365	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	करन सिंह गुरंग	31-10-78

179. जे सी 43311	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	खरका बहादुर थापा	31-10-78
180. जे सी 42379	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	बहवांग लामा	31-10-78
181. जे सी 50043	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	रामसूबा गुंग	31-10-78

8 गोरखा राष्ट्रकल्स

182. जे सी 28943	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	दलीप मित्र थापा	31-10-78
183. जे सी 50972	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	बलबीर सिंह थापा	30-11-78
184. जे सी 50989	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	बैब बहादुर गुंग	31-10-78
185. जे सी 52226	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	धन बहादुर गुंग	31-10-78
186. जे सी 44083	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	लुम बहादुर थापा	31-10-78
187. जे सी 52166	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	रतन सिंह घाले	31-10-78
188. जे सी 58090	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	सुरेन्द्र प्रताप सिंह छेत्री	31-12-78

9 गोरखा राष्ट्रकल्स

189. जे सी 21435	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	गोकर्ण बहादुर खत्री	31-08-78
190. जे सी 49976	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	भक्त बहादुर साही	30-09-78
191. जे सी 56908	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	इमर बहादुर थापा	31-10-78

11 गोरखा राष्ट्रकल्स

192. जे सी 35587	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	राज बहादुर सिन्धु	31-12-78
------------------	------------------------------	-------------------	----------

भारती सचिव कोर (सर्जन्ट)

193. जे सी 44134	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	सुधीर रंजन घोष	31-10-78
194. जे सी 21936	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	बैब प्रकाश शर्मा	30-11-78
195. जे सी 53506	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	बलदेव राज पराशर	31-10-78
196. जे सी 55245	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	बोरी बन्धु महल	31-10-78
197. जे सी 53265	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	भूपिन्द्र सिंह	30-09-78
198. जे सी 53266	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	हरभजन सिंह	31-10-78
199. जे सी 37509	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	ज्योति प्रकाश	31-12-78
200. जे सी 52266	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	जुमर सिंह झिल्लों	30-09-78
201. जे सी 52569	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	कोयामल कुन्ही कप्तन	31-12-78
202. जे सी 52567	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	निपेन्द्र कुमार कामूनगो	30-09-78
203. जे सी 52272	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	रामेश्वर प्रसाद यादव	31-10-78
204. जे सी 57361	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	रतन सिंह	31-10-78
205. जे सी 52268	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	सुखभिनवर सिंह	31-10-78

भारती सचिव कोर (एग्जिबल ट्रांसपोर्ट)

206. जे सी 51994	रिसालदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	राम प्रसाद	31-12-78
------------------	-------------------------------	------------	----------

भारती सचिव कोर (नॉन-एग्जिबल ट्रांसपोर्ट)

207. जे सी 41802	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	बलबीर सिंह	31-10-78
208. जे सी 45302	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	बसंत लाल	31-12-78
209. जे सी 44061	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	कमेर चन्व	30-09-78
210. जे सी 45747	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	केसर सिंह	31-12-78
211. जे सी 57046	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	मोहन सिंह	31-10-78
212. जे सी 43353	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	रहमान अमबर बाशा	30-09-78

भारती मेडिकल कोर

213. जे सी 55696	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	अमल रंजन गांगोली	31-10-78
214. जे सी 54937	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	अमीर सिंह	31-12-78
215. जे सी 45193	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	अनिदाबन महापात्रा	30-09-78
216. जे सी 52404	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	गुरुदयाल प्रसाद	31-08-78
217. जे सी 42886	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	कुरबिला कुरियन	30-11-78
218. जे सी 41567	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	एम. बी. कृष्णन कुट्टी नायर	30-09-78
219. जे सी 48452	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	माधव प्रसाद सिंह	31-08-78
220. जे सी 47461	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	मुख्त्यार सिंह	30-09-78
221. जे सी 45200	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	एम. सी. साईमन	30-11-78

222.	जे सी 46770	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	निमाई चरण नायक	31-10-78
223.	जे सी 42885	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	राम औतार सिंह	30-09-78
224.	जे सी 47467	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	राम सिंह	30-09-78
225.	जे सी 51606	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	रेशम सिंह	31-08-78
226.	जे सी 45187	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	मेवा सिंह	31-08-78
227.	जे सी 47028	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	श्रीनिवास प्रसाद सिंह	31-08-78
228.	जे सी 54411	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	उत्तम सिंह	31-10-78

भारती आर्म्ड फोर्स

229.	जे सी 33643	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	राम पाल सिंह	31-08-78
230.	जे सी 49314	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	बिहार सिंह	31-08-78
231.	जे सी 49315	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	करनैल सिंह	31-08-78
232.	जे सी 61469	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	जी एस सदाशिव मूर्ति	31-08-78
233.	जे सी 61467	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	टी एम जार्ज	31-08-78
234.	जे सी 61623	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	बी बी अगिस्त	30-09-78

फोर्स आफ इलेक्ट्रिकल एंड मेकेनिकल इंजीनियरिंग

235.	जे सी 24527	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	बई चन्दा	31-12-78
236.	जे सी 33875	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	गुरचरण सिंह	30-09-78
237.	जे सी 19011	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	हरभजन सिंह	31-10-78
238.	जे सी 12743	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	पृथ्वी राज	30-11-78
239.	जे सी 14773	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	राम लाल	31-10-78
240.	जे सी 15013	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	सदा राम	31-10-78
241.	जे सी 14771	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	तरलोक नाथ	30-11-78
242.	जे सी 45950	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	अचन्त कुमार राजू	30-11-78
243.	जे सी 44832	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	अजमेर सिंह	31-10-78
244.	जे सी 45922	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	अनन्त मोहन डे	31-08-78
245.	जे सी 43228	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	बी सी गोपाल	31-12-78
246.	जे सी 56573	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	बाल कृष्ण पान्डे	31-08-78
247.	जे सी 46450	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	धरम सिंह	31-10-78
248.	जे सी 44810	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	दुर्गा बाम	31-08-78
249.	जे सी 43206	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	ज्ञान सिंह	31-12-78
250.	जे सी 50692	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	गुरदीप सिंह	31-12-78
251.	जे सी 40057	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	हरि चरण सिंह	30-09-78
252.	जे सी 40835	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	जगदीश चन्वर	31-12-78
253.	जे सी 45934	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	काशी राम मान	31-10-78
254.	जे सी 46453	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	कासी प्रसाद तिवारी	31-12-78
255.	जे सी 43157	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	श्रीम प्रकाश यादव	31-10-78
256.	जे सी 43201	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	प्या रा सिंह	31-08-78
257.	जे सी 43205	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	रघुबीर सिंह	30-11-78
258.	जे सी 43129	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	रतन सिंह	31-12-78
259.	जे सी 43127	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	सिरी राम बबशी	30-11-78

भारती इन्फैन्ट्री फोर्स

260.	जे सी 21300	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	भगवत राम	30-11-78
261.	जे सी 18253	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	वया राम	31-08-78
262.	जे सी 21307	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	शिव नारायण यादव	31-12-78
263.	जे सी 46505	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	ए बी नायडू	30-09-78
264.	जे सी 26675	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	अजीत सिंह	30-09-78
265.	जे सी 58540	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	अजीत सिंह	31-12-78
266.	जे सी 24962	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	बाबूजी कुन्नु	30-09-78
267.	जे सी 52236	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	भास्कर थेंगडी	30-09-78
268.	जे सी 26681	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	ब्रिज लाल हुस्नु	30-09-78
269.	जे सी 58539	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	उन्हा धर नायक	30-11-78

270. जे सां 27980	सूबेदार व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	धनप्रियाम दास जुनेजा	30-09-78
271. जे सां 28541	सूबेदार व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	गुरचरण सिंह	31-12-78
272. जे सां 22151	सूबेदार व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	गुरुदेव सिंह	30-09-78
273. जे सां 21342	सूबेदार व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	हुनुमान सिंह	30-09-78
274. जे सां 24967	सूबेदार व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	हरबयास सिंह खोसला	30-09-78
275. जे सां 30639	सूबेदार व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	हीरा बल्लभ पांडे	31-08-78
276. जे सां 24952	सूबेदार व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	मोहन सिंह	30-09-78
277. जे सां 27976	सूबेदार व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	पृथ्वी नाथ	30-08-78
278. जे सां 26680	सूबेदार व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	पूरन सिंह	30-09-78
279. जे सां 51710	सूबेदार व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	राम प्रकाश मल्होत्रा	31-08-78
280. जे सां 27177	सूबेदार व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	रनजीत सिंह	30-09-78
281. जे सां 51959	सूबेदार व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	सदा राम	31-08-78
282. जे सां 26683	सूबेदार व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	टेक चन्ध मान	30-09-78
283. जे सां 24933	सूबेदार व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	ठाकुर भजन प्रसाद मिन्हा	30-09-78
284. जे सां 26672	सूबेदार व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	तिलक राज	30-09-78
285. जे सां 27978	सूबेदार व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	त्रिलोक नाथ भान	30-09-78
286. जे सां 51960	सूबेदार व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	उदय सिंह चौहान	31-08-78

रमाउन्ड वेटरीनरी कोर

287. ओर सां 7185	रिसालदार मेजर व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	गिछपाल सिंह	31-12-78
------------------	------------------------------------	-------------	----------

बी इन्टेलीजेन्स कोर

288. जे सां 18528	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	सिरि चन्ध	31-12-78
289. जे सां 18530	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	पूरम चन्द्र जोशी	31-08-78
290. जे सां 32467	सूबेदार व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	भगवान सिंह	31-08-78

बी पाइनियर कोर]

291. जे सां 23623	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	बछशी राम	31-08-78
292. जे सां 15360	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	हरी शंकर	30-11-78
293. जे सां 14108	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	मुरलीधर राव	30-11-78
294. जे सां 16066	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	निरंजन नाथ बट	30-11-78
295. जे सां 14418	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	सोम नाथ रैना	30-11-78

डिफेंस सिग्नल कोर

296. जे सां 19285	सूबेदार व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	ज्ञान सिंह	31-08-78
-------------------	------------------------------	------------	----------

अवैतनिक लेफ्टिनेंट के रैंक में**मद्रास इंजीनियर ग्रुप**

1. जे सां 20610	सूबेदार मेजर	विनुगोपाल	24-09-78
-----------------	--------------	-----------	----------

बंगाल इंजीनियर ग्रुप

2. जे सां 15379	सूबेदार मेजर	हबीर सिंह	31-10-78
3. जे सां 28250	सूबेदार मेजर	जगजीत सिंह मुजान	31-12-78
4. जे सां 33359	सूबेदार मेजर	जनाईन नायर	31-12-78
5. जे सां 28262	सूबेदार मेजर	मधू सुधनन	31-12-78
6. जे सां 30440	सूबेदार मेजर	रतन सिंह	31-12-78
7. जे सां 15191	सूबेदार मेजर	एस पद्मानाभा पिल्ले	30-11-78
8. जे सां 33520	सूबेदार मेजर	बी सिरिनिवासन	31-12-78

बी राजपूत रेजिमेंट

9. जे सां 21715	सूबेदार मेजर	रुक्रमपाल सिंह	31-10-78
-----------------	--------------	----------------	----------

माली ब्राडिन्स कोर

10. जे सां 22814	सूबेदार मेजर	बी सोमय्यम	31-10-78
------------------	--------------	------------	----------

कोर आफ इलेक्ट्रिकल एण्ड मैकेनिकल इंजीनियरस

11. जे सां 18859	सूबेदार मेजर	बिरैया	30-11-78
------------------	--------------	--------	----------

डिफेंस सिक्कुरिटी कोर

12. जे सी 4122	सूबेदार मेजर	बासाराय नायक	30-11-78
13. जे सी 10978	सूबेदार मेजर	जुग लाल राम	31-12-78
14. जे सी 9928	सूबेदार मेजर	के बासोवरन	30-09-78
15. जे सी 8018	सूबेदार मेजर	एम पदमानाभन नायर	31-08-78
16. 58498 जे सी	सूबेदार मेजर	राम सिंह	30-11-78
17. जे सी 4101	सूबेदार मेजर	वासु जैपटकर	30-09-78

प्रवैतनिक रिसालदार मेजर/सूबेदार मेजर के रैंक में**रेजिमेंट ग्राफ आर्टिलरी**

1. जे सी 55222	सूबेदार	गोकल चन्द यादव	30-11-78
2. जे सी 45393	सूबेदार	गुरमेल सिंह	31-08-78
3. जे सी 47173	सूबेदार	हरदेव सिंह	31-12-78

मद्रास इंजीनियर ग्रुप

4. जे सी 34041	सूबेदार	रतना प्रकाशम	31-12-78
----------------	---------	--------------	----------

बंगाल इंजीनियर ग्रुप

5. जे सी 38088	सूबेदार	जसवन्त सिंह	30-09-78
6. जे सी 38094	सूबेदार	जीत सिंह	31-08-78
7. जे सी 50469	सूबेदार	जेनारी	30-09-78
8. जे सी 33186	सूबेदार	नरिन्दर सिंह	31-10-78
9. जे सी 44543	सूबेदार	राम कृष्ण	31-10-78
10. जे सी 35676	सूबेदार	शेर सिंह	30-11-78

कोर ग्राफ सिग्नलस

11. जे सी 36819	सूबेदार	ए सी जान	31-12-78
12. जे सी 60655	सूबेदार	गुलाब चन्द मर्मि	31-10-78
13. जे सी 59859	सूबेदार	ग्राम प्रकाश	31-12-78

बी राजपूत रेजिमेंट

14. जे सी 34530	सूबेदार	बिमराम सिंह थर्मा	31-12-78
-----------------	---------	-------------------	----------

बी जाट रेजिमेंट

15. जे सी 61924	सूबेदार	रिसाल सिंह	30-09-78
-----------------	---------	------------	----------

बी जम्मू एवं काश्मीर राइफलस

16. जे सी 8967	सूबेदार	राम लाल शर्मा	31-12-78
----------------	---------	---------------	----------

बी भागा रेजिमेंट

17. जे सी 61853	सूबेदार	मुख देव राज	31-12-78
-----------------	---------	-------------	----------

1 गोरखा राइफलस

38. जे सी 38319	सूबेदार	मेर बहादुर गुरंग	31-10-78
-----------------	---------	------------------	----------

4 गोरखा राइफलस

19. जे सी 47633	सूबेदार	राम बहादुर गुरंग	30-11-78
-----------------	---------	------------------	----------

9 गोरखा राइफलस

20. जे सी 52972	सूबेदार	टेक बहादुर खत्री	31-10-78
-----------------	---------	------------------	----------

ग्रामी सॉबिस कोर (सप्लाय)

21. जे सी 52561	सूबेदार	अब्राहम अरपुधा राज	31-10-78
22. जे सी 53108	सूबेदार	जार्ज विलियमस्	20-11-78
23. जे सी 52562	सूबेदार	नारायण सिंह	31-10-78
24. जे सी 52264	सूबेदार	सिरि राम	30-09-78
25. जे सी 52269	सूबेदार	उदय नारायण पोंडे	31-10-78

ग्रामी सॉबिस कोर (मेकेनिकल ट्रान्सपोर्ट)

26. जे सी 57024	सूबेदार	चन्द्र धान	30-11-78
-----------------	---------	------------	----------

ग्रामी वैदिकल कोर

27. जे सी 45201	सूबेदार	ए जेकब	30-11-78
28. जे सी 48135	सूबेदार	भावमा शंकर त्रिपाठी	31-08-78
29. जे सी 45186	सूबेदार	प्रजीत सिंह रावत	31-08-78
30. जे सी 55732	सूबेदार	वाल्मीकि	31-10-78
31. जे सी 63271	सूबेदार	बिहारी लाल	31-08-78
32. जे सी 63249	सूबेदार	शिवान राम	31-08-78
33. जे सी 53790	सूबेदार	विलक्षण सिंह	31-10-78
34. जे सी 47041	सूबेदार	जमना प्रसाद तिवारी	30-08-78
35. जे सी 47499	सूबेदार	जोगिन्दर सिंह	30-11-78
36. जे सी 32872	सूबेदार	केशव प्रसाद सिंह	31-12-78
37. जे सी 45197	सूबेदार	मखन सिंह	31-10-78
38. जे सी 50241	सूबेदार	मथुरा प्रसाद जुगलान	30-09-78
39. जे सी 53082	सूबेदार	मुरलीधर सामंत	30-09-78
40. जे सी 54202	सूबेदार	पी एम बामंदिरन	31-10-78
41. जे सी 48745	सूबेदार	प्यारा सिंह	31-08-78
42. जे सी 32871	सूबेदार	प्रभा रंजन बाम	31-08-78
43. जे सी 57283	सूबेदार	राधे श्याम	31-10-78
44. जे सी 48142	सूबेदार	साधू सिंह	31-12-78
45. जे सी 54203	सूबेदार	मिरि राम	31-10-78
46. जे सी 38531	सूबेदार	शूर राम	31-08-78
47. जे सी 54413	सूबेदार	टी एम गोपीनाथन नायर	31-10-78
48. जे सी 54205	सूबेदार	बी नारायणन नायर	31-10-78

ग्रामी ग्राजिनेस कोर

49. जे सी 52520	सूबेदार	हेम राज	31-08-78
-----------------	---------	---------	----------

कोर आफ इलेक्ट्रिकल एण्ड मैकेनिकल इंजीनियरस

50. जे सी 57851	सूबेदार	ए के धनकापत	11-07-78
51. जे सी 39988	सूबेदार	दर्लाप सिंह	17-11-78
52. जे सी 39014	सूबेदार	दामोदरन तम्बियार	31-05-78
53. जे सी 58756	सूबेदार	गुरदयाल सिंह रन्धवा	11-08-78
54. जे सी 36309	सूबेदार	के राधाकृष्णन	31-12-78
55. जे सी 47279	सूबेदार	एम के कुशबिना	30-06-78
56. जे सी 56584	सूबेदार	एम बी बालन नायर	30-11-78
57. जे सी 45975	सूबेदार	तगिन्दर सिंह	30-06-78
58. जे सी 39627	सूबेदार	राम चन्द्र जाधव	30-06-78
59. जे सी 34445	सूबेदार	सतसार चन्द	30-09-78
60. जे सी 49770	सूबेदार	श्री कृष्ण ठाकुर	31-10-78
61. जे सी 38964	सूबेदार	विप्ल पात्र सिंह	30-09-78

ग्रामी इन्स्पेक्शनल कोर

62. जे सी 41734	सूबेदार	जान मेक्सवेल सोरेग	31-01-78
63. जे सी 36098	सूबेदार	रंजीत सिंह ग्रेवाल	31-10-78

कोर आफ मिलिटरी पुलिस

64. जे सी 50437	सूबेदार	प्रजीत सिंह	30-09-78
-----------------	---------	-------------	----------

बी टैरीटोरियल ग्रामी

65. टी जे 679	सूबेदार	अमर सिंह चावला	30-06-78
66. टी जे 746	सूबेदार	अवधूत वेशपांडे	31-01-78
67. टी जे 1340	सूबेदार	गिरधर सिंह	07-08-78
68. टी जे 1238	सूबेदार	मोहन सिंह	31-07-78
69. टी जे 858	सूबेदार	मोहम्मद अली शेख	28-02-78
70. टी जे 1143	सूबेदार	पयप्पा मुचन्नी	30-04-78
71. टी जे 742	सूबेदार	शाम राय मन्देय	28-02-78
72. टी जे 1256	सूबेदार	शेजावा राम	31-05-78

प्रवैतनिक रिटायरवार/सूबेदार के रैंक में

बंगाल इंजीनियर ग्रुप

1. जे सी 76428	नायब सूबेदार	नरसी सिंह	31-10-78
----------------	--------------	-----------	----------

बोम्बे इंजीनियर ग्रुप

2. जे टी 72635	नायब सूबेदार	बाबाजी सोरे	31-10-78
3. जे सी 70868	नायब सूबेदार	धर्म सिंह	31-08-78

बी पंजाब रेजिमेंट

4. जे सी 77054	नायब सूबेदार	बसन्तर शर्मा	31-08-78
----------------	--------------	--------------	----------

दो गढ़वाल राइफल्स

5. जे सी 62074	नायब सूबेदार	गोपाल सिंह नेगी	31-10-78
----------------	--------------	-----------------	----------

फार्मी सर्विस कोर (सप्लाइ)

6. जे सी 61376	नायब सूबेदार	भाले राम	31-03-78
7. जे सी 61366	नायब सूबेदार	उदय सिंह रावत	31-01-78
8. जे सी 59415	नायब सूबेदार	वेद प्रकाश	31-12-78

कोर ग्राफ इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरस

9. जे सी 74562	नायब सूबेदार	बिन्दु कृष्ण बोस	31-12-78
10. जे सी 58781	नायब सूबेदार	जगज्जन सिंह	14-11-78
11. जे सी 80322	नायब सूबेदार	गिरधर सिंह	30-11-78
12. जे सी 80324	नायब सूबेदार	मिहिरा नैयर	29-06-78
13. जे सी 80403	नायब सूबेदार	मदन मसीह	31-12-78

टैरीटोरियल फार्मी

14. टी जे 1343	नायब सूबेदार	गंगा राम सिंह	31-01-78
15. टी जे 1402	नायब सूबेदार	मणीश कुमार चौधरी	31-08-78

[काइए सं० ए/40113/आर डी 79/ए.जी/पं.स.स(प)]

No. 2-E dated 25th January 1979.—The President is pleased to grant honorary ranks to the under-mentioned JCOs on retirement under para 180 of Regulations for the Army, 1962, with effect from their respective dates of retirement :—

TO BE HONORARY CAPTAINS

Date of Retirement

1. HORSE

1. JC 26485	RIS MAJ & HONY LT	NARAIN SINGH	30-11-78
-------------	-------------------	--------------	----------

2. LANCERS

2. JC 41485	RIS & HONY LT	ARJUN SINGH	31-10-78
-------------	---------------	-------------	----------

3. CAVALRY

3. JC 28213	RIS MAJ & HONY LT	SIS RAM	31-12-78
4. JC 41765	RIS & HONY LT	SANTOKH SINGH	30-11-78

63 CAVALRY

5. JC 60487	RIS & HONY LT	AJIT SINGH	30-11-78
-------------	---------------	------------	----------

84 ARMoured REGIMENT

6. JC 46334	RIS & HONY LT	MAHENDRA SINGH	31-12-78
-------------	---------------	----------------	----------

ARMoured CORPS

7. JC 50049	RIS & HONY LT	PRITAM SINGH	31-12-78
8. JC 50489	RIS & HONY LT	SHAKTI CHAND PARMAR	31-10-78

REGIMENT OF ARTILLERY

9. JC 25682	SUB MAJ & HONY LT	AMAR SINGH	31-08-78
10. JC 34033	SUB MAJ & HONY LT	BAHADUR SINGH	31-08-78
11. JC 25834	SUB MAJ & HONY LT	BAIJ NATH RAI	30-09-78
12. JC 45489	SUB MAJ & HONY LT	BALKRISHNA RAO	30-11-78
13. JC 17317	SUB MAJ & HONY LT	CHANDGI RAM	31-12-78
14. JC 40176	SUB MAJ & HONY LT	DEVI DAN	30-09-78
15. JC-11216	SUB MAJ & HONY LT	G RAMABADRA RAJU	30-11-78
16. JC 32777	SUB MAJ & HONY LT	INDER SINGH	31-10-78
17. JC 40981	SUB MAJ & HONY LT	JAGDISH PRASAD SHARMA	30-09-78
18. JC 24366	SUB MAJ & HONY LT	JAGRAJ SINGH	30-09-78
19. JC 14377	SUB MAJ & HONY LT	JAI GOPAL SINGH	31-12-78
20. JC 17360	SUB MAJ & HONY LT	K DAMODARAN NAMBIAR	30-09-78
21. JC 17349	SUB MAJ & HONY LT	KIRSHNA SWAMY	31-12-78
22. JC 15412	SUB MAJ & HONY LT	MADHAVAN	31-08-78
23. JC 14376	SUB MAJ & HONY LT	MAN SINGH	31-12-78
24. JC 12552	SUB MAJ & HONY LT	MANI RAM	31-08-78
25. JC 29032	SUB MAJ & HONY LT	NARANA RAM	30-11-78
26. JC 16859	SUB MAJ & HONY LT	NASIB SINGH	30-09-78
27. JC 33283	SUB MAJ & HONY LT	PUNAM CHAND	31-12-78
28. JC 24216	SUB MAJ & HONY LT	PUNJAB SINGH	31-10-78
29. JC 47152	SUB MAJ & HONY LT	RAM CHANDER	30-11-78
30. JC 17361	SUB MAJ & HONY LT	SADA SHIV	31-08-78
31. JC 14386	SUB MAJ & HONY LT	SAMDAR SINGH	31-10-78
32. JC 14379	SUB MAJ & HONY LT	SHANKAR GHATGE	30-09-78
33. JC 29035	SUB MAJ & HONY LT	TAKE SINGH	31-10-78
34. JC 16837	SUB MAJ & HONY LT	VP KRISHNA MURTHY	31-10-78
35. JC 49865	SUB & HONY LT	BAKHTAWAR SINGH	31-12-78
36. JC 34026	SUB & HONY LT	BALBIR SINGH	31-10-78
37. JC 50796	SUB & HONY LT	DALIP SINGH	31-12-78
38. JC 47217	SUB & HONY LT	DAVINDAR PAL SINGH	31-08-78
39. JC 45548	SUB & HONY LT	DIDAR SINGH	30-09-78
40. JC 32288	SUB & HONY LT	DURVIJAI SINGH	30-09-78
41. JC 47928	SUB & HONY LT	GOVINDAN NAMBIAR	30-11-78
42. JC 47164	SUB & HONY LT	GURDIAL SINGH	31-12-78
43. JC 45402	SUB & HONY LT	JAGAN NATH	31-08-78
44. JC 47221	SUB & HONY LT	KRISHNA SWAMY	30-11-78
45. JC 24253	SUB & HONY LT	NISHI KANTA DUTTA	31-08-78
46. JC 45464	SUB & HONY LT	PIRBHU DAYAL	30-09-78
47. JC 47196	SUB & HONY LT	PREM SINGH	31-10-78
48. JC 25873	SUB & HONY LT	R KOTHANDARAMAN	31-08-78
49. JC 47896	SUB & HONY LT	RAMESH SINGH	31-08-78
50. JC 45487	SUB & HONY LT	RAM RAO JAGDALE	30-09-78
51. JC 45454	SUB & HONY LT	SULTAN SINGH	31-12-78
52. JC 47926	SUB & HONY LT	SWARAN SINGH	31-12-78

MADRAS ENGINEER GROUP

53. JC 18593	SUB MAJ & HONY LT	M CHELLAPPAN PILLAY	31-08-78
54. JC 33656	SUB & HONY LT	A PANDY	31-08-78
55. JC 38119	SUB & HONY LT	AK KRISHNAN NAIR	30-09-78
56. JC 44618	SUB & HONY LT	K MARKABANDU	30-09-78
57. JC 34878	SUB & HONY LT	KA CHANDRASEKHARAN	30-09-78
58. JC 41295	SUB & HONY LT	KK ABRAHAM	31-08-78
59. JC 34877	SUB & HONY LT	KOTTATTIL DAMODARAN NAIR	31-08-78
60. JC 34349	SUB & HONY LT	M BALAKRISHNAN	30-11-78
61. JC 43870	SUB & HONY LT	MI PAUL	30-09-78
62. JC 41302	SUB & HONY LT	P ARUMUGAM	30-09-78
63. JC 49056	SUB & HONY LT	P RAGHAVAN NAMBIAR	31-08-78
64. JC 41298	SUB & HONY LT	S KUMARAVELU	30-09-78
65. JC 28975	SUB & HONY LT	TS MANICKAVACHAGAM	31-08-78

BENGAL ENGINEER GROUP

66. JC 26802	SUB MAJ & HONY LT	GURNAM SINGH	31-12-78
67. JC 28740	SUB MAJ & HONY LT	KP RAJAGOPALAN NAMBIAR	31-12-78
68. JC 33519	SUB MAJ & HONY LT	PC VARKEY	31-12-78
69. JC 33360	SUB MAJ & HONY LT	PK PRABHAKARAN	31-12-78

70. JC 16623	SUB MAJ & HONY LT	PV DAMODARAN	31-12-78
71. JC 16624	SUB MAJ & HONY LT	TS MATHAI	31-12-78
72. JC 39563	SUB & HONY LT	BISHAN SINGH	30-09-78
73. JC 44532	SUB & HONY LT	GURCHARAN SINGH	31-08-78
74. JC 46562	SUB & HONY LT	HANS RAJ	30-11-78
75. JC 43624	SUB & HONY LT	HARI DATT	31-10-78
76. JC 46237	SUB & HONY LT	HAZURI SINGH	31-10-78
77. JC 43613	SUB & HONY LT	NIRMAL SINGH	31-08-78
78. JC 48134	SUB & HONY LT	RAM KRISHAN	31-10-78

BOMBAY ENGINEER GROUP

79. JC 17514	SUB MAJ & HONY LT	BHASKAR BOMBATKAR	30-09-78
80. JC 24593	SUB MAJ & HONY LT	DINKAR GHADGE	31-10-78
81. JC 43828	SUB & HONY LT	KARAM CHAND	31-08-78
82. JC 43855	SUB & HONY LT	MUNESHWAR UPADHYA	31-10-78

CORPS OF SIGNALS

83. JC 23245	SUB MAJ & HONY LT	AK BHASKARAN	30-11-78
84. JC 29374	SUB MAJ & HONY LT	AMARJIT SINGH	30-11-78
85. JC 28028	SUB MAJ & HONY LT	ANGAT DATT	31-10-78
86. JC 29371	SUB MAJ & HONY LT	DIDAR SINGH	31-12-78
87. JC 31280	SUB MAJ & HONY LT	JIT SINGH	31-10-78
88. JC 16670	SUB MAJ & HONY LT	JOGINDAR SINGH	31-08-78
89. JC 29372	SUB MAJ & HONY LT	K BHASKARAN NAIR	31-12-78
90. JC 29406	SUB MAJ & HONY LT	K GOPALAKRISHNA PILLAI	31-12-78
91. JC 26002	SUB MAJ & HONY LT	KASHMIR SINGH	31-08-78
92. JC 20066	SUB MAJ & HONY LT	PM RAJA GOPAL	31-10-78
93. JC 22368	SUB MAJ & HONY LT	RANJIT SINGH	30-11-78
94. JC 18146	SUB MAJ & HONY LT	SADHU SINGH	31-10-78
95. JC 30272	SUB MAJ & HONY LT	SUNAIT CHAND	31-10-78
96. JC 55162	SUB & HONY LT	AJIT SINGH	31-10-78
97. JC 52802	SUB & HONY LT	K KUNJU KUNJU	31-10-78
98. JC 50551	SUB & HONY LT	KRISHAN GOPAL	31-10-78
99. JC 37227	SUB & HONY LT	NARAIN SINGH	31-08-78
100. JC 37237	SUB & HONY LT	RANENDRA MOHON DAS	31-10-78

BRIGADE OF THE GUARDS

101. JC 1618	SUB MAJ & HONY LT	BAKSHI RAM	30-09-78
102. JC 16139	SUB MAJ & HONY LT	M SAMUEL	30-11-78
103. JC 18222	SUB MAJ & HONY LT	RAM KISAN	31-10-78
104. JC 58117	SUB & HONY LT	KAPIL DEV SHARMA	31-12-78
105. JC 48726	SUB & HONY LT	KARTAR SINGH	30-09-78
106. JC 56395	SUB & HONY LT	KIRTI BAHADUR GURUNG	31-10-78
107. JC 43061	SUB & HONY LT	SURAJ BHAN MALHAN	31-10-78

THE PARACHUTE REGIMENT

108. JC 32624	SUB & HONY LT	DHYAN SINGH NEGI	30-09-78
---------------	---------------	------------------	----------

THE PUNJAB REGIMENT

109. JC 17199	SUB MAJ & HONY LT	KHEM RAJ, VSM	31-12-78
110. JC 44734	SUB & HONY LT	BHAG SINGH, SM	31-10-78

THE MADRAS REGIMENT

111. JC 27033	SUB MAJ & HONY LT	CR RAMAKRISHNAN	31-08-78
112. JC 18331	SUB MAJ & HONY LT	P BHASKARAN NAIR	31-08-78
113. JC 24823	SUB MAJ & HONY LT	TA BALASUNDARAM	31-08-78
114. JC 55975	SUB & HONY LT	C THANGAVELU	30-11-78
115. JC 35538	SUB & HONY LT	G STANLEY	30-11-78
116. JC 46118	SUB & HONY LT	M MATHEW	31-10-78
117. JC 50130	SUB & HONY LT	M SHUNMUGAM	30-11-78
118. JC 44679	SUB & HONY LT	T NARAYANAN NAIR	30-11-78

THE GRENADIERS

119. JC 35221	SUB & HONY LT	BEHARI LAL	31-08-78
120. JC 62134	SUB & HONY LT	JAIRAM SINGH	30-11-78
121. JC 41928	SUB & HONY LT	RAN SINGH	30-09-78
122. JC 62417	SUB & HONY LT	SHISHPAL SINGH	30-11-78

THE MARATHA LIGHT INFANTRY

123. JC 24319	SUB MAJ & HONY LT	MANSHA SINGH	31-12-78
124. JC 26581	SUB & HONY LT	BABARAYA GHADGE	31-12-78

THE RAJPUTANA RIFLES

125. JC 32145	SUB MAJ & HONY LT	BHAGWAN SINGH	31-08-78
126. JC 44216	SUB & HONY LT	GIRJA SINGH	31-08-78
127. JC 43704	SUB & HONY LT	RAJPAL SINGH	31-08-78
128. JC 53287	SUB & HONY LT	RAM DHAN RAM, SM	30-09-78

THE RAJPUT REGIMENT

129. JC 37702	SUB MAJ & HONY LT	BHOPAL SINGH	31-08-78
130. JC 16345	SUB MAJ & HONY LT	UDAI PRATAP SINGH	30-11-78
131. JC 42337	SUB & HONY LT	SUKHBIR SINGH	30-09-78

THE JAT REGIMENT

132. JC 18014	SUB MAJ & HONY LT	PIARE LAL	31-12-78
---------------	-------------------	-----------	----------

THE SIKH REGIMENT

133. JC 14435	SUB MAJ & HONY LT	AJIT SINGH	31-08-78
134. JC 20381	SUB MAJ & HONY LT	PARSHOTAM SINGH	31-12-78
135. JC 40702	SUB & HONY LT	AJAIB SINGH	31-10-78
136. JC 39356	SUB & HONY LT	DARSHAN SINGH	31-08-78
137. JC 40701	SUB & HONY LT	JIT SINGH	30-09-78
138. JC 58227	SUB & HONY LT	JIT SINGH	31-12-78
139. JC 35312	SUB & HONY LT	KARANAIL SINGH	31-12-78
140. JC 59000	SUB & HONY LT	KEWAL SINGH	31-10-78
141. JC 40936	SUB & HONY LT	SATWANT SINGH	31-10-78

THE DOGRA REGIMENT

142. JC 41614	SUB & HONY LT	KANSHI RAM	31-08-78
143. JC 52505	SUB & HONY LT	KARTAR SINGH	31-12-78
144. JC 48386	SUB & HONY LT	SHAKTI SINGH	31-08-78
145. JC 46256	SUB & HONY LT	SHANTI PARKASH	30-09-78
146. JC 34270	SUB & HONY LT	YASHPAL SINGH	30-11-78

THE GARHWAL RIFLES

147. JC 37758	SUB & HONY LT	BHAGAT SINGH RAWAT	30-11-78
148. JC 49625	SUB & HONY LT	CHANDI PRASAD BHATT	30-11-78
149. JC 45851	SUB & HONY LT	UDE SINGH BHANDARI	30-11-78

THE KUMAON REGIMENT

150. JC 41085	SUB & HONY LT	ANAND SINGH	31-08-78
151. JC 53896	SUB & HONY LT	TRILOK SINGH	30-09-78
152. JC 45845	SUB & HONY LT	UMRAO SINGH	31-08-78
153. JC 24156	SUB MAJ & HONY LT	KAPCHHUNGA LUSHAI	31-08-78
154. JC 49899	SUB MAJ & HONY LT	RASOMOY CHAKRABARTI	20-09-78

THE BIHAR REGIMENT

155. JC 15248	SUB MAJ & HONY LT	MAHENDRA SINGH	31-08-79
156. JC 37588	SUB & HONY LT	DWARIKA NATH PANDEY	31-12-78
157. JC 35008	SUB & HONY LT	TIRATH NATH SINGH	30-11-78

THE JAMMU AND KASHMIR RIFLES

158. JC 16987	SUB MAJ & HONY LT	ZALAM SINGH	30-09-78
159. JC 55979	SUB & HONY LT	BALDEV RAJ	31-08-78
160. JC 62854	SUB & HONY LT	RULDA SINGH	31-08-78

THE NAGA REGIMENT

161. JC 33464	SUB & HONY LT	SHAMBHU PRASAD POKHRIYAL	30-09-78
---------------	---------------	--------------------------	----------

THE JAMMU AND KASHMIR LIGHT INFANTRY

162. JC 132	SUB & HONY LT	GHULAM HASSAN KHAN	30-11-78
163. JC 233	SUB & HONY LT	MOHAN LAL KAUL	31-12-78

1 GORKHA RIFLES

164. JC 33962	SUB MAJ & HONY LT	BISHAN SINGH THAPA	31-08-78
165. JC 36893	SUB MAJ & HONY LT	KES BIR RANA	31-08-78
166. JC 58021	SUB & HONY LT	DHARAM RAJ GURUNG, SM	31-10-78
167. JC 50337	SUB & HONY LT	MAN BAHADUR PUN	31-10-78

3 GORAKHA RIFLES

168. JC 36709	SUB MAJ & HONY LT	MAN BAHADUR BURA	30-09-78
169. JC 51197	SUB & HONY LT	BALISAR THAPA	31-10-78

4 GORKHA RIFLES

170. JC 8687	SUB MAJ & HONY LT	BHAGWAN SINGH GURUNG	31-08-78
171. JC 27373	SUB MAJ & HONY LT	GAGAN SINGH GURUNG	31-10-78
172. JC 28934	SUB MAJ & HONY LT	HUSHIAR SINGH GURUNG	30-09-78
173. JC 45103	SUB MAJ & HONY LT	KARNA BAHADUR GURUNG	30-11-78
174. JC 53467	SUB & HONY LT	PARMODI SINGH DANGWAL	31-10-78
175. JC 56716	SUB & HONY LT	PREM SINGH THAPA	31-10-78

5 GORKHA RIFLES

176. JC 30989	SUB MAJ & HONY LT	DABINDER SINGH CHHETRI	31-10-78
177. JC 44263	SUB MAJ & HONY LT	SHAMSHER GURUNG	30-09-78
178. JC 50365	SUB & HONY LT	KARNA SINGH GURUNG	31-10-78
179. JC 43311	SUB & HONY LT	KHARKA BAHADUR THAPA	31-10-78
180. JC 42379	SUB & HONY LT	LHAWANG LAMA	31-10-78
181. JC 50043	SUB & HONY LT	RAMSUBA GURUNG	31-10-78

8 GORKHA RIFLES

182. JC 28943	SUB MAJ & HONY LT	DALIP SINGH THAPA	31-10-78
183. JC 50972	SUB & HONY LT	BALBIR SING THAPA	30-11-78
184. JC 50989	SUB & HONY LT	DEO BAHADUR GURUNG	31-10-78
185. JC 52226	SUB & HONY LT	DHAN BAHADUR GURUNG	31-10-78
186. JC 44083	SUB & HONY LT	LUM BAHADUR THAPA	31-10-78
187. JC 52166	SUB & HONY LT	RATAN SINGH GHALE	31-10-78
188. JC 58090	SUB & HONY LT	SURENDRA PRATAP SINGH CHHETRI	31-12-78

9 GORKHA RIFLES

189. JC 21435	SUB MAJ & HONY LT	GOKARNA BAHADUR KHATRI	31-08-78
190. JC 49976	SUB & HONY LT	BHAKTA BAHADUR SAHI	30-09-78
191. JC 56908	SUB & HONY LT	DAMAR BAHADUR THAPA	31-10-78

11 GORKHA RIFLES

192. JC 35587	SUB & HONY LT	RAJ BAHADUR LIMBU	31-12-78
---------------	---------------	-------------------	----------

ARMY SERVICE CORPS (SUPPLY)

193. JC 44134	SUB MAJ & HONY LT	SUDHIR RANJAN GHOSH	31-10-78
194. JC 21936	SUB MAJ & HONY LT	VED PARKASH SHARMA	30-11-78
195. JC 53506	SUB & HONY LT	BALDEV RAJ PRASHER	31-10-78
196. JC 55245	SUB & HONY LT	BAURI BANDHU MAHUNT	31-10-78
197. JC 53265	SUB & HONY LT	BHUPINDER SINGH	30-09-78
198. JC 53266	SUB & HONY LT	HARBHAJAN SINGH	31-10-78
199. JC 37509	SUB & HONY LT	JOTTI PARKASH	31-12-78
200. JC 52266	SUB & HONY LT	JUJHAR SINGH DHILLON	30-09-78
201. JC 52569	SUB & HONY LT	KOVAMMAL KUNIH KANNAN	31-12-78
202. JC 52267	SUB & HONY LT	NRIPENDRA KUMAR KANUNGO	30-09-78
203. JC 52272	SUB & HONY LT	RAMESHWAR PRASAD YADAV	31-10-78
204. JC 57361	SUB & HONY LT	RATTAN SINGH	31-10-78
205. JC 52268	SUB & HONY LT	SUKHMINDER SINGH	31-10-78

ARMY SERVICE CORPS (ANIMAL TRANSPORT)

206. JC 51994	RIS & HONY LT	RAM PARSHAD	31-12-78
---------------	---------------	-------------	----------

ARMY SERVICE CORPS (MECHANICAL TRANSPORT)

207. JC 41802	SUB & HONY LT	BALBIR SINGH	31-10-78
208. JC 45302	SUB & HONY LT	BASANT LAL	31-12-78
209. JC 44061	SUB & HONY LT	KAMER CHAND	30-09-78

210. JC 45747	SUB & HONY LT	KESAR SINGH	31-12-78
211. JC 57046	SUB & HONY LT	MOHAN SINGH	31-10-78
212. JC 43353	SUB & HONY LT	REHMAN ANWAR BASHA	30-09-78

ARMY MEDICAL CORPS

213. JC 55696	SUB & HONY LT	AMAL RANJAN GANGULI	31-10-78
214. JC 54937	SUB & HONY LT	AMIR SINGH	31-12-78
215. JC 45193	SUB & HONY LT	BRINDABAN MAHAPATRA	30-09-78
216. JC 52404	SUB & HONY LT	GURUDAYAL PRASAD	31-08-78
217. JC 42886	SUB & HONY LT	KURUVILLA KURIAN	30-11-78
218. JC 41567	SUB & HONY LT	MV KRISHNAN KUTTY NAYAR	30-09-78
219. JC 48452	SUB & HONY LT	MADHAW PRASAD SINGH	31-08-78
220. JC 47461	SUB & HONY LT	MUKHTIAR SINGH	30-09-78
221. JC 45200	SUB & HONY LT	NC SIMON	30-11-78
222. JC 46770	SUB & HONY LT	NIMAI CHARAN NAIK	31-10-78
223. JC 42885	SUB & HONY LT	RAM AUTAR SINGH	30-09-78
224. JC 47467	SUB & HONY LT	RAM SINGH	30-09-78
225. JC 51606	SUB & HONY LT	RESHAM SINGH	31-08-78
226. JC 45187	SUB & HONY LT	SEVA SINGH	31-08-78
227. JC 47028	SUB & HONY LT	SRINIWAS PRASAD SINGH	31-08-78
228. JC 54411	SUB & HONY LT	UTTAM SINGH	31-10-78

ARMY ORDNANCE CORPS

229. JC 33643	SUB MAJ & HONY LT	RAMPAL SINGH	31-08-78
230. JC 49314	SUB & HONY LT	DIDAR SINGH	31-08-78
231. JC 49315	SUB & HONY LT	KARNAIL SINGH	31-08-78
232. JC 61469	SUB & HONY LT	GS SADASIVA MURTHY	31-08-78
233. JC 61467	SUB & HONY LT	TM GEORGE	31-08-78
234. JC 61623	SUB & HONY LT	VV VARGHESE	30-09-78

CORPS OF ELECTRICAL AND MECHANICAL ENGINEERS

235. JC 24527	SUB MAJ & HONY LT	DAI CHAND	31-12-78
236. JC 33875	SUB MAJ & HONY LT	GURCHARAN SINGH	30-09-78
237. JC 19011	SUB MAJ & HONY LT	HARBHAJAN SINGH	31-10-78
238. JC 12743	SUB MAJ & HONY LT	PRITHVI RAJ	30-11-78
239. JC 14773	SUB MAJ & HONY LT	RAM LAL	31-10-78
240. JC 15013	SUB MAJ & HONY LT	SADA RAM	31-10-78
241. JC 14771	SUB MAJ & HONY LT	TARLOK NATH	30-11-78
242. JC 45950	SUB & HONY LT	ACHANTA KUMARA RAJU	30-11-78
243. JC 44832	SUB & HONY LT	AJMER SINGH	31-10-78
244. JC 45922	SUB & HONY LT	ANANTA MOHAN DEY	31-08-78
245. JC 43228	SUB & HONY LT	BC GOPAL	31-12-78
246. JC 56573	SUB & HONY LT	BALKRISHNAN PANDEY	31-08-78
247. JC 46450	SUB & HONY LT	DHARAM SINGH	31-10-78
248. JC 44810	SUB & HONY LT	DURGA DAS	31-08-78
249. JC 43206	SUB & HONY LT	GIAN SINGH	31-12-78
250. JC 50692	SUB & HONY LT	GURDIP SINGH	31-12-78
251. JC 40057	SUB & HONY LT	HARI CHARAN SINGH	30-09-78
252. JC 40835	SUB & HONY LT	JAGDISH CHANDER	31-12-78
253. JC 45934	SUB & HONY LT	KANSHI RAM MANN	31-10-78
254. JC 46453	SUB & HONY LT	KASI PRASAD TIWARI	31-12-78
255. JC 43157	SUB & HONY LT	OM PRAKASH YADAVA	31-10-78
256. JC 43201	SUB & HONY LT	PIARA SINGH	31-08-78
257. JC 43205	SUB & HONY LT	RAGHUBIR SINGH	30-11-78
258. JC 43129	SUB & HONY LT	RATTAN SINGH	31-12-78
259. JC 43127	SUB & HONY LT	SIRI RAM BAKSHI	30-11-78

ARMY EDUCATIONAL CORPS

260. JC 21300	SUB MAJ & HONY LT	BHAGAT RAM	30-11-78
261. JC 18253	SUB MAJ & HONY LT	DAYA RAM	31-08-78
262. JC 21307	SUB MAJ & HONY LT	SHIV NARAIN YADAV	31-12-78
263. JC 46505	SUB & HONY LT	AV NAIDU	30-09-78
264. JC 26675	SUB & HONY LT	AJIT SINGH	30-09-78
265. JC 58540	SUB & HONY LT	AJIT SINGH	31-12-78
266. JC 24962	SUB & HONY LT	BABOOJI KUNDU	30-09-78
267. JC 52236	SUB & HONY LT	BHASKAR THENGDI	30-09-78
268. JC 26681	SUB & HONY LT	BRIJ LAL HASTU	30-09-78
269. JC 58539	SUB & HONY LT	DANDA DHAR NAYAK	30-11-78

270. JC 27980	SUB & HONY LT	GHANSHYAM DASS JUNEJA	30-09-78
271. JC 28541	SUB & HONY LT	GURCHARAN SINGH	31-12-78
272. JC 22151	SUB & HONY LT	GURDEV SINGH	30-09-78
273. JC 21342	SUB & HONY LT	HANUMAN SINGH	30-09-78
274. JC 24967	SUB & HONY LT	HARDIAL SINGH KHOSLA	30-09-78
275. JC 30639	SUB & HONY LT	HEERA BALLABH PANDEY	31-08-78
276. JC 24952	SUB & HONY LT	MOHAN SINGH	30-09-78
277. JC 27976	SUB & HONY LT	PRITHVI NATH	30-09-78
278. JC 26680	SUB & HONY LT	PURAN SINGH	30-09-78
279. JC 51710	SUB & HONY LT	RAM PARKASH MALOTRA	31-08-78
280. JC 27177	SUB & HONY LT	RANJIT SINGH	30-09-78
281. JC 51959	SUB & HONY LT	SADA RAM	31-08-78
282. JC 26683	SUB & HONY LT	TEK CHAND MANN	30-09-78
283. JC 24953	SUB & HONY LT	THAKUR ARJUN PRASAD SINHA	30-09-78
284. JC 26672	SUB & HONY LT	TILAK RAJ	30-09-78
285. JC 27978	SUB & HONY LT	TRILOKI NATH BHAN	30-09-78
286. JC 51960	SUB & HONY LT	UDAI SINGH CHAUHAN	31-08-78

RECOUNT VETERINARY CORPS

287. RV 7135	RIS MAJ & HONY LT	RICHHPAL SINGH	31-12-78
--------------	-------------------	----------------	----------

THE INTELLIGENCE CORPS

288. JC 18528	SUB MAJ & HONY LT	SIRI CHAND	31-12-78
289. JC 18530	SUB MAJ & HONY LT	PURAN CHANDRA JOSHI	31-08-78
290. JC 32467	SUB & HONY LT	BHAGWAN SINGH	31-08-78

THE PIONEER CORPS

291. JC 23623	SUB MAJ & HONY LT	BAKSHI RAM	31-08-78
292. JC 15360	SUB MAJ & HONY LT	HARI SHANKER	30-11-78
293. JC 14108	SUB MAJ & HONY LT	MURLIDHAR RAO	30-11-78
294. JC 16066	SUB MAJ & HONY LT	NIRANJAN NATH BUTT	30-11-78
295. JC 14418	SUB MAJ & HONY LT	SOOM NATH RAINA	30-11-78

DEFENCE SECURITY CORPS

296. JC 19285	SUB & HONY LT	GIAN SINGH	31-08-78
---------------	---------------	------------	----------

TO BE HONORARY LIEUTENANTS

MADRAS ENGINEER GROUP

1. JC 20610	SUB MAJ	VENUGOPAL	24-09-78
-------------	---------	-----------	----------

BENGAL ENGINEER GROUP

2. JC 15379	SUB MAJ	HABIR SINGH	31-10-78
3. JC 28250	SUB MAJ	JAGJIT SINGH SUJJAN	31-12-78
4. JC 33359	SUB MAJ	JANARDHANAN NAIR	31-12-78
5. JC 28262	SUB MAJ	MADHU SOOTHANAN	31-12-78
6. JC 30440	SUB MAJ	RATTAN SINGH	31-12-78
7. JC 15191	SUB MAJ	S PADMANABHA PILLAI	30-11-78
8. JC 33520	SUB MAJ	V SRINIVASAN	31-12-78

THE RAJPUT REGIMENT

9. JC 21715	SUB MAJ	RUKAMPAL SINGH	31-10-78
-------------	---------	----------------	----------

ARMY ORDNANCE CORPS

10. JC 22814	SUB MAJ	V SOLAIYAPPAN	31-10-78
--------------	---------	---------------	----------

CORPS OF ELECTRICAL AND MECHANICAL ENGINEERS

11. JC 18859	SUB MAJ	VEERAYA	30-11-78
--------------	---------	---------	----------

DEFENCE SECURITY CORPS

12. JC 4122	SUB MAJ	DATTARAM NAIK	30-11-78
13. JC 10978	SUB MAJ	JUGLAL RAM	31-12-78
14. JC 9928	SUB MAJ	K DAMODARAN	30-09-78
15. JC 8018	SUB MAJ	M PADMANABHAN NAIR	31-08-78
16. 58496 JC	SUB MAJ	RAM SINGH	30-11-78
17. JC 4101	SUB MAJ	WASU JAIPATKAR	30-09-78

TO BE HONORARY RISALDAR/SUBEDAR MAJORS

REGIMENT OF ARTILLERY

1. JC 55222	SUB	GOKAL CHAND YADAV	30-11-78
2. JC 45393	SUB	GURMAIL SINGH	31-08-78
3. JC 47173	SUB	HARDEV SINGH	31-12-78

MADRAS ENGINEER GROUP

4. JC 34041	SUB	GNANA PRAKASAM	31-12-78
-------------	-----	----------------	----------

BENGAL ENGINEER GROUP

5. JC 38088	SUB	JASWANT SINGH	30-09-78
6. JC 38094	SUB	JEET SINGH	31-08-78
7. JC 50469	SUB	JENARI	30-09-78
8. JC 33186	SUB	NARINDAR SINGH	31-10-78
9. JC 44543	SUB	RAM KRISHAN	31-10-78
10. JC 35676	SUB	SHER SINGH	30-11-78

CORPS OF SIGNALS

11. JC 36819	SUB	AC JOHN	31-12-78
12. JC 60655	SUB	GULAB CHAND MANJHI	31-10-78
13. JC 59859	SUB	OM PARKASH	31-12-78

THE RAJPUT REGIMENT

14. JC 34530	SUB	BISRAM SINGH VERMA	31-12-78
--------------	-----	--------------------	----------

THE JAT REGIMENT

15. JC 61924	SUB	RISAL SINGH	30-09-78
--------------	-----	-------------	----------

THE JAMMU AND KASHMIR RIFLES

16. JC 8967	SUB	RAM LAL SHARMA	31-12-78
-------------	-----	----------------	----------

THE NAGA REGIMENT

17. JC 61853	SUB	SUKH DEV RAJ	31-12-78
--------------	-----	--------------	----------

1 GORKHA RIFLES

18. JC 38319	SUB	MER BAHADUR GURUNG	31-10-78
--------------	-----	--------------------	----------

4 GORKHA RIFLES

19. JC 47633	SUB	RAM BAHADUR GURUNG	30-11-78
--------------	-----	--------------------	----------

9 GORKHA RIFLES

20. JC 52972	SUB	TEK BAHADUR KHATTRI	31-10-78
--------------	-----	---------------------	----------

ARMY SERVICE CROPS (SUPPLY)

21. JC 52561	SUB	ABRAHAM ARPUTHA RAJ	31-10-78
22. JC 53108	SUB	GEORGE WILLIAMS	20-11-78
23. JC 52562	SUB	NARAIN SINGH	31-10-78
24. JC 52264	SUB	SIRI RAM	30-09-78
25. JC 52269	SUB	UDAI NARAIN PANDEY	31-10-78

ARMY SUPPLY CORPS (MECHANICAL TRANSPORT)

26. JC 57024	SUB	CHANDRA BHAN	30-11-78
--------------	-----	--------------	----------

ARMY MEDICAL CORPS

27. JC 45201	SUB	A JACOB	30-11-78
28. JC 48135	SUB	ADYA SHANKER TRIPATHI	31-08-78
29. JC 45186	SUB	AJIT SINGH RAWAT	31-08-78
30. JC 55732	SUB	BALARAMAN	31-10-78
31. JC 63271	SUB	BIHARI LAL	31-08-78
32. JC 63249	SUB	BISHAN RAM	31-08-78
33. JC 53790	SUB	DILBAGH SINGH	31-10-78
34. JC 47041	SUB	JAMUNA PRASAD TIWARI	30-09-78
35. JC 47499	SUB	JOGINDER SINGH	30-11-78
36. JC 32872	SUB	KESHAV PRASHAD SINGH	31-12-78
37. JC 45197	SUB	MAKHAN SINGH	31-10-78
38. JC 50241	SUB	MATHURA PRASAD JUGLAN	30-09-78
39. JC 53082	SUB	MURLIDHAR SAMANT	30-09-78
40. JC 54202	SUB	PM DAMODARAN	31-10-78
41. JC 48745	SUB	PIARA SINGH	31-08-78
42. JC 32871	SUB	PRABHA RANJAN DAS	31-08-78
43. JC 57283	SUB	RADHEY SHYAM	31-10-78
44. JC 48142	SUB	SADHU SINGH	31-12-78

45. JC 54203	SUB	SIRI RAM	31-10-78
46. JC 38531	SUB	SUHRU RAM	31-08-78
47. JC 54413	SUB	TM GOPINATHAN NAIR	31-10-78
48. JC 54205	SUB	V NARAYANAN NAIR	31-10-78
ARMY ORDNANCE CORPS			
49. JC 52520	SUB	HEM RAJ	31-08-78
CORPS OF ELECTRICAL AND MECHANICAL ENGINEERS			
50. JC 57851	SUB	AK THANKAPPAN	11-07-78
51. JC 39988	SUB	DALIP SINGH	17-11-78
52. JC 39614	SUB	DHAMODARAN NAMBIAR	31-05-78
53. JC 58756	SUB	GURDIAL SINGH RANDHWA	11-08-78
54. JC 36309	SUB	K RADHAKRISHNAN	31-12-78
55. JC 47279	SUB	MK KURUVILA	30-06-78
56. JC 56584	SUB	MV BALAN NAIR	30-11-78
57. JC 45975	SUB	NAGINDAR SINGH	30-06-78
58. JC 39627	SUB	RAM CHANDRA JADHAO	30-06-78
59. JC 34445	SUB	SANSAR CHAND	30-09-78
60. JC 49770	SUB	SHRI KRISHAN THAKUR	31-10-78
61. JC 38964	SUB	TRIPAT PAL SINGH	30-09-78
ARMY EDUCATIONAL CORPS			
62. JC 41734	SUB	JOHN MAXWELL SORENG	31-01-78
63. JC 36098	SUB	RANJIT SINGH GREWAL	31-10-78
CORPS OF MILITARY POLICE			
64. JC 50437	SUB	AJIT SINGH	30-09-78
TERRITORIAL ARMY			
65. TJ 679	SUB	AMAR SINGH CHAWLA	30-06-78
66. TJ 746	SUB	AVADHUT DESHPANDE	31-01-78
67. TJ 1340	SUB	GIRDHAR SINGH	07-08-78
68. TJ 1238	SUB	MOHAN SINGH	31-07-78
69. TJ 858	SUB	MOHAMED ALLI SHAIKH	28-02-78
70. TJ 1148	SUB	PAYAPPA MUCHANDI	30-04-78
71. TJ 742	SUB	SHAM RAO SANDAY	28-02-78
72. TJ 1256	SUB	SHAZADA RAM	31-05-78
TO BE HONORARY RISALDARS/SUBEDARS			
BENGAL ENGINEER GROUP			
1. JC 76428	NB SUB	NATHI SINGH	31-10-78
BOMBAY ENGINEER GROUP			
2. JC 72635	NB SUB	BABAJI MORE	31-10-78
3. JC 70868	NB SUB	DHARAM SINGH	31-08-78
THE PUNJAB REGIMENT			
4. JC 77054	NB SUB	BASHAMBAR DASS	31-08-78
THE GARHWAL RIFLES			
5. JC 62074	NB SUB	GOPAL SINGH NEGI	31-10-78
ARMY SERVICE CORPS (SUPPLY)			
6. JC 61376	NB SUB	BHALE RAM	31-03-78
7. JC 61366	NB SUB	UDAI SINGH RAWAT	31-01-78
8. JC 59415	NB SUB	VED PRAKASH	31-12-78
CORPS OF ELECTRICAL AND MECHANICAL ENGINEERS			
9. JC 74562	NB SUB	BIJOY KRISHNA BAUL	31-12-78
10. JC 58781	NB SUB	JAGJWAN SINGH	14-11-78
11. JC 80322	NB SUB	PIRTHI SINGH	30-11-78
12. JC 80324	NB SUB	SRI KRISHNA NAICKER	29-06-78
13. JC 80403	NB SUB	SWROOP MASSIH	31-12-78
TERRITORIAL ARMY			
14. TJ 1343	NB SUB	GANGA SAGAR SINGH	31-08-78
15. TJ 1402	NB SUB	MANISH KUMAR CHAUDHARY	31-08-78

सं० 3-ई विभांक 25 जनवरी, 1979 ---राष्ट्रपति सहर्ष गणनेत्र दिवस (23 जनवरी, 1979) के प्रससर पर निम्नलिखित एन० सी० प्रो० ने उनके प्रकाशण ग्रहण करने पर सेवा रितियमात्रकी 1962 के पैरा 181 के प्रथम अन्ति साम के सामने री गई जारीय से प्रवैतमिक नायब रिसालदार/सूबेदार का पद प्रदान करते हैं ---

प्रवैतमिक नायब रिसालदार/सूबेदार के रैंक में

9 हास

1. 1024794	बफादार	गुरमेल सिंह गिल	31-08-78
------------	--------	-----------------	----------

18 केबलरी

2. 1023685	बफादार	असधर खाँ	31-10-78
3. 1024415	बफादार	नारायण मिश्र	28-02-78

4 हास

4. 1025479	बफादार	गजिन्द्र मिश्र पद्म	30-09-78
------------	--------	---------------------	----------

62 केबलरी

5. 1025119	बफादार	मुखबीर सिंह	31-08-78
------------	--------	-------------	----------

20 लासर्स

6. 1024716	बफादार	गुरनाम सिंह	31-08-78
------------	--------	-------------	----------

63 केबलरी

7. 1025061	बफादार	हरी शंकर राय	30-08-78
------------	--------	--------------	----------

61 केबलरी

8. 1025357	बफादार	आलम अली खाँ	30-08-78
9. 1024854	बफादार	अजीज अहमद खाँ	31-08-78
10. 1025407	बफादार	सूरज भान सिंह	30-09-78
11. 1025743	बफादार	बुकाराम पाटिल	31-10-78

65 ग्रामार्ड रेजिमेंट

12. 1024925	बफादार	बलवन्त सिंह	31-08-78
-------------	--------	-------------	----------

73 ग्रामार्ड रेजिमेंट

13. 1025387	बफादार	शुमान सिंह	30-09-78
-------------	--------	------------	----------

ग्रामार्ड रेजिमेंट

14. 1096934	बफादार	छोटू राम	31-01-78
15. 1024350	बफादार	महावीर सिंह	31-01-78
16. 1096913	बफादार	एन मोहन कुमार	31-01-78
17. 1023973	बफादार	एस बी के नन्बीसन	30-09-78
18. 1097047	बफादार	सुक राम	30-09-78

रेजिमेंट ग्राफ भारदिलरी

19. 1149256	हवलदार	गुलझाई परेरा	31-10-78
20. 1143990	हवलदार	अलगू राम	30-06-78
21. 1144456	हवलदार	अमर सिंह	30-09-78
22. 1144409	हवलदार	अत्तर सिंह	31-08-78
23. 1145361	हवलदार	बासुदेव जीसी	31-07-78
24. 1149394	हवलदार	भगवन्त सिंह	30-06-78
25. 1144174	हवलदार	भक्त बहादुर थापा	31-07-78
26. 1143356	हवलदार	दर्शन सिंह	31-07-78
27. 1143968	हवलदार	धन सिंह	30-06-78
28. 1150814	हवलदार	दलीप गोकटान	31-08-78
29. 1143954	हवलदार	दुर्गा विजय सिंह	30-06-78
30. 1143869	हवलदार	दम्बोर सिंह	30-09-78
31. 1144713	हवलदार	गनपत सिंह	30-09-78
32. 1149450	हवलदार	हंसराज सिंह	30-06-78
33. 1143932	हवलदार	हरीदामन के	31-05-78

34.	1144787	हवलदार	हरी सिंह	31-10-78
35.	1144459	हवलदार	होशियार सिंह	30-09-78
36.	1144206	हवलदार	इन्द्र सिंह	31-07-78
37.	1144728	हवलदार	जगबीर सिंह	31-10-78
38.	1144397	हवलदार	जितेश रंजन भट्टाचारजी	31-08-78
39.	1144585	हवलदार	के माधवन उशीथान	30-09-78
40.	1144586	हवलदार	के एम चिन्नप्पा	30-09-78
41.	1144526	हवलदार	कधेरला रामा मोहन राव	30-09-78
42.	1143842	हवलदार	कुमारा स्वामी बाई	30-06-78
43.	1147888	हवलदार	माहती कचारे	30-08-78
44.	1144595	हवलदार	मेहंगा सिंह	30-09-78
45.	1149607	हवलदार	प्रभाती लाल	30-06-78
46.	1149471	हवलदार	प्रमन सिंह	30-06-78
47.	1144591	हवलदार	प्रेम नाथ	30-09-78
48.	1144316	हवलदार	राम मेहर	31-08-78
49.	1151470	हवलदार	राज नारायण सिंह यादव	31-10-78
50.	1144039	हवलदार	संतोष सिंह	30-06-78
51.	1144817	हवलदार	सरूप धन्य	31-10-78
52.	1144422	हवलदार	शादी लाल	31-08-78
53.	1143975	हवलदार	सोम नाथ]	30-06-78
54.	1144184	हवलदार	उन्नी कृष्णा पानीकर पी एन	31-07-78
55.	1148475	हवलदार	वेन्कसा	30-06-78
मद्रास इंजीनियर ग्रुप				
56.	1312717	हवलदार	हबीबउल्ला खां	30-11-78
57.	1313875	हवलदार	करुवा कन्नन	31-08-78
58.	1313237	हवलदार	पी एम विनायगम	30-09-78
59.	1314084	हवलदार	एस नीलाकण्ठन नायर	31-12-78
60.	1315109	हवलदार	सुन्दरा राव मन्नुमका	31-10-78
61.	1315111	हवलदार	यसु दास	31-10-78
बम्बई इंजीनियर ग्रुप				
62.	1511482	हवलदार	शमस-उद-दीन	31-12-78
63.	1511490	हवलदार	बिठठल लारंबड	31-12-78
कोर ग्राम सिगनलस				
64.	6269999	हवलदार	बलराम दास	30-08-78
65.	6273020	हवलदार	बनारसी दास बेदी	31-10-78
66.	6269536	हवलदार	बनश्याम नारायण सिंह	30-06-78
67.	6273223	हवलदार	गोबिन्द चन्ना फुकों	30-11-78
68.	6269973	हवलदार	गोविन्द नायर	30-09-78
69.	6272860	हवलदार	गुरदीप सिंह	30-09-78
70.	6256980	हवलदार	हरद्वार सट्ट	13-09-78
71.	6272485	हवलदार	जाय कुट्टी पी एम	31-07-78
72.	6270067	हवलदार	के एम जार्ज	30-09-78
73.	6269793	हवलदार	के एम मयारी	31-12-78
74.	6270693	हवलदार	के एन कुन्ज कृष्णा कुवप	28-11-78
75.	6267642	हवलदार	लटुरिया राम	31-10-78
76.	6270524	हवलदार	मन बहादुर	31-12-78
77.	6273197	हवलदार	मेलापुरथ राधवन	30-11-78
78.	6269344	हवलदार	नक्का विराप्पा	05-01-79
79.	6270435	हवलदार	नाम देव वेसाई	30-11-78
80.	6272550	हवलदार	पी श्री श्रीमैन	31-07-78
81.	6272840	हवलदार	प्रेम चंद कपिल	30-09-78
82.	6270411	हवलदार	रामेश्वर मंडल	30-11-78
83.	6269272	हवलदार	रतन सिंह	30-04-78

84.	6269927	हवलदार	मल्हा मारायण तिवारी	30-09-78
85.	6270193	हवलदार	तानात्री धिने	31-10-78
86.	6269931	हवलदार	टेक चन्द	30-09-78

विशेष भाग की पार्वत

87.	13650934	हवलदार	विन्देश्वर ठाकुर	31-10-78
88.	13650857	हवलदार	शाम सिंह	30-09-78
89.	13650879	हवलदार	जमबन्त सिंह	30-09-78
90.	13650889	हवलदार	राम दयाल सिंह	30-09-78
91.	13651117	हवलदार	मीरा राम	31-12-78
92.	13650931	हवलदार	गुरुजन	31-10-78
93.	5436118	हवलदार	धीमुखा गुरंग	31-12-78
94.	13651150	हवलदार	यू एस उपाध्याय	31-12-78

बी पैराग्राफ रेजिमेंट

95.	3948040	हवलदार	देव राज	11-10-78
96.	2944875	हवलदार	जीत राम	31-08-78
97.	3947922	हवलदार	भर्म चन्द	30-09-78
98.	2546174	हवलदार	एन टी मधुकुट्टी	31-10-78

बी पंजाब रेजिमेंट

99.	2440468	हवलदार	मननार सिंह	30-11-78
100.	2440802	हवलदार	बछितर सिंह	31-12-78
101.	2440523	हवलदार	बिहारी लाल	30-11-78
102.	2440410	हवलदार	दलीप सिंह	31-10-78
103.	2440583	हवलदार	धनी राम	30-11-78
104.	2440298	हवलदार	ज्ञान चन्द	30-09-78
105.	2440615	हवलदार	गोविंद सिंह	31-12-78
106.	2440420	हवलदार	गुरमेल सिंह	31-10-78
107.	2440675	हवलदार	हरभजन सिंह	31-12-78
108.	2440804	हवलदार	हरी सिंह	31-12-78
109.	2440833	हवलदार	इन्दर सिंह	31-12-78
110.	2439766	हवलदार	कृपाल सिंह	31-01-78
111.	2440885	हवलदार	करनार चन्द	31-12-78
112.	2440826	हवलदार	कशमीर सिंह	31-12-78
113.	2440806	हवलदार	लेख राज	31-12-78
114.	2440932	हवलदार	नानक चन्द	31-12-78
115.	2440231	हवलदार	नारायण सिंह	31-08-78
116.	2440714	हवलदार	प्रेम सिंह	31-12-78
117.	2440370	हवलदार	प्रीतम सिंह	31-10-78
118.	2440492	हवलदार	राम कृष्ण	30-11-78
119.	2440825	हवलदार	सन्त राम	31-12-78
120.	2440364	हवलदार	सरवन सिंह	31-10-78
121.	2440141	हवलदार	सुखवर्षेन सिंह	30-06-78

बी मद्रास रेजिमेंट

122.	2544982	हवलदार	ए घन्टाणी विस्वामय	31-10-78
123.	2544326	हवलदार	ए गोपी	31-08-78
124.	2544596	हवलदार	ए पत्तण्णा	30-09-78
125.	2545231	हवलदार	मन्नामलाई	30-11-78
126.	2544320	हवलदार	सी जे लोनाप्पन	31-08-78
127.	2544515	हवलदार	सी पी गोविन्दन नायर	30-09-78
128.	2545489	हवलदार	चिन्नप्पन	31-12-78
129.	2544183	हवलदार	दामोदरन ए	31-08-78
130.	2545071	हवलदार	जी कृष्णा पिल्लै	31-10-78
131.	2544552	हवलदार	गोपालाकृष्णन मन्त्रियार ई पी	30-09-78
132.	2544835	हवलदार	के चिन्नास्वामी	30-09-78

133.	2545189	हवलदार	के गोबिन्दा मराठ	31-10-78
134.	2544957	हवलदार	के शम्भुगम	31-10-78
135.	2544427	हवलदार	के सी शम्भाहम	31-08-78
136.	2544571	हवलदार	के डी पण्डुरंगन	30-09-78
137.	2544297	हवलदार	के के सिवारसन नायर	31-08-78
138.	2545694	हवलदार	कनग राज	31-12-78
139.	2545696	हवलदार	एम मारीसावी	31-12-78
140.	2544210	हवलदार	एम के मुकमारन	31-08-78
141.	2544470	हवलदार	माधवन बी	30-09-78
142.	2544212	हवलदार	पी मुकुन्दन	31-08-78
143.	2544329	हवलदार	फिलीप सी डी	31-08-78
144.	2544837	हवलदार	भार रामावासन	30-09-78
145.	2544977	हवलदार	भार सेधूराज	31-10-78
146.	2544192	हवलदार	राधवन पिल्ले के	31-08-78
147.	2545066	हवलदार	रामाकृष्णा कृष्ण पी एम	31-10-78
148.	2544802	हवलदार	एस विश्वासवी	30-09-78
149.	2545138	हवलदार	एस माधवन उभीथान	31-10-78
150.	2544418	हवलदार	धामस पी सी	31-08-78
151.	2545163	हवलदार	बी श्यामलार्ई	31-10-78
152.	2544994	हवलदार	बी बालाकृष्णन	31-10-78
153.	2544259	हवलदार	बी सेधू रेड्डी	31-08-78
154.	2544798	हवलदार	बी श्रीनिवासुलु रेड्डी	30-09-78
155.	2544202	हवलदार	बी ए कृष्णन	31-08-78

बी प्रेसिडियरस

156.	2641013	हवलदार	बलदेव सिंह	31-12-78
157.	3948565	हवलदार	बशीर सिंह	31-12-78
158.	2640912	हवलदार	हुं बजय सिंह यादव	30-11-78
159.	2640822	हवलदार	इन्द्र सिंह	30-09-78
160.	2640969	हवलदार	जग राम	31-12-78
161.	2640779	हवलदार	खुशाल सिंह	30-09-78
162.	2640782	हवलदार	मान सिंह	31-08-78
163.	2640799	हवलदार	प्रकाश सिंह	30-09-78
164.	2640781	हवलदार	रूप चन्द	30-09-78
165.	2640901	हवलदार	शाम लाल	30-11-78

बी मराठा लाइव इन्फैण्टरी

166.	2742457	हवलदार	नामदेव गणपतराव कुंभर	30-09-78
167.	2742278	हवलदार	परश राम कदम	18-08-78
168.	2742516	हवलदार	रघुनाथ कदम	19-06-78

बी राजपूताना राइफलस

169.	2844305	हवलदार	धनूप सिंह	31-10-78
170.	2844597	हवलदार	बलजीत सिंह	31-12-78
171.	2844290	हवलदार	बालू किशन	30-09-78
172.	2844320	हवलदार	वाम सिंह	31-10-78
173.	2846057	हवलदार	दया नन्द	31-10-78
174.	2844263	हवलदार	परसा सिंह	30-09-78
175.	2945626	हवलदार	राम सिंह	31-12-78
176.	2844348	हवलदार	रन सिंह	31-10-78
177.	2843991	हवलदार	श्री राम	02-05-78

बी राजपूत रेजिमेन्ट

178.	2945346	हवलदार	बसन्त गोठैत	31-10-78
179.	2944709	हवलदार	फौजदार सिंह	31-08-78
180.	2945660	हवलदार	गया पाल सिंह	31-12-78
181.	2945501	हवलदार	हरबंस सिंह	30-11-78
182.	2945164	हवलदार	मंजी सिंह	30-09-78
183.	2945546	हवलदार	नारायण सिंह	31-12-78
184.	2944901	हवलदार	राम चरन सिंह	31-08-78
185.	2944998	हवलदार	राम मूरत सिंह	30-09-78
186.	2945506	हवलदार	रेवन्त सिंह	30-11-78
187.	2944452	हवलदार	शिवजीत सिंह	31-05-78
188.	2945140	हवलदार	बेब प्रकाश	30-09-78

बी जाट रेजिमेन्ट

189.	3141577	हवलदार	बचन सिंह	31-12-78
190.	3141517	हवलदार	छोटू राम	30-11-78
191.	3141616	हवलदार	जग राम	31-12-78
192.	3141612	हवलदार	जय किशन	31-12-78
193.	2440569	हवलदार	नफी सिंह	30-11-78
194.	3141604	हवलदार	प्रोम प्रकाश	31-12-78
195.	3141251	हवलदार	राम गोपाल	31-08-78
196.	3141328	हवलदार	राम प्रशास	30-09-78
197.	3141220	हवलदार	रोहतास सिंह	31-08-78

बी सिख रेजिमेन्ट

198.	3345276	हवलदार	मजीत सिंह	30-11-78
199.	3345222	हवलदार	बलबीर सिंह	31-08-78
200.	3345063	हवलदार	बलबीर सिंह	31-10-78
201.	3345206	हवलदार	बलदेव सिंह, एस एम	30-11-78
202.	3344638	हवलदार	बलवन्त सिंह	31-08-78
203.	3344840	हवलदार	बंस सिंह	30-09-78
204.	3344906	हवलदार	बयाल सिंह	30-09-78
205.	3344519	हवलदार	बान सिंह	31-08-78
206.	3344664	हवलदार	हरभजन सिंह	31-08-78
207.	3345470	हवलदार	जोगा सिंह	31-12-78
208.	3346434	हवलदार	जोसिम्र सिंह	31-10-78
209.	3345160	हवलदार	किवार नाथ	31-10-78
210.	3344926	हवलदार	मंगत सिंह	30-09-78
211.	3345081	हवलदार	प्रीतम सिंह	31-10-78
212.	3345573	हवलदार	सलिन्द्र सिंह	31-12-78
213.	3345045	हवलदार	शंगारा सिंह	31-10-78
214.	3345156	हवलदार	सूरत सिंह	31-10-78
215.	3344667	हवलदार	जैत सिंह	30-09-78

बी सिख लाइट इन्फैन्ट्री

216.	4436664	हवलदार	बारा सिंह	30-11-78
217.	4436783	हवलदार	भान सिंह	31-12-78
218.	4436609	हवलदार	गरीब सिंह	30-11-78
219.	4436721	हवलदार	गुरमेल सिंह	31-12-78
220.	4436627	हवलदार	हरी सिंह	30-11-78
221.	4436409	हवलदार	जग्गन सिंह	31-08-78
222.	2440246	हवलदार	करतार सिंह	31-08-78
223.	4436725	हवलदार	मुखार्यार सिंह	31-12-78
224.	4436681	हवलदार	राम सिंह	31-12-78

225.	4436427	हवलदार	स्वर्ण सिंह	31-08-78
बी डोमरा रेजिमेंट				
226.	3947578	हवलदार	अमर चन्द	31-08-78
227.	3948539	हवलदार	अमर सिंह	30-11-78
228.	3947553	हवलदार	बहादुर सिंह	31-08-78
229.	3948696	हवलदार	बलबन्त सिंह	31-12-78
230.	3948275	हवलदार	चौधरी राम	31-10-78
231.	3947821	हवलदार	दयान सिंह	31-08-78
232.	3947713	हवलदार	ज्ञान चन्द	31-08-78
233.	3947662	हवलदार	जरनैल सिंह	31-08-78
234.	3948085	हवलदार	माया राम जोशी	31-10-78
235.	3947949	हवलदार	प्रीतम सिंह	30-09-78
236.	3948160	हवलदार	पुष्पू राम	31-10-78
237.	3948165	हवलदार	राम लाल	31-10-78
238.	3947476	हवलदार	राम नाथ शर्मा	31-08-78
239.	3947634	हवलदार	रतन सिंह	31-08-78
240.	9948002	हवलदार	रिसाल सिंह	31-10-78
241.	3948256	हवलदार	रोशन लाल	31-10-78
242.	3947685	हवलदार	साधू राम	31-08-78
243.	3948031	हवलदार	शाम लाल	31-10-78
बी गढ़वाल राइफल्स				
244.	4036343	हवलदार	अमर सिंह चौधरी	31-08-78
245.	4035401	हवलदार	अमर सिंह फरमवान	31-07-78
246.	4036703	हवलदार	भागीरथ कुमेशी	28-02-78
247.	4036410	हवलदार	भवान सिंह रावत	30-09-78
248.	4036411	हवलदार	बीरबल सिंह नेगी	20-10-78
249.	4036339	हवलदार	गोविन्द सिंह रावत	31-08-78
250.	4036536	हवलदार	गुलाब सिंह बिष्ट	30-11-78
251.	4036915	हवलदार	हन्दर सिंह नेगी	15-09-78
252.	4036538	हवलदार	कुन्दन सिंह बिष्ट	30-11-78
253.	4036471	हवलदार	कुन्दन सिंह गुसाई	30-09-78
254.	4036880	हवलदार	लखी राम बेलवाल	23-08-78
255.	4036507	हवलदार	लक्ष्मण सिंह बिष्ट	31-10-78
256.	4036243	हवलदार	महेश सिंह	31-05-78
257.	4036447	हवलदार	नारायण सिंह गुसाई	30-09-78
258.	4036698	हवलदार	राम सिंह बिष्ट	31-01-78
259.	4036272	हवलदार	सरदार सिंह भन्डारी	31-07-78
बी कुमाऊं रेजिमेंट				
260.	4142832	हवलदार	बाल कृष्ण	31-05-78
261.	4143074	हवलदार	भंवर सिंह	30-09-78
262.	4143008	हवलदार	चंचल सिंह	31-08-78
263.	4143202	हवलदार	केशर सिंह	31-10-78
264.	4142947	हवलदार	लाजम सिंह	31-07-78
265.	4143049	हवलदार	नन्दन सिंह मेहरा	30-09-78
266.	4142989	हवलदार	पान सिंह	31-08-78
267.	4143128	हवलदार	राम चन्दर	31-10-78
268.	4143114	हवलदार	राम जन्म	30-09-78
269.	4143020	हवलदार	शोबान सिंह	31-08-78
बी बिहार रेजिमेंट				
270.	4235765	हवलदार	ब्रिज लाल यादव	31-10-78
271.	4235895	हवलदार	सिखा तिरको	31-12-78
बी महार रेजिमेंट				
272.	9202439	हवलदार	अमर नाथ	31-12-78
273.	9202428	हवलदार	बिधू	31-12-78
274.	9202391	हवलदार	बुधबा खेत	31-12-78

275.	9202214	हवलदार	मदन लाल	30-11-78
276.	9202266	हवलदार	मोहिब बेहेरा	30-11-78
277.	9202346	हवलदार	मस्तू राम	31-12-78
बी जम्बू एण्ड काश्मीर लाइट इन्फैन्ट्री				
278.	9093444	हवलदार	रसूल शाह	30-09-78
1 गोरखा राइफल्स				
279.	5334110	हवलदार	वैभ जंग थापा	31-12-78
280.	5032542	हवलदार	ईरखा बहादुर रोका	31-10-78
281.	5032618	हवलदार	खेम लाल गुरुंग	31-12-78
3 गोरखा राइफल्स				
282.	5233935	हवलदार	बिक्रम सिंह थापा	31-05-78
283.	5234023	हवलदार	बिल बहादुर बूराथोकी	31-10-78
284.	5234049	हवलदार	इम बहादुर राना	31-10-78
285.	5233954	हवलदार	हरी प्रसाद थापा	31-03-78
286.	5233963	हवलदार	राज मन गुरुंग	31-10-78
287.	5234048	हवलदार	गुल बहादुर राना	31-10-78
4 गोरखा राइफल्स				
288.	5334136	हवलदार	बरेन्द्र सिंह थापा	31-10-78
5 गोरखा राइफल्स				
289.	5436008	हवलदार	बिल बहादुर पुन	31-12-78
290.	5435819	हवलदार	बेबी सिंह राना	30-09-78
291.	5435965	हवलदार	गुजमन गुरुंग	30-11-78
292.	5435973	हवलदार	मेक बहादुर थापा	30-11-78
293.	5436577	हवलदार	सतल सिंह गुरुंग	31-12-78
8 गोरखा राइफल्स				
294.	5736524	हवलदार	सकल बहादुर पुन	31-10-78
295.	5736712	हवलदार	इर बहादुर गुरुंग	31-12-78
296.	5736864	हवलदार	जंग बहादुर थापा	30-11-78
297.	5736818	हवलदार	कवि राज थापा	31-12-78
298.	5737403	हवलदार	लाल सिंह पुन	31-12-78
299.	5736710	हवलदार	मन बहादुर थापा	30-11-78
9 गोरखा राइफल्स				
300.	5834121	हवलदार	बल बहादुर खत्री	30-06-78
301.	5834178	हवलदार	ईमान सिंह बसनेत	30-11-78
11 गोरखा राइफल्स				
302.	9403758	हवलदार	बोक बहादुर राय	30-11-78
303.	9403626	हवलदार	कृष्ण धोत्रा राय	31-03-78
304.	9403705	हवलदार	माना राम राय	30-09-78
305.	9403727	हवलदार	पन्ना बहादुर राय	30-09-78
306.	9403763	हवलदार	सुरजू लामा	31-12-78
छात्री सचिव कोर (एमीमल ट्रान्सपोर्ट)				
307.	6443313	दफादार	प्रयाग सिंह	30-06-78
308.	6443447	दफादार	बी कैसचन नायर	30-09-78
छात्री सचिव कोर (मैकेनिकल ट्रान्सपोर्ट)				
309.	6594260	हवलदार	बेबी सिंह	30-09-78
310.	6594378	हवलदार	बच्चू लाल सिवारी	31-10-78
311.	6594742	हवलदार	धरम वैद्य	31-12-78
312.	6596032	हवलदार	फला राम	30-11-78
313.	6594781	हवलदार	बिथाली राम	31-12-78
314.	6596165	हवलदार	एम सुनु स्वामी	31-10-78

315.	6593827	हवलदार	एम वासुदेवा करमावर	31-10-78
316.	6588946	हवलदार	मनमन पासवान	31-10-78
317.	6593384	हवलदार	मंगल होरी	31-08-78
318.	6593501	हवलदार	पाटिल रंगा राव डोंडाजी	31-08-78
319.	6594637	हवलदार	राधे श्याम घोषा	30-11-78
320.	6594539	हवलदार	शिवापाल सिंह	30-11-78
321.	6594576	हवलदार	सुरजा राम	30-11-78
322.	6593861	हवलदार	रोज भान सिंह	31-10-78

ग्रामी मैडिकल कोर

323.	6790443	हवलदार	बन्नी राम	31-12-78
324.	6789906	हवलदार	नितेश्वर उपाध्याय	30-09-78
325.	6789738	हवलदार	हरम चन्व	31-07-78
326.	6785477	हवलदार	जी के नायर कै के	31-05-78
327.	6789911	हवलदार	गुमान सिंह	30-09-78
328.	6784896	हवलदार	हुसे कुबेर बापू	09-09-78
329.	6789771	हवलदार	जगमोहन राय	31-07-78
330.	6593730	हवलदार	जोगिन्द्र शाह	30-09-78
331.	6784602	हवलदार	के के नारायणन मन्डियार	31-12-78
332.	10193328	हवलदार	लेख राज	31-12-78
333.	6784257	हवलदार	मोहिन्दर सिंह	30-09-78
334.	6785313	हवलदार	मो टी मवाई	30-06-78
335.	6784066	हवलदार	रामम उन्नी	31-07-78
336.	6759129	हवलदार	राम सिंह	31-08-78
337.	6784355	हवलदार	स्वामीनाथन	31-10-78
338.	6785592	हवलदार	डी रामा कुरुप	31-08-78

ग्रामी आडिनेस कोर

339.	6867245	हवलदार	ग्रामसामन्व अधिकारी	30-09-78
340.	6867100	हवलदार	अर्जुन सिंह	31-07-78
341.	6867123	हवलदार	भीमराया मूकशी	31-08-78
342.	6867146	हवलदार	भोला हरिजन	31-08-78
343.	6867110	हवलदार	भोपल राम	31-08-78
344.	6867215	हवलदार	विशाम सिंह	30-09-78
345.	6867182	हवलदार	हीरा सिंह	31-08-78
346.	6867118	हवलदार	एम सी कृष्णन कुट्टी	31-08-78
347.	6867184	हवलदार	मिथिल कैरकैट्टा	31-08-78
348.	6867147	हवलदार	मुबामा राम	31-08-78
349.	6867186	हवलदार	सुमेर सिंह	31-08-78
350.	6867148	हवलदार	सूरज प्रकाश	31-08-78

कोर ग्राफ इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरस

351.	7035991	हवलदार	बछिर सिंह	30-09-78
352.	7032948	हवलदार	भगवान स्वरूप	31-08-78
353.	7034680	हवलदार	भाना राम शर्मा	31-12-78
354.	7029582	हवलदार	भूमि चन्व	30-04-78
355.	7032800	हवलदार	ब्रिज मोहन	31-07-78
356.	7035840	हवलदार	कामिल	31-08-78
357.	7030399	हवलदार	चैम सिंह	31-10-78
358.	7035600	हवलदार	चंदू लाल सुलार	31-08-78
359.	7034470	हवलदार	डी इस्साक	31-05-78
360.	7033092	हवलदार	दावा साहिब मोहिते	31-08-78
361.	7034141	हवलदार	दास्ता राम लूका राम परब	31-10-78
362.	7029173	हवलदार	गजाधर सिंह	31-12-78
363.	7032959	हवलदार	गिरसारी लाल वैधी	31-08-78
364.	7034872	हवलदार	हीनवारी	19-06-78
365.	7028989	हवलदार	जगदीश बलगुटकर	31-12-78

366.	7029463	हवलदार	जोगीन्दर सिंह	30-06-78
367.	7032891	हवलदार	के बालाकृष्णन नायर	31-08-78
368.	7035990	हवलदार	के एम चंद्रन गुडंग	30-09-78
369.	7029571	हवलदार	के पी आन	31-12-78
370.	7036248	हवलदार	के पी रामाचन्द्रन	31-10-78
371.	7029770	हवलदार	कन्वस सिंह	31-12-78
372.	7034438	हवलदार	केशव राम	30-11-78
373.	7030654	हवलदार	कुरियाकोम टी ई	04-06-78
374.	7033838	हवलदार	लछमन सिंह	30-09-78
375.	7033727	हवलदार	मैरू ई ओ	30-09-78
376.	7033441	हवलदार	मोहन नाथ सिंह रावत	30-09-78
377.	7033335	हवलदार	एम अनन्वत	31-08-78
378.	7834517	हवलदार	नूर मोहम्मद खां बरागदार	31-12-78
379.	7029322	हवलदार	ओम प्रकाश	31-08-78
380.	7029368	हवलदार	पी भूपालन	30-09-78
381.	7034247	हवलदार	परमा नन्व त्यागी	30-11-78
382.	7029522	हवलदार	प्रहलाद गैराड	31-08-78
383.	7034071	हवलदार	प्रेम सिंह	31-10-78
384.	7034115	हवलदार	राधे श्याम	30-11-78
385.	7033569	हवलदार	रघुनाथ राउ मरवटे	30-09-78
386.	7032813	हवलदार	राज मोहन	31-07-78
387.	7033886	हवलदार	राम चंदर	31-05-78
388.	7033404	हवलदार	राम प्रताप सिंह	31-08-78
389.	7032889	हवलदार	एस राजय	31-08-78
390.	7033707	हवलदार	सीतल सिंह	30-09-78
391.	7034699	हवलदार	श्री कृष्ण तिवारी	31-12-78
392.	7024371	हवलदार	देवस सिंह	30-09-78
393.	7034296	हवलदार	तेज नारायण सिंह	30-11-78
394.	7033413	हवलदार	वलोक सिंह रावत	30-08-78
395.	7033771	हवलदार	वी एच लोलागे	30-09-78
धार्मी इन्स्पेक्शनल कोर				
396.	1145732	हवलदार	बनवारी लाल	31-12-78
397.	1024804	हवलदार	हरी सिंह	31-08-78
डी इन्स्पेक्शनल कोर				
398.	1025828	हवलदार	जागीर सिंह	30-11-78
399.	5435981	हवलदार	बिल बहावर गुरंग	30-11-78
400.	3946997	हवलदार	परबोतम सिंह	30-11-78
401.	6289791	हवलदार	सूखबीर सिंह	31-08-78
कोर आफ मिलिट्री पुलिस				
402.	2944987	हवलदार	जै राम सिंह	30-09-78
403.	2544219	हवलदार	के आर बालाकृष्णन नायर	31-08-78
404.	4143319	हवलदार	केशव दत्त	31-08-78
405.	3344732	हवलदार	प्रीतम सिंह गिल	31-08-78
406.	4235707	हवलदार	राम रतन सिंह	30-09-78
धार्मी फिजिकल ट्रेनिंग कोर				
407.	2945560	हवलदार	अमर सिंह	31-12-78
408.	3947465	हवलदार	भजन सिंह	30-08-78
409.	5435866	हवलदार	बिल बहावर पुन	30-10-78
410.	3948751	हवलदार	जोगल राम	31-12-78
411.	1028441	हवलदार	करम चन्द	30-09-78
412.	5435477	हवलदार	नरका बहावर माही	30-11-78
413.	6789843	हवलदार	नारायण सिंह बिष्ट	31-08-78
414.	3141355	हवलदार	प्यारे लाल	30-09-78

415.	6270198	हवलदार	राम बुलारे	31-10-78
416.	6789938	हवलदार	राम लाल	30-09-78
डिपेंडेंट सिग्नेचरिज कोर				
417.	8805890	हवलदार	एम बी वासू	31-08-78
418.	8796440	हवलदार	महेशा नन्द जोशी	31-10-78
419.	8801500	हवलदार	नथू सिंह	30-09-78
420.	7991186	हवलदार	आर रामाकृष्णन	31-12-78
421.	8793589	हवलदार	साहिब सिंह	31-10-78
422.	8798627	हवलदार	विष्णू चवान	30-11-78
423.	8797956	हवलदार	वाई धन्या राव रेड्डी	30-09-78

[फाइल सं० ए/40113/आर डी-79/एजी/पी एम 5(ए)]

बी० बी० सहाम, संयुक्त सचिव

No. 3—E dated 25th January, 1979.—The President is pleased to grant honorary rank of Naib Risaldar/Naib Subedar to the undermentioned NCOs on retirement under para 181 of the Regulations for the Army, 1962, with effect from their respective dates of retirement :—

TO BE HONORARY NAIB RISALDARS/SUBEDARS ON RETIREMENT

				Date of retirement
9 HORSE				
1.	1024794	DFR	GURMAIL SINGH GILL	31-08-78
18 CAVALRY				
2.	1025685	DFR	ASGHAR KHAN	31-10-78
3.	1024415	DFR	NARAIN SINGH	28-02-78
4 HORSE				
4.	1025479	DFR	RAJINDER SINGH PANNU	30-09-78
62 CAVALRY				
5.	1025119	DFR	SUKHBIR SINGH	31-08-78
20 LANCERS				
6.	1024716	DFR	GURNAM SINGH	31-08-78
63 CAVALRY				
7.	1025061	DFR	HARI SHANKAR RAI	30-09-78
61 CAVALRY				
8.	1025357	DFR	ALAM ALI KHAN	30-09-78
9.	1024854	DFR	AZIZ AHMED KHAN	31-08-78
10.	1025407	DFR	SURAJ BHAN SINGH	30-09-78
11.	1025743	DFR	TUKARAM PATIL	31-10-78
65 ARMoured REGIMENT				
12.	1024925	DFR	BALWANT SINGH	31-08-78
73 ARMoured REGIMENT				
13.	1025387	DFR	GUMAN SINGH	30-09-78
ARMoured CORPS				
14.	1096934	DFR	CHHOTU RAM	31-01-78
15.	1024350	DFR	MAHAVIR SINGH	31-01-78
16.	1096913	DFR	N MOHAN KUMAR	31-01-78
17.	1023973	DFR	SVK NAMBISSAN	30-09-78
18.	1097047	DFR	SUK RAM	30-09-78
REGIMENT OF ARTILLERY				
19.	1149256	HAV	ALBY PEREIRA	31-10-78
20.	1143990	HAV	ALGOO RAM	30-06-78
21.	1144456	HAV	AMAR SINGH	30-09-78
22.	1144409	HAV	ATTAR SINGH	31-08-78
23.	1145361	HAV	BASUDEW JAISI	31-07-78
24.	1149394	HAV	BHAGWANT SINGH	30-06-78
25.	1144174	HAV	BHAKTA BAHADUR THAPA	31-07-78
26.	1143356	HAV	DARSHAN SINGH	31-07-78

27. 1143968	HAV	DHAN SINGH	30-06-78
28. 1150814	HAV	DILIP MOKTAN	31-08-78
29. 1143954	HAV	DURGA VIJAI SINGH	30-06-78
30. 1143869	HAV	GAMBHIR SINGH	30-09-78
31. 1144713	HAV	GANPAT SINGH	30-09-78
32. 1149450	HAV	HANS RAJ SINGH	30-06-78
33. 1143932	HAV	HARIDASAN K	31-05-78
34. 1144787	HAV	HARI SINGH	31-10-78
35. 1144459	HAV	HOSHIAR SINGH	30-09-78
36. 1144206	HAV	INDER SINGH	31-07-78
37. 1144728	HAV	JAGBIR SINGH	31-10-78
38. 1144397	HAV	JITESH RANJAN BHATTACHARJEE	31-08-78
39. 1144585	HAV	K MADHAVAN UNNITHAN	30-09-78
40. 1144586	HAV	KM CHINNAPPA	30-09-78
41. 1144526	HAV	KAGHERIA RAMA MOHANA RAO	30-09-78
42. 1143842	HAV	KUMARA SWAMY Y	30-06-78
43. 1147888	HAV	MARUTI KACHARE	30-09-78
44. 1144595	HAV	MEHNGA SINGH	30-09-78
45. 1149607	HAV	PARBHATI LAL	30-06-78
46. 1149471	HAV	PRAMAL SINGH	30-06-78
47. 1144591	HAV	PREM NATH	30-09-78
48. 1144316	HAV	RAM MEHAR	31-08-78
49. 1151470	HAV	RAJ NARAIN SINGH YADAV	31-10-78
50. 1144039	HAV	SANTOKH SINGH	30-06-78
51. 1144817	HAV	SAROOP CHAND	31-10-78
52. 1144422	HAV	SHADI LAL	31-08-78
53. 1143975	HAV	SOM NATH	30-06-78
54. 1144184	HAV	UNNI KRISHNA PANIKKER PN	31-07-78
55. 1148475	HAV	VENKANNA	30-06-78

MADRAS ENGINEER GROUP

56. 1312717	HAV	HABIBULLA KHAN	30-11-78
57. 1313875	HAV	KARUTHA KANNAN	31-08-78
58. 1313237	HAV	PM VINAYAGAM	30-09-78
59. 1314084	HAV	S NEELAKANTAN NAIR	31-12-78
60. 1315109	HAV	SUNDARA RAO MANDRUMAKA	31-10-78
61. 1315111	HAV	YESUDAS	31-10-78

BOMBAY ENGINEER GROUP

62. 1511482	HAV	SHAMS-UD-DIN	31-12-78
63. 1511490	HAV	VITHAL LAWAND	31-12-78

CORPS OF SIGNALS

64. 6269999	HAV	BALRAM DASS	30-09-78
65. 6273020	HAV	BANARSI DASS BEDI	31-10-78
66. 6269536	HAV	GHANSHYAM NARAIN SINGH	30-06-78
67. 6273223	HAV	GOBIND CHANDRA PHUKON	30-11-78
68. 6269973	HAV	GOVINDAN NAIR	30-09-78
69. 6272860	HAV	GURDIP SINGH	30-09-78
70. 6256980	HAV	HARDWAR BHAT	13-09-78
71. 6272485	HAV	JOY KUTTY PM	31-07-78
72. 6270067	HAV	KM GEORGE	30-09-78
73. 6269793	HAV	KM MATHAI	31-12-78
74. 6270693	HAV	KN KUNJU KRISHNA KURUP	28-11-78
75. 6267642	HAV	LATURIA RAM	31-10-78
76. 6270524	HAV	MAN BAHADUR	31-12-78
77. 6273197	HAV	MELAPPURATH RAGHAVAN	30-11-78
78. 6269344	HAV	NAKKA VEERANNA	05-01-79
79. 6270435	HAV	NAM DEV DESAI	30-11-78
80. 6272550	HAV	PO OOMMEN	31-07-78
81. 6272840	HAV	PREM CHAND KAPIL	30-09-78
82. 6270411	HAV	RAMESHWAR MANDAL	30-11-78
83. 6269272	HAV	RATAN SINGH	30-04-78
84. 6269927	HAV	SATYA NARAIN TIWARI	30-09-78
85. 6270193	HAV	TANAJI THITE	31-10-78
86. 6269931	HAV	TEK CHAND	30-09-78

BRIGADE OF THE GUARDS

87. 13650934	HAV	BINDESHWAR THAKUR	31-10-78
88. 13650857	HAV	GIAN SINGH	30-09-78
89. 13650879	HAV	JASWANT SINGH	30-09-78
90. 13650889	HAV	RAM DAYAL SINGH	30-09-78
91. 13651117	HAV	SIS RAM	31-12-78
92. 13650931	HAV	SURJAN	31-10-78
93. 5436118	HAV	THISUBA GURUNG	31-12-78
94. 13651150	HAV	US UPADHYAYA	31-12-78

THE PARACHUTE REGIMENT

95. 3948040	HAV	DEV RAJ	11-10-78
96. 2944875	HAV	JIT RAM	31-08-78
97. 3947922	HAV	KARAM CHAND	30-09-78
98. 2546174	HAV	NT ACHUKUTTY	31-10-78

THE PUNJAB REGIMENT

99. 2440468	HAV	AVTAR SINGH	30-11-78
100. 2440802	HAV	BACHITTAR SINGH	31-12-78
101. 2440523	HAV	BEHARI LAL	30-11-78
102. 2440410	HAV	DALIP SINGH	31-10-78
103. 2440583	HAV	DHANI RAM	30-11-78
104. 2440298	HAV	GIAN CHAND	30-09-78
105. 2440615	HAV	GOVIND SINGH	31-12-78
106. 2440420	HAV	GURMEJ SINGH	31-10-78
107. 2440675	HAV	HARBHAJAN SINGH	31-12-78
108. 2440804	HAV	HARI SINGH	31-12-78
109. 2440833	HAV	INDER SINGH	31-12-78
110. 2439766	HAV	KARPAL SINGH	31-01-78
111. 2440885	HAV	KARTAR CHAND	31-12-78
112. 2440826	HAV	KASHMIR SINGH	31-12-78
113. 2440806	HAV	LEKH RAJ	31-12-78
114. 2440932	HAV	NANAK CHAND	31-12-78
115. 2440231	HAV	NARAIN SINGH	31-08-78
116. 2440714	HAV	PREM SINGH	31-12-78
117. 2440370	HAV	PRITAM SINGH	31-10-78
118. 2440492	HAV	RAM KRISHAN	30-11-78
119. 2440825	HAV	SANT RAM	31-12-78
120. 2440364	HAV	SARWAN SINGH	31-10-78
121. 2440141	HAV	SUKHDARSHAN SINGH	30-06-78

THE MADRAS REGIMENT

122. 2544982	HAV	A ANTONY VISVASAM	31-10-78
123. 2544326	HAV	A GOPI	31-08-78
124. 2544596	HAV	A PALLAPPA	30-09-78
125. 2545231	HAV	ANNAMALAI	30-11-78
126. 2544320	HAV	CJ LONAPPAN	31-08-78
127. 2544515	HAV	CP GOVINDAN NAIR	30-09-78
128. 2545489	HAV	CHINNAPPAN	31-12-78
129. 2544183	HAV	DAMODARAN A	31-08-78
130. 2545071	HAV	G KRISHNA PILLAI	31-10-78
131. 2544552	HAV	GOPALAKRISHNAN NAMBIAR EP	30-09-78
132. 2544835	HAV	K CHINNASWAMY	30-09-78
133. 2545189	HAV	K GOVINDA MARAR	31-10-78
134. 2544957	HAV	K SHANMUGAM	31-10-78
135. 2544427	HAV	KC ABRAHAM	31-08-78
136. 2544571	HAV	KG PANDURANGAN	30-09-78
137. 2544297	HAV	KK SIVARAMAN NAIR	31-08-78
138. 2545694	HAV	KANAGA RAJ	31-12-78
139. 2545696	HAV	M MARISAMY	31-12-78
140. 2544210	HAV	MK SUKUMARAN	31-08-78
141. 2544470	HAV	MADHAVAN V	30-09-78
142. 2544212	HAV	P MUKUNDAN	31-08-78
143. 2544329	HAV	PHILIP CD	31-08-78
144. 2544837	HAV	R RAMADASAN	30-09-78

145.	2544977	HAV	R SETHURAJ	31-10-78
146.	2544192	HAV	RAGHAVAN PILLAI K	31-08-78
147.	2545066	HAV	RAMAKRISHNA KURUP PM	31-10-78
148.	2544802	HAV	S CHINNASAMY	30-09-78
149.	2545138	HAV	S MADHAVAN UNNITHAN	31-10-78
150.	2544418	HAV	THOMAS PC	31-08-78
151.	2545163	HAV	V ANNAMALAI	31-10-78
152.	2544994	HAV	V BALAKRISHNAN	31-10-78
153.	2544259	HAV	V SETHU REDDY	31-08-78
154.	2544798	HAV	V SRINIVASULU REDDY	30-09-78
155.	2544202	HAV	VA KUPPAN	31-08-78

THE GRENADIERS

156.	2641013	HAV	BALDEV SINGH	31-12-78
157.	3948565	HAV	BISHESHAR SINGH	31-12-78
158.	2640912	HAV	DURVIJAI SINGH YADAV	30-11-78
159.	2640822	HAV	INDAR SINGH	30-09-78
160.	2640969	HAV	JAG RAM	31-12-78
161.	2640779	HAV	KHUSHAL SINGH	30-09-78
162.	2640782	HAV	MAN SINGH	31-08-78
163.	2640799	HAV	PARKASH SINGH	30-09-78
164.	2640781	HAV	ROOP CHAND	30-09-78
165.	2640901	HAV	SHAM LAI	30-11-78

THE MARATHA LIGHT INFANTRY

166.	2742457	HAV	NAMDEO GANPATRAO KUMBHAR	30-09-78
167.	2742278	HAV	PARSH RAM KADAM	18-08-78
168.	2742516	HAV	RAGHU NATH KADAM	19-06-78

THE RAJPUTANA RIFLES

169.	2844305	HAV	ANUP SINGH	31-10-78
170.	2844597	HAV	BALJIT SINGH	31-12-78
171.	2844290	HAV	BAL KISHAN	30-09-78
172.	2844320	HAV	DAN SINGH	31-10-78
173.	2846057	HAV	DAYA NAND	31-10-78
174.	2844263	HAV	PARSA SINGH	30-09-78
175.	2945626	HAV	RAM SINGH	31-12-78
176.	2844348	HAV	RAN SINGH	31-10-78
177.	2843991	HAV	SHRI RAM	02-05-78

THE RAJPUT REGIMENT

178.	2945346	HAV	BASANTA GOCHHAIT	31-10-78
179.	2944709	HAV	FAUJDAR SINGH	31-08-78
180.	2945660	HAV	GAYA PAL SINGH	31-12-78
181.	2945501	HAV	HARBANS SINGH	30-11-78
182.	2945164	HAV	MUNSHI SINGH	30-09-78
183.	2945546	HAV	NARAIN SINGH	31-12-78
184.	2944901	HAV	RAM CHARAN SINGH	31-08-78
185.	2944998	HAV	RAM MURAT SINGH	30-09-78
186.	2945506	HAV	REWANT SINGH	30-11-78
187.	2944452	HAV	SHIVJIT SINGH	31-05-78
188.	2945140	HAV	VAD PARKASH	30-09-78

THE JAT REGIMENT

189.	3141577	HAV	BACHAN SINGH	31-12-78
190.	3141517	HAV	CHHOTU RAM	30-11-78
191.	3141616	HAV	JAG RAM	31-12-78
192.	3141612	HAV	JAI KISHAN	31-12-78
193.	2440569	HAV	NAFE SINGH	30-11-78
194.	3141604	HAV	OM PARKASH	31-12-78
195.	3141251	HAV	RAM GOPAL	31-08-78
196.	3141328	HAV	RAM PARSHAD	30-09-78
197.	3141229	HAV	ROHTAS SINGH	31-08-78

THE SIKH REGIMENT

198.	3345276	HAV	AJIT SINGH	30-11-78
199.	3344522	HAV	BALBIR SINGH	31-08-78
200.	3345063	HAV	BALBIR SINGH	31-10-78
201.	3345206	HAV	BALDEV SINGH, SM	30-11-78
202.	3344638	HAV	BALWANT SINGH	31-08-78

203.	3344840	HAV	BANT SINGH	30-09-78
204.	3344906	HAV	DAYAL SINGH	30-09-78
205.	3344519	HAV	GJAN SINGH	31-08-78
206.	3344664	HAV	HARBHAJAN SINGH	31-08-78
207.	3345470	HAV	JOGA SINGH	31-12-78
208.	3346434	HAV	JOGINDER SINGH	31-10-78
209.	3345160	HAV	KIDAR NATH	31-10-78
210.	3344926	HAV	MANGAT SINGH	30-09-78
211.	3345061	HAV	PRITAM SINGH	31-10-78
212.	3345573	HAV	SALINDAR SINGH	31-12-78
213.	3345045	HAV	SHANGARA SINGH	31-10-78
214.	3345156	HAV	SURAT SINGH	31-10-78
215.	3344867	HAV	ZAIL SINGH	30-09-78

THE SIKH LIGHT INFANTRY

216.	4436664	HAV	BARA SINGH	30-11-78
217.	4436783	HAV	BHAN SINGH	31-12-78
218.	4436609	HAV	GARIB SINGH	30-11-78
219.	4436721	HAV	GURMEL SINGH	31-12-78
220.	4436627	HAV	HARI SINGH	30-11-78
221.	4436409	HAV	JAGGAN SINGH	31-08-78
222.	2440246	HAV	KARTAR SINGH	31-08-78
223.	4436725	HAV	MUKHTIAR SINGH	31-12-78
224.	4436681	HAV	RAM SINGH	31-12-78
225.	4436427	HAV	SWARAN SINGH	31-08-78

THE DOGRA REGIMENT

226.	3947578	HAV	AMAR CHAND	31-08-78
227.	3948539	HAV	AMAR SINGH	30-11-78
228.	3947555	HAV	BAHADUR SINGH	31-08-78
229.	3948696	HAV	BALWANT SINGH	31-12-78
230.	3943275	HAV	CHAUDHRI RAM	31-10-78
231.	3947821	HAV	DHAN SINGH	31-08-78
232.	3947713	HAV	GIAN CHAND	31-08-78
233.	3947662	HAV	JARNAIL SINGH	31-08-78
234.	3948085	HAV	MAYA RAM JOSHI	31-10-78
235.	3947949	HAV	PRITAM SINGH	30-09-78
236.	3948160	HAV	PUNNU RAM	31-10-78
237.	3948165	HAV	RAM LAL	31-10-78
238.	3947476	HAV	RAM NATH SHARMA	31-08-78
239.	3947634	HAV	RATTAN SINGH	31-08-78
240.	3948002	HAV	RISAL SINGH	31-10-78
241.	3948256	HAV	ROSHAN LAL	31-10-78
242.	3947665	HAV	SADHU RAM	31-08-78
243.	3948031	HAV	SHAM LAL	31-10-78

THE GARHWAL RIFLES

244.	4036343	HAV	ABTAR SINGH CHAUDHRI	31-08-78
245.	4035401	HAV	AUTAR SINGH PHARSWAN	31-07-78
246.	4036703	HAV	BHAGIRATH KUMEDI	28-02-78
247.	4036410	HAV	BHAWAN SINGH RAWAT	30-09-78
248.	4036411	HAV	BIRBAL SINGH NEGI	20-10-78
249.	4036339	HAV	GOVIND SINGH RAWAT	31-08-78
250.	4036536	HAV	GULAB SINGH BISHT	30-11-78
251.	4036915	HAV	INDAR SINGH NEGI	15-09-78
252.	4036538	HAV	KUNDAN SINGH BISHT	30-11-78
253.	4036471	HAV	KUNDAN SINGH GUSAIN	30-09-78
254.	4036880	HAV	LAKHI RAM BAILWAL	23-08-78
255.	4036507	HAV	LAKSHMAN SINGH BISHT	31-10-78
256.	4036243	HAV	MAHENDAR SINGH	31-05-78
257.	4036447	HAV	NARAIN SINGH GUSAIN	30-09-78
258.	4036698	HAV	RAM SINGH BISHT	31-01-78
259.	4036272	HAV	SARDAR SINGH BHANDARI	31-07-78

THE KUMAON REGIMENT

260.	4142832	HAV	BAL KRISHAN	31-05-78
261.	4143074	HAV	BHANWAR SINGH	30-09-78
262.	4143008	HAV	CHANCHAL SINGH	31-08-78
263.	4143202	HAV	KESHAR SINGH	31-10-78
264.	4142947	HAV	LAKHAN SINGH	31-07-78
265.	4143049	HAV	NANDAN SINGH MEHRA	30-09-78
266.	4142989	HAV	PAN SINGH	31-08-78
267.	4143128	HAV	RAM CHANDAR	31-10-78
268.	4143114	HAV	RAM JANAM	30-09-78
269.	4143020	HAV	SHOBAN SINGH	31-08-78

THE BIHAR REGIMENT

270.	4235765	HAV	BRIJ LAL YADAV	31-10-78
271.	4235895	HAV	SIBA TIRKEY	31-12-78

THE MAHAR REGIMENT

272.	9202439	HAV	AMAR NATH	31-12-78
273.	9202428	HAV	BIDHU	31-12-78
274.	9202391	HAV	BUDHWA KHESS	31-12-78
275.	9202214	HAV	MADAN LAL	30-11-78
276.	9202266	HAV	MANGEI BEHERA	30-11-78
277.	9202346	HAV	MASTU RAM	31-12-78

THE JAMMU AND KASHMIR LIGHT INFANTRY

278.	9093444	HAV	RASOOL SHAH	30-09-78
------	---------	-----	-------------	----------

1 GORKHA RIFLES

279.	5334110	HAV	DEV JANG GHARTI	31-12-78
280.	5032542	HAV	IRKHA BAHADUR ROKA	31-10-78
281.	5032618	HAV	KHEM LAL GURUNG	31-12-78

3 GORKHA RIFLES

282.	5233935	HAV	BIKRAM SINGH THAPA	31-05-78
283.	5234023	HAV	DIL BHADUR BURATHOKI	31-10-78
284.	5234049	HAV	EM BAHADUR RANA	31-10-78
285.	5233954	HAV	HARI PARSAD THAPA	31-03-78
286.	5233963	HAV	RAJ MAN GURUNG	31-03-78
287.	5234048	HAV	TUL BAHADUR RANA	31-10-78

4 GORKHA RIFLES

288.	5334136	HAV	BIRENDAR SINGH THAPA	31-10-78
------	---------	-----	----------------------	----------

5 GORKHA RIFLES

289.	5436008	HAV	BIL BAHADUR PUN	31-12-78
290.	5435819	HAV	DEBI SING RANA	30-09-78
291.	5435965	HAV	GUJMAN GURUNG	30-11-78
292.	5435973	HAV	MEK BAHADUR THAPA	30-11-78
293.	5436577	HAV	SATAL SING GURUNG	31-12-78

8 GORKHA RIFLES

294.	5736524	HAV	BHAKTA BAHADUR PUN	31-10-78
295.	5736712	HAV	ER BAHADUR GURUNG	31-12-78
296.	5736664	HAV	JANG BAHADUR THAPA	30-11-78
297.	5736818	HAV	KABIRAJ THAPA	31-12-78
298.	5737403	HAV	LAL SINGH PUN	31-12-78
299.	5736710	HAV	MAN BAHADUR THAPA	30-11-78

9 GORKHA RIFLES

300.	5834121	HAV	DAL BAHADUR KHATTRI	30-06-78
301.	5834178	HAV	EMAN SINGH BASNET	30-11-78

11 GORKHA RIFLES

302.	9403758	HAV	CHOK BAHADUR RAI	30-11-78
303.	9403626	HAV	KRISHNA DHOJ RAI	31-03-78
304.	9403705	HAV	MANA RAM RAI	30-09-78
305.	9403727	HAV	PANCHA BAHADUR RAI	30-09-78
306.	9403763	HAV	SURJU LAMA	31-12-78

ARMY SERVICE CORPS (ANIMAL, TRANSPORT)

307.	6443313	DFR	PARYAG SINGH	30-06-78
308.	6443447	DFR	V KESAVAN NAIR	30-09-78

ARMY SERVICE CORPS (MECHANICAL TRANSPORT)

309.	6594260	HAV	BACHE SINGH	30-09-78
310.	6594378	HAV	BACHCHU LAL TEWARI	31-10-78
311.	6594742	HAV	DHARAM DEV	31-12-78
312.	6596032	HAV	FATTA RAM	30-11-78
313.	6594781	HAV	KHIALI RAM	31-12-78
314.	6596165	HAV	M MUNU SWAMY	31-10-78
315.	6593827	HAV	M VASUDEVA KARNAVAR	31-10-78
316.	6588946	HAV	MAKHAN PASWAN	31-10-78
317.	6593384	HAV	MANGAL HORO	31-05-78
318.	6593501	HAV	PATIL RANGA RAO DHONDAJI	31-08-78
319.	6494637	HAV	RADHE SHYAM OJHA	30-11-78
320.	6594539	HAV	SHISH PAL SINGH	30-11-78
321.	6594576	HAV	SURJA RAM	30-11-78
322.	6593861	HAV	TEJ BHAN SINGH	31-10-78

ARMY MEDICAL CORPS

323.	6790443	HAV	BACHI RAM	31-12-78
324.	6789906	HAV	CHHITESHVAR UPADHYAY	30-09-78
325.	6789738	HAV	DHARAM CHAND	31-07-78
326.	6785477	HAV	GK NAIR KK	31-05-78
327.	6789911	HAV	GUMAN SINGH	30-09-78
328.	6784896	HAV	HULLE KUBER BAPU	09-09-78
329.	6789771	HAV	JAGMOHAN ROY	31-07-78
330.	6593730	HAV	JOGINDARA SHAW	30-09-78
331.	6784602	HAV	EK NARAYANAN NAMBIAR	31-12-78
332.	10193328	HAV	LEKH RAJ	31-12-78
333.	6784257	HAV	MOHINDER SINGH	30-09-78
334.	6785313	HAV	OT MATHAI	30-06-78
335.	6784066	HAV	RAMAN UNNY	31-07-78
336.	6759129	HAV	RAM SINGH	31-08-78
337.	6784355	HAV	SWAMINATHAN	31-10-78
338.	6785592	HAV	T RAMA KURUP	31-08-78

ARMY ORDNANCE CORPS

339.	6867245	HAV	AMALANANDA ADHIKARY	30-09-78
340.	6867100	HAV	ARJUN SINGH	31-07-78
341.	6867123	HAV	BHIMRAYA MUCHCHANDI	31-08-78
342.	6867146	HAV	BHOLA HARIJAN	31-08-78
343.	6867110	HAV	BHOPAT RAM	31-08-78
344.	6867215	HAV	DIWAN SINGH	30-09-78
345.	6867182	HAV	HIRA SINGH	31-08-78
346.	6867118	HAV	MC KRISHNAN KUTTY	31-08-78
347.	6867184	HAV	PHILIP KERKETTA	31-08-78
348.	6867147	HAV	SUDAMA RAM	31-08-78
349.	6867186	HAV	SUMER SINGH	31-08-78
350.	6867148	HAV	SURAJ PARKASH	31-08-78

CORPS OF ELECTRICAL AND MECHANICAL ENGINEERS

351.	7035991	HAV	BACHITTAR SINGH	30-09-78
352.	7032948	HAV	BHAGWAN SWARUP	31-08-78
353.	7034680	HAV	BHANA RAM SHARMA	31-12-78
354.	7029582	HAV	BHUMI CHAND	30-04-78
355.	7032800	HAV	BRIJ MOHAN	31-07-78
356.	7035840	HAV	CAMIL	31-08-78
357.	7030399	HAV	CHAIN SINGH	31-10-78
358.	7035600	HAV	CHANDU LAL SUTHAR	31-08-78
359.	7034470	HAV	D ISAAC	31-05-78
360.	7033092	HAV	DADA SAHEB MOHITE	31-08-78
361.	7034141	HAV	DATTA RAM TUKA RAM PARAB	31-10-78
362.	7029173	HAV	GAJADHAR SINGH	31-12-78
363.	7032959	HAV	GIRDHARI LAL PENTHRY	31-08-78
364.	7034872	HAV	ITWARI	19-06-78

365. 7028989	HAV	JAGDEESH KALGUTKAR	31-12-78
366. 7029463	HAV	JOGINDER SINGH	30-06-78
367. 7032891	HAV	K BALAKRISHNAN NAIR	31-08-78
368. 7035990	HAV	KM CHANDRAN GANDAN	30-09-78
369. 7029571	HAV	KP JOHN	31-12-78
370. 7036248	HAV	KP RAMACHENDRAN	31-10-78
371. 7029770	HAV	KANCHAN SINGH	31-12-78
372. 7034438	HAV	KESHAV RAM	30-11-78
373. 7030654	HAV	KURIYAKOSE TE	04-06-78
374. 7033838	HAV	LACHHMAN SINGH	30-09-78
375. 7033727	HAV	MATHEW EO	30-09-78
376. 7033441	HAV	MOHAN NATH SINGH RAWAT	30-09-78
377. 7033335	HAV	N ANANDAN	31-08-78
378. 7034517	HAV	NUR MOHAMAD CHAND BAIRAGDAR	31-12-78
379. 7029322	HAV	OM PARKASH	31-08-78
380. 7029368	HAV	P BOOPALAN	30-09-78
381. 7034247	HAV	PARMA NAND TYAGI	30-11-78
382. 7029522	HAV	PRALHAD GARAD	31-08-78
383. 7034071	HAV	PREM SINGH	31-10-78
384. 7034115	HAV	RADHE SHYAM	30-11-78
385. 7033569	HAV	RAGHUNATH RAO SARWATE	30-09-78
386. 7032813	HAV	RAJ MOHAN	31-07-78
387. 7033886	HAV	RAM CHANDAR	31-05-78
388. 7033404	HAV	RAM PRATAP SINGH	31-08-78
389. 7032889	HAV	S RAJYA	31-08-78
390. 7033707	HAV	SITAL SINGH	30-09-78
391. 7034699	HAV	SRI KRISHAN TIWARI	31-12-78
392. 7024371	HAV	TEHAL SINGH	30-09-78
393. 7034296	HAV	TEJ NARAIN SINGH	30-11-78
394. 7033413	HAV	TRILOK SINGH RAWAT	30-09-78
395. 7033771	HAV	VH LOLAGE	30-09-78
ARMY EDUCATIONAL CORPS			
396. 1145732	HAV	BANWARI LAL	31-12-78
397. 1024804	HAV	HARI SINGH	31-08-78
THE INTELLIGENCE CORPS			
398. 1025828	HAV	JAGIR SINGH	30-11-78
399. 5435981	HAV	LIL BAHADUR GURUNG	30-11-78
400. 3946997	HAV	PARSHOTAM SINGH	30-11-78
401. 6269791	HAV	SUKHBIR SINGH	31-08-78
CORPS OF MILITARY POLICE			
402. 2944987	HAV	JAI RAM SINGH	30-09-78
403. 2544219	HAV	KR BALAKRISHNAN NAIR	31-08-78
404. 4143319	HAV	KESHAB DATT	31-08-78
405. 3344732	HAV	PRITAM SINGH GILL	31-08-78
406. 4235707	HAV	RAM RATAN SINGH	30-09-78
ARMY PHYSICAL TRAINING CORPS			
407. 2945560	HAV	AMAR SINGH	31-12-78
408. 3947465	HAV	BHAJAN SINGH	30-08-78
409. 5435866	HAV	DIL BAHADUR PUN	30-10-78
410. 3948751	HAV	JOGHAL RAM	31-12-78
411. 1028441	HAV	KARAM CHAND	30-09-78
412. 5435477	HAV	KHARAKA BAHADUR SAHI	30-11-78
413. 6789843	HAV	NARAIN SINGH BISHT	31-08-78
414. 3141355	HAV	PIYARE LAL	30-09-78
415. 6270198	HAV	RAM DULARE	31-10-78
416. 6789938	HAV	RAM LAL	30-09-78
DEFENCE SECURITY CORPS			
417. 8805890	HAV	MB VASU	31-08-78
418. 8796440	HAV	MAHESHA NAND JOSHI	31-10-78
419. 8801500	HAV	NATHU SINGH	30-09-78
420. 7991186	HAV	R RAMAKRISHNAN	31-12-78
421. 8793589	HAV	SAHIB SINGH	31-10-78
422. 8798627	HAV	VISHNU CHAVAN	30-11-78
423. 8797956	HAV	Y APPARAO REDDY	30-09-78

सं० 4—ई तारीख 20 जनवरी, 1979 राष्ट्रपति निम्नलिखित नियुक्तियाँ करते हैं :—

भारतीय नौसेना

स्थायी संवर्ग

स्पेशल ड्यूटीज लिस्ट

निम्नलिखित मास्टर चीफ पेटी अफसरों को 26 जनवरी, 1979 से भारतीय नौसेना की सक्रिय सूची में अवैतनिक कर्मीशन प्रदान किया जाता है :—

अवैतनिक सब-सैप्टिनेंट "स्पेशल ड्यूटीज" होंगे

क्रम सं०	नाम	रैंक	न०
1.	कर्नैल सिंह	एम सी एम ई 1	61156
2	एन० जे० इरेरा	एम सी एम ई 1	60641

[फाइल एच ए/2504/76]

एम० एन० बाजपे, संयुक्त सचिव

No. 4-E dated 20th January, 1979 the Present is pleased to make the following appointments: —

**INDIAN NAVY
PERMANENT CADRE
SPECIAL DUTIES LIST**

The following Master Chief Petty Officers are granted Honorary Commission on the Active List in the Indian Navy with effect from 26 January 1979:—

To be Honorary Sub-Lieutenants "Special Duties"

Sl. No.	Name	Rank	No.
1.	Karnail Singh	MCME I	61156
2.	N.J. Ereira	MCME I	60641

[File HA/2504/76]

S.N. BAJPE, Jt. Secy.

वायुसेना शाखा

सं० 5-ई, दिनांक 18 जनवरी, 1979 वायु सेना विनियमावली के पैराग्राफ 344 के अधीन निम्नलिखित आनरेरी फ्लाइटिंग अफसरों को 26 जनवरी 1979 से आनरेरी फ्लाइट लेफ्टिनेंट के रूप में पदोन्नत किया जाता है ।

27701	मा बा अ (आनरेरी फ्लाइटिंग अफसर) टॉम डेविड ए सी एच जी डी
19679	मा बा अ (आनरेरी फ्लाइटिंग अफसर) जोसेफ पी वी ब्लैक एकाउंट्स
101316	मा बा अ (आनरेरी फ्लाइटिंग अफसर) ठाकुर आर सी एयर क्रैम फिटर
43466	मा बा अ (आनरेरी फ्लाइटिंग अफसर) मुथियन टी एस ब्लैक जी डी
12549	मा बा अ (आनरेरी फ्लाइटिंग अफसर) रामकृष्णन् डी इलेक्ट फिटर
33942	मा बा अ (आनरेरी फ्लाइटिंग अफसर) रणजीत सिंह एम टी डी
20960	मा बा अ (आनरेरी फ्लाइटिंग अफसर) रामास्वामी वी जी टी आई

[बा से मु०/40254/78/पी ए III]

AIR BRANCH

No. 5-E dated 18th January, 1979. -The undermentioned Honorary Flying Officers are promoted as Honorary Flight Lieutenants with effect from 26th January, 1979 under para 344 of Regulations for the Air Force.

27701	MWO (Hony Fg Offr)	Tom David	ACH GD
19679	MWO (Hony Fg Offr)	Joseph P V	Clk Accts
101316	MWO (Hony Fg Offr)	Thakur R C	A f Fit
43466	MWO (Hony Fg Offr)	Muthian T S	Clk GD
12549	MWO (Hony Fg Offr)	Ramakrishnan D	Elect Fit
33942	MWO (Hony Fg Offr)	Ranjit Singh	M T D
20960	MWO (Hony Fg Offr)	Ramaswamy V	G T I

[Air HQ/40254/78/PA III]

सं० 6-ई, दिनांक 18 जनवरी, 1979 वायुसेना विनियमावली के पैराग्राफ 344 के अधीन निम्नलिखित मास्टर वारंट अफसरों/वारंट अफसरों को 26 जनवरी 1979 से फ्लाइट अफसर के रैंक में आनरेरी कमीशन प्रदान किया जाता है :—

20742	मा अ नारायणन एम	क्लर्क जी डी
35826	मा बा अ लिंगम एन के	रेडियो फिटर
28704	मा वा अ पिल्लै पी बी डी	एम टी डी
35724	मा बा अ बालकृष्णन एम	एम टी फिटर
30100	मा बा अ बसू जे के	इलेक्ट्रिक फिटर
18685	मा वा अ मिश्र आई सी	एयर क्रैम फिटर
22078	मा बा अ मिश्र आर एन	वेपन फिटर
29953	मा वा अ जोसेफ एम के	ए डी एम ग्रा
38013	मा बा अ कालिया पी एन	इंजन फिटर
181516	मा बा अ राजन बी जी	इक्विपमेंट असिस्टेंट
28973	मा वा अ कृष्णमूर्ति आर एन	जी टी आई
49474	वारंट अफसर नायर पी ए	मा बा से पुलिस
13598	मा बा अ हरभजन सिंह	फ्लाइट मिगनलर

[वा० से मु०/40254/78/पा ए III]

No. 6-E, dated 18th January, 1979 The undermentioned MWOs/WOs are granted Honorary Commission in the rank of Flying Officer with effect from 26th January, 1979 under para 344 of Regulations for the Air Force:—

20742	MWO	Narayanan M	Clk GD
35826	MWO	Lingam NK	Rdo Fit
28704	MWO	Pillai PVD	M T D
35724	MWO	Balakrishnan M	MT Fit.
30100	MWO	Basu JK	Elect Fit.
18685	MWO	Misra YC	AF Fit
22078	MWO	Misra RN	Wpn Fit
29953	MWO	Joseph MK	A D S O
38013	MWO	Kalia PN	Eng Fit.
181516	MWO	Rajan VG	Eq Asst.
28973	MWO	Krishnamurthy RN	G T I
49474	MWO	Nair PA	IAF/P
13598	MWO	Harbhajan Singh	Flt Sig.

[Air HQ/40254/78/PA III]

सं० 7-ई, दिनांक 18 जनवरी, 1979 वायुसेना विनियमावली के पैराग्राफ 345 के अधीन 14480 मा बा अ चास्सा एस सी, एयर क्रैम फिटर (सेवानिवृत्त) को सेवानिवृत्त मूची पर 26 जनवरी 1979 से फ्लाइट अफसर का आनरेरी रैंक प्रदान किया जाता है ।

[वा० से मु०/40254/78/पी ए -III]

[सं० रात्र, मयूक्त सवित्र]

No. 7-E, dated 18th January, 1979 14480 MWO CHASSA SC Af Fit (Retd) is granted the Honorary Rank of Flying Officer with effect from 26th January, 1979 on the retired list under para 345 of Regulations for the Air Force.

[Air HQ/40254/78/PA III]

S. N. RAO, Jt. Secy.

100221125
8/1/78